

इलेक्ट्रीशियन (ELECTRICIAN)

NSQF स्तर - 5

पहला वर्ष - भाग - II (कुल दो भाग)
1st Year - (Volume - II out of II)

व्यवसाय अभ्यास (TRADE PRACTICAL) - HINDI

(व्यावसायिक क्षेत्र : इलेक्ट्रीकल)
(Sector : Electrical)



Directorate General of Training

प्रशिक्षण महानिदेशालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
भारत सरकार



राष्ट्रीय अनुदेशात्मक
माध्यम संस्थान, चेन्नई

पो.बा. सं. 3142, CTI कैम्पस, गिण्डी, चेन्नई - 600 032

व्यावसायिक क्षेत्र : इलेक्ट्रोनिकल

अवधि : 2 - वर्ष

व्यवसाय : इलेक्ट्रोशियन - व्यवसाय अभ्यास - प्रथम वर्ष - भाग - II (कुल दो भाग)

प्रदाशनाधिकार © 2018 राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संसाथन, चेन्नई

प्रथम संस्करण : अक्टूबर 2018, प्रतियाँ : 1,000

Rs. 185/-

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस प्रकाशन का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी साधन के माध्यम से इलैक्ट्रानिक या यांत्रिक फोटो कापी सहित, रिकार्डिंग या किसी सूचना भण्डारण और पुनःप्राप्ति द्वारा प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना न तो उद्धृत किया जा सकता है और ना ही प्रसारित किया जा सकता है।

प्रकाशक :

राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान

पो.बा. सं. 3142, CTI कैम्पस, गिण्डी इण्डस्ट्रियल एस्टेट,
गिण्डी, चेन्नई - 600 032.

फोन: 044-2250 0248, 2250 0657

फैक्स: 91- 44 -2250 0791

ई-मेल: chennai-nimi@nic.in, nimi_bsnl@dataone.in

वेब-साइट: www.nimi.gov.in

प्राक्कथन

भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वकांक्षी ध्येय निर्धारित किया है कि सन् 2020 तक 30 करोड़ लोगों को अर्थात् हर चार में से एक भारतीय को कौशल प्रदान करना है और राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अन्तर्गत उनको रोजगार दिलाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण मातृभाषा में उपलब्ध कराना परम आवश्यक है। NIMI अपनी सभी अनुदेशात्मक सामग्री अंग्रेजी, राजभाषा हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करके इस लक्ष्य प्राप्ति में अपनी महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। इस प्रक्रिया में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, विशेषकर कौशल से परिपूर्ण कार्मिक जन-शक्ति को तैयार करने में और इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षकों को तत्कालीन आवश्यक औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ITI का पाठ्य-क्रम हाल में सुधारा गया है और इस कार्य में एक परामर्शदात्री परिषद की सहायता ली गई है। परामर्शदात्री परिषद के गठन में तत्सम्बन्धित सदस्यों का समावेश होता है, जैसे कि उद्योग, उद्यमी, शिक्षाविद और ITIs के प्रतिनिधि।

मुझे हर्ष है कि अपने लक्ष्य 'कुशल भारत' की प्राप्ति हेतु मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशलय (DGT), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन आने वाली श्वायत्तशासी निकाय, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान (NIMI), चेन्नई जिसको अनुदेशात्मक माध्यम पैकेजों (IMPs) के निर्माण, विकास तथा वितरण का कार्यभार सौंपा गया है वह ITI तथा कौशल प्रदान करने वाले तत्संबंधित संस्थानों की आवश्यकता हेतु सेमेस्टर पेटर्न के अधीन, इलेक्ट्रिक व्यवसाय की प्रस्तुत अनुदेशात्मक पुस्तक, इलेक्ट्रीशियन - व्यवसाय अभ्यास प्रथम वर्ष - भाग - II (कुल दो भाग) NSQF स्तर 5 प्रकाशित कर रहा है। मुझे हर्ष है कि इस अनुदेशात्मक सामग्री के अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण एक साथ प्रकाशित कर NIMI ने भी 'कुशल भारत' के लक्ष्य में अपनी भागदारी दर्ज करायी है।

इस काम के लिए NIMI के निर्देशक, कर्मचारी तथा माध्यम विकास परिषद (MDC) के सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। NSQF स्तर 5 व्यवसाय अभ्यास प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष स्तर प्रदान करेगा जिसके कारण उनकी कौशल प्रवीणता तथा दक्षता को विश्वभर में विधिवत् मान्यता मिलेगी; फलस्वरूप उनके पूर्व प्राप्त ज्ञान को भी मान्यता मिलने की संभावना में वृद्धि होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि NSQF स्तर 5 के इन IMPs से ITIs प्रशिक्षक, प्रशिक्षक तथा अन्य सम्बन्धित लोग भरपूर लाभ उठायेंगे तथा देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु NIMI द्वारा किया गया यह प्रयत्न दूरगामि परिणाम लाएगा।

NIMI के निर्देशक, कर्मचारी तथा माध्यम विकास कमिटी (MDC) के सदस्य इस प्रकाशन में प्रदत्त अपने योगदान हेतु अभिनंदन के पात्र हैं।

जय हिन्द !

राजेश अग्रवाल

महानिर्देशक / अतिरिक्त सचिव
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय,
भारत सरकार

नई दिल्ली - 100 001

भूमिका

राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान (NIMI) महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण (DGE&T) थ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी सरकार की तकनीकी सहायता से चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य शिल्पकार और प्रशिक्षण प्रशिक्षण योजना के अधीन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न व्यवसायों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री का विकास एवं प्रसार करना है।

अनुदेशात्मक सामग्री प्रमुख रूप से NCVT/NAC के अधीन शिल्पकार प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। जिससे व्यक्ति एक रोजगार हेतु कौशल प्राप्त कर सके। अनुदेशात्मक सामग्री को अनुदेशात्मक माध्यम पैकेजेस (IMPs) के रूप में विकसित एवं निर्मित किया जाता है। इस अनुदेशात्मक माध्यम पैकेज के रूप में व्यवसाय सिद्धान्त थोरी पुस्तक, व्यवसाय अभ्यास पुस्तक, परीक्षा और गृहकार्य पुस्तक, कार्यशाला संगणना एवं विज्ञान, अभियांत्रिकी चित्रण, अनुदेशक गाइड, वॉल चार्ट, एवं पारदर्शितायें निर्मित की जाती हैं।

प्रस्तुत व्यावसायिक अभ्यास पुस्तक प्रशिक्षण को सम्बन्धित सैद्धान्तिक ज्ञान देगी जिससे वह अपना कार्य कर सकेंगे। इसलिए पाठक हर शीर्षक को विभिन्न इकाइयों में बँटा हुआ पायेगा। परीक्षण एवं नियत कार्य के माध्यम से अनुदेशक प्रशिक्षणों को नियत कार्य दे सकेंगे। यदि प्रशिक्षण इसी पद्धति से कार्य करता है तो यह प्रशिक्षण को स्वयं नियत कार्य देने में सहायक होगा एवं वह स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर सकेगा है। वाल चार्ट (दीवार चित्र) और पारदर्शितायें अद्वितीय होती हैं। ये केवल अनुदेशक को प्रभावशाली तरीके से पाठ प्रस्तुत करने में सहायता ही नहीं करती बल्कि प्रशिक्षणों को तकनीकी शीर्षक जल्दी ग्रहण करने में भी मदद करती है। अनुदेशक निर्देशिका (इन्स्ट्रक्टर गाइड) अनुदेशक को अपनी अनुदेश योजना, कच्चे माल की आवश्यकता की योजना बनाने में सहायता करती है।

इस व्यवसाय प्रयोगात्मक पुस्तक में प्रशिक्षार्थियों द्वारा कार्यशाला में किये जाने वाले अभ्यासों की शृंखला है। इन अभ्यासों की रचना इस तरह से हैं कि कौशल के निर्धारित पाठ्यक्रम को आच्छादित करें। व्यवसाय सैद्धान्तिक पुस्तक प्रशिक्षार्थियों को रोजगार हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करती है। टेस्ट और ऐसाइनमेन्ट्स अनुदेशकों को प्रशिक्षार्थी द्वारा किये गये ऐसाइनमेन्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। वाल चार्ट और ट्रान्सपरेन्सीज अनूठी है, ये अनुदेशक को किसी विषय की प्रभावी प्रस्तुति ही नहीं बल्कि उनको प्रशिक्षार्थियों की समझ का आँकलन करने में सहायक है। अनुदेशक दिग्दर्शिका, अनुदेशकों को दैनिक अनुदेश का रखकर बनाने, कच्चे माल की आवश्यकतायें, प्रतिदिन पाठों और प्रदर्शनों की योजना बनाने में सक्षम हैं।

कौशल के प्रदर्शन क्रम को उत्पादक रूप में देखने हेतु अनुदेशात्मक वीडियो को QR code द्वारा एकीकृत कर क्रियात्मक प्रयोगात्मक पदों को अभ्यास में दिया गया है। अनुदेशक वीडियो, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की गुणवत्ता स्तर को सुधारकर और प्रशिक्षार्थियों को केन्द्रित होकर मूल कौशल के प्रदर्शन को उत्साहित करेगा।

IMPs प्रभावी सामूहिक कार्य निपादन के लिए आवश्यक संयुक्त कौशल देने का सफल प्रयत्न भी करते हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्रों से सम्बन्धित सामग्री भी इसमें संलग्न हो।

इस प्रकार एक संस्थान में पूर्ण अनुदेशात्मक माध्यम पैकेजेस (IMPs) की उपलब्धता प्रशिक्षक और प्रबन्धन को प्रभावशाली प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है।

प्रस्तुत IMPs NIMI के कर्मचारियों एवं मिडिया विकास कमेटी के सदस्यों के सामूहिक प्रयत्न का फल है। कमेटी के सदस्य के रूप में सरकारी एवं निजी व्यावसायिक उद्योगों, प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी तथा निजी ITIs के कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है।

NIMI विभिन्न राज्य सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशकों, सरकारी एवं निजि औद्योगिक क्षेत्र के प्रशिक्षण विभागों DGT तथा DGT क्षेत्र संस्थानों के अधिकारियों, प्रूफ रीडरों, व्यक्तिगत माध्यम विकासकर्ताओं एवं संयोजकों को प्रस्तुत सामग्री के प्रकाशन में उनके अमूल्य योगदान हेतु हार्दिक धन्यवाद देता है।

आर.पी. ढिंगरा

निदेशक

चेन्नई - 600 032

आभार

इलेक्ट्रिकल व्यवसाय के अधिन ITIs के लिए इलैक्ट्रिशियन NSQF स्तर- 5 की प्रस्तुत अनुदेशात्मक सामग्री (व्यवसाय अभ्यास) के प्रकाशन में अपना सहयोग देने हेतु राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान (NIMI) निम्नलिखित माध्यम विकासकर्ताओं तथा प्रायोजकों को हार्दिक धन्यवाद देता है।

मीडिया विकास समिति के सदस्य

श्री डी. एस. वरदराजुलू

- DD/प्रिन्सपल (से. नि.)
Govt. ITI (W), अम्बतूर, चेन्नई - 98

श्री जी. इतिराजुलू

- प्रिन्सपल (से.नि.),
Govt. ITI, गिण्डी, चेन्नई - 32

श्री पी. नटराजन

- सहायक प्रशिक्षण अधिकारी
Govt. ITI, अनैकट्टी
कोयमबत्तूर (जिला)

श्री के. मोहनदास

- सहायक प्रशिक्षण अधिकारी
Govt. ITI, उत्तर चेन्नई, चेन्नई - 21

NIMI समन्वयक

श्री के. श्रीनिवास राव

- संयुक्त निदेशक
NIMI, चेन्नई -32

श्री शुभांकर भौमिक

- सहायक प्रबन्धक,
NIMI, चेन्नई -32

NIMI ने अनुदेशात्मक सामग्री के विकास की प्रक्रिया में सराहनीय एवं समर्पित सेवा देने के लिए DATA ENTRY, CAD, DTP आपरेटरों की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है।

NIMI उन सभी कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता है जिन्होंने अनुदेशात्मक सामग्री के विकास के लिए सहायोग दिया है।

NIMI उन सभी का आभारी है जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अनुदेशात्मक सामग्री के विकास में सहायता की है।

आंशिक अनुवाद

- श्री सी. एम. गुप्ता
प्रशिक्षण अधिकारी, Govt. M.I.T.I.,
कोण, बिलासपूर, छत्तीसगढ़

- श्री कृष्ण चन्द्र प्राथन
प्रशिक्षण अधिकारी, Govt. I.T.I.,
सरिया, छत्तीसगढ़

- श्री किरीत कुमार धीरी
प्रशिक्षण अधिकारी, Govt. I.T.I.,
अकलतरा, छत्तीसगढ़

परिचय

यह मैनुअल ITI कार्यशाला में व्यवसाय प्रयोगात्मक हेतु है। इलैक्ट्रिकल सेक्टर में इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय के प्रथम सेमिस्टर प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम में अभ्यासों की शृंखला को प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पूर्ण किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास के प्रदर्शन में निर्देशों/सूचनाओं के लिये राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) - स्तर 5, पूरक व सहयोगात्मक है। पाठ्यक्रम में अभ्यासों की रचना समस्त निर्देशित कौशल के साथ सम्बन्धित व्यवसायों के अभ्यासों का आवंटन निश्चित करें। इलैक्ट्रिकल - सेक्टर इलैक्ट्रीशियन - प्रथम वर्ष - भाग - II (कुल दो भाग) के पाठ्यक्रम को 7 माड्यूल्स में बाँटा गया है। विभिन्न माड्यूल्स के लिये समय आवंटन निम्न प्रकार से है :

माड्यूल 1 - सेल्स और बैटरी	5 अभ्यास	50 घण्टे
माड्यूल 2 - मूलभूत वायरिंग अभ्यास	7 अभ्यास	100 घण्टे
माड्यूल 3 - वायरिंग स्थापना एवं अर्थिंग	9 अभ्यास	100 घण्टे
माड्यूल 4 - प्रदीप्ति	6 अभ्यास	50 घण्टे
माड्यूल 5 - मापक यंत्र	8 अभ्यास	75 घण्टे
माड्यूल 6 - घरेलू उपकरण	6 अभ्यास	75 घण्टे
माड्यूल 7 - ट्रान्सफार्मर	9 अभ्यास	75 घण्टे
कुल	50 अभ्यास	525 घण्टे

पाठ्यक्रम तथा माड्यूलों में दिए विषय वस्तु का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि ये माड्यूल एक दूसरे से जूँड़े हैं। आगे, इलैक्ट्रिकल विभाग में उपलब्ध कार्यस्थलों की संख्या, मशीनरी तथा उपकरण सीमित होते हैं। इन वाधाओं के कारण, यह आवश्यक है कि अभ्यासों को विभिन्न माड्यूलों में अन्तर्वेशित किया जाए, जिससे कि एक उपयुक्त पढ़ने तथा पढ़ाने का अनुक्रम बन जाए। विभिन्न माड्यूलों के लिए दिए गए अनुदेश सुझाव के अनुक्रम, अनुदेश के नियोजन में दिए गए हैं, जो अनुदेशक गाइड में समावेशित है। 5 कार्यकारी दिवसों के सप्ताह में 25 प्रायोगिक घण्टे हैं तथा इसलिए एक माह में प्रायोगिक के 100 घण्टे हैं।

व्यवसाय अभ्यास के विषय वस्तु

1st सेमिस्टर के दौरान की जानेवाले 2nd सेमिस्टर के अभ्यासों के लिए प्रक्रिया तथा प्रत्येक अभ्यास के अन्त में प्राप्त किये जाने वाले विशिष्ट उद्देश्यों को नीचे संकेत किये गए अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है।

उद्देश्य

प्रत्येक अभ्यास के अन्त में प्राप्त किये जाने वाले प्रवीणता उद्देश्यों की सूची को प्रत्येक अभ्यास के आरंभ में दिया गया है।

आवश्यकताएँ

अभ्यास को निष्पादित करने के लिए आवश्यक औजार/मापीयंत्र, उपकरण/मशीने तथा सामग्री, प्रत्येक अभ्यास के प्रथम पृष्ठ में दी गई है।

अभ्यास आरेख तथा प्रक्रिया

कार्यशाला स्थल में सैद्धान्तिक सूचना जिस में प्रशिक्षणार्थियों को विद्युतकार व्यवसाय में प्रायोगिक कौशल के साथ संज्ञात्मक कौशल भी प्राप्त हो सकने हेतु कौशल प्रशिक्षण की योजना प्रायोगिक अभ्यास/प्रयोग की शृंखला द्वारा दी जाती है। प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के साथ प्रशिक्षणार्थियों में समूहिक कार्य करने का भाव उत्पन्न करने हेतु न्यूनतम संख्या में परियोजनाएँ सम्मिलित की गई हैं। अभ्यासों में प्रशिक्षणार्थियों की विचारधारा विस्तृत करने हेतु यथासम्भव चित्रमय योजना बद्ध, तारस्थापन तथा परिपथ रेखाचित्र का समावेश किया गया है। इस पुस्तक को यथासम्भव कम से कम भाषा रूपी बनाने के लिए चित्रों को सम्मिलित किया गया है। अभ्यासों को पूर्ण करने केलिए अनुपालित की जानेवाली विधियाँ भी दी गई हैं। प्रशिक्षणार्थियों तथा अनुदेशक के मध्य अन्तः क्रिया को बाँधने के लिए अभ्यासों को जहाँ भी आवश्यक हुआ है, विभिन्न प्रकार के मध्यमवर्ती परीक्षण प्रश्न सम्मिलित किये गए हैं।

कौशल विवरण

प्रवीणता क्षेत्र जो पुनरावृत प्रकृति के हैं, उनको पृथक प्रवीणता विवरण शीट में दिया गया है। दूसरी ओर कौशल जिन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में विकसित किया जाना है उनको अभ्यासों में ही जोड़ दिया गया है। शीटों के शीर्षकों को विषय वस्तु में तिर्यकित (italics) में प्रत्येक के सापेक्ष पृष्ठ क्रमांक के साथ दिया गया है।

व्यवसाय अभ्यास पर यह पुस्तिका, लिखित निर्देशन सामग्री (WIM) का एक भाग है, जिसमें व्यवसाय प्रायोगिक तथा समानुदेश/परीक्षण की पुस्तिकायें भी सम्मिलित हैं।

विषय-क्रम

अभ्यास सं.	अभ्यास के शीर्षक	पृष्ठ सं.
	माड्यूल 1 : सेल्स और बैटरी (Cells and Batteries)	
2.1.65	विभिन्न प्रकार के सेलों का उपयोग (Use of various types of cell)	1
2.1.66	विभिन्न स्थितियों में विशेष वोल्टेज और करंट प्राप्त करने हेतु सेलों के समूहन का अभ्यास करना (Practice on grouping of cells for specified voltage and current under different conditions and care)	3
2.1.67	बैटरी चार्जिंग परिपथ को समझना, चार्जिंग सर्किट बनाकर अभ्यास करना (Prepare and practice on battery charging and details on charging circuit)	6
2.1.68	बैटरीयों का नियमित अनुरक्षण/मरम्मत एवं जाँच का अभ्यास (Practice on routine, care / maintenance and testing of batteries)	9
2.1.69	आवश्यक शक्ति प्राप्त करने हेतु श्रेणी / समान्तर संयोजन में सोलर सैल की संख्या निर्धारित करना (Determine the number of solar cells in series / Parallel for given power requirement)	11
	माड्यूल 2 : मूलभूत वायरिंग अभ्यास (Basic Wiring Practice)	
2.2.70	विभिन्न प्रकार के कांड्यूट तथा विभिन्न वैद्युतिक सहायक सामग्रियों की पहचानना करना (Identify various conduits and different electrical accessories)	13
2.2.71	विभिन्न के कंड्यूट को काटने, चुड़ी बनाने का अभ्यास करना एवं उन्हें स्थापित करना (Practice cutting, threading of different sizes of conduits and laying installations)	21
2.2.72	परीक्षण बोर्ड/विस्तार बोर्ड तैयार करना एवं उन पर बल्ब, बटन, फ्यूज रिले, MCB, ELCB, MCCB इत्यादि लगाना (Prepare test boards/extension boards and mount accessories like lamp holders, various switches, sockets, fuses, relays, MCB, ELCB, MCCB Etc.)	28
2.2.73	ले-आऊट तैयार कर न्यूनतम 15 मीटर की पाइप से कम से कम एवं अधिक बिन्दुओं हेतु केसिंग - केपिंग PVC वायरिंग का अभ्यास करना (Draw layouts and practice in PVC casing - capping, conduit wiring with minimum to more number of points of minimum 15 metre length)	30
2.2.74	PVC कांड्यूट वायरिंग करके दो विभिन्न स्थानों से एक लैप्प को कंट्रोल करना (Wire up PVC Conduit wiring to control one lamp from two different places)	32
2.2.75	PVC कांड्यूट में तार स्थापन करके एक लैम्प को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करना (Wire up PVC conduit wiring to control one lamp from 3 different places)	34
2.2.76	PVC कांड्यूट पर वायरिंग करना और सॉकेटों और लैम्पों के विभिन्न प्रकार के संयोजनों का स्विचों से नियंत्रण करने का अभ्यास करना (Wire up PVC Conduit wiring and practice control of sockets and lamps in different combinations using switching concepts)	37
	माड्यूल 3 : वायरिंग स्थापना एवं अर्थिंग (Wiring Installation and Earthing)	
2.3.77	वितरण फ्यूज बाक्स तथा I.C.D.P. कुंजी के साथ उपभोक्ता के मुख्य बोर्ड का तार स्थापन करना (Wire up the consumer's main board with I.C.D.P. switch and distribution fuse box)	40

अभ्यास सं.	अभ्यास के शीर्षक	पृष्ठ सं.
2.3.78	ऊर्जा मापी बोर्ड तैयार करना तथा आरोहित करना (Prepare and mount the energy meter board)	42
2.3.79	हास्टल, आवासी भवन एवं वर्कशाप की वायरिंग में लगने वाले सामानों का अनुमानित दर निकालना (Estimate the cost/bill of material for wiring of hostel/residential building and workshop)	46
2.3.80	छात्रावास और आवासी भवन का IE नियमानुसार वायरिंग अभ्यास करना (Practice wiring of hostel and residential building as per IE rules)	52
2.3.81	IE नियम अनुसार संस्था तथा कार्यशाला की वायरिंग का अभ्यास करना (Practice wiring of Institute and workshop as per IE rules)	54
2.3.82	घरेलू और औद्योगिक वायरिंग स्थापना में परीक्षण दोष खोजने का अभ्यास करना (Practice testing /fault detection of domestic and industrial wiring installation and repair)	56
2.3.83	पाइप अर्थिंग तैयार करना एवं अर्थ टेस्टर की सहायता से भू प्रतिरोध का मापन करना (Prepare pipe earthing and measure earth resistance by earth tester / megger)	58
2.3.84	प्लेट अर्थिंग तैयार करना एवं अर्थ टेस्टर / मैगर की सहायता से अर्थ प्रतिरोध का मापन करना (Prepare plate earthing and measure earth resistance by earth tester / megger)	61
2.3.85	रिले और ELCB के द्वारा अर्थ लीकेज का परीक्षण करना (Test earth leakage by ELCB and relay)	64
माड्चूल 4 : प्रदीप्ति (Illumination)		
2.4.86	प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बत्तियों के लिए परिवर्तकों सहित लाईट-फिटिंग लगाना (Install light fitting with reflectors for direct and indirect lightings)	66
2.4.87	विभिन्न वोल्टेज लैंपों को एक विशेष वोल्टेज के लिए समूह करना (Group different wattage lamps in series for specified voltage)	67
2.4.88	विभिन्न प्रकार के बल्बों की स्थापना/वायरिंग का अभ्यास करना जैसे - प्रदीप्ति बल्ब, उच्च दबाव मर्करी वेपर, निम्न दबाव मर्करी वेपर, उच्च दबाव सोडियम वेपर, निम्न दबाव सोडियम वेपर, मेटल हैलाईड, बल्ब इत्यादि (Practice installation of various lamps eg. fluorescent tube, HP mercury vapour, LP mercury vapour, HP Sodium vapour, LP Sodium vapour, Metal halide etc.)	70
2.4.89	इम कुंजियों के उपयोग से सजावटी लैंप परिपथों को तैयार करना (Prepare decorative lamp circuits using drum switches)	75
2.4.90	घुणन प्रकाश / चाल प्रकाश के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए एक सजावटी लैंप परिपथ तैयार करना (Prepare a decorative lamp circuit to produce rotating light effect/ running light effect)	76
2.4.91	शाकेस बत्तियों के लिए लाईट-फिटिंग स्थापित करना (Install light fitting for show case lighting)	78
माड्चूल 5 : मापक यंत्र (Measuring Instrument)		
2.5.92	विभिन्न एनालाग एवं डीजिटल उपकरणों का अभ्यास करना (Practice on various analog and digital measuring instruments)	79

अभ्यास सं.	अभ्यास के शीर्षक	पृष्ठ सं.
2.5.93	एकल फेज एवं त्री फेज परिपथ में मापक यंत्रों को संयोजित करने का अभ्यास करना उदा. - मल्टीमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, फेज सिक्वेंस मीटर और फ्रेक्वेंसी मीटर इत्यादि (Practice on measuring instrument in single and three phase circuit eg. multimeter, wattmeter, energy meter, phase sequence and frequency meter etc.)	83
2.5.94	दो वाटमीटर विधियों से 3-फेज परिपथ में पावर मापना (Measure the power in 3-phase circuit using two wattmeter methods)	86
2.5.95	3-फेज परिपथ में शक्तिगुणक मापना और वोल्टमीटर, ऐमीटर, वाटमीटर रीडिंग्स से उसे सत्यापित करना (Measure power factor in three phase circuit by using power factor meter and verify the same with Voltmeter, Ammeter, Wattmeter readings)	88
2.5.96	त्री फेज सर्किट में टॉन्ना टेस्टर का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रीकल मानदण्ड मापना (Measure electrical parameters using tong tester in three phase circuit)	91
2.5.97	विभिन्न मापक यंत्रों का सत्यापन एवं सीमा विस्तार/बढ़ाने का अभ्यास (Practice for range extension and calibration of various measuring instruments)	94
2.5.98	वोल्टेज ड्रॉप विधि से प्रतिरोध मापन में त्रुटियों का निर्धारण (Determine errors in resistance measurement by voltage drop method)	101
2.5.99	एकल कला ऊर्जा मापी में त्रुटी के लिए परीक्षण (Test single phase energy meter for its errors)	103
माड्यूल 6 : घरेलू उपकरण (Domestic Appliances)		
2.6.100	विद्युत उपकरण जैसे -कुकिंग रेंज, गीजर, वाशिंग मशीन और पम्प सेट के विभिन्न भागों को अलग करना एवं जोड़ना (Dismantle and assemble electrical parts of various electrical appliance e.g cooking range, geyser, washing machine and pump set)	106
2.6.101	बेल / बजर की देखभाल और मरम्मत (Service and repair of Bell / Buzzer)	110
2.6.102	घरेलू उपकरण जैसे - विद्युत आयरन, विद्युत केतली, कुकिंग रेंज और गीजर की सर्विसिंग और मरम्मत (Service and repair of electric iron, electric kettle, cooking range and geyser)	112
2.6.103	इंडक्शन हीटर और ओवन की सर्विसिंग एवं मरम्मत करना (Service and repair of Induction heater and oven)	119
2.6.104	मिश्रक तथा ग्राइन्डर की सर्विस तथा मरम्मत करना (Service and repair of mixer and grinder)	122
2.6.105	कपड़े धोने की मशीन की सर्विस तथा मरम्मत (Service and repair of Washing machine)	130
माड्यूल 7 : ट्रान्सफार्मर (Transformer)		
2.7.106	सिंगल फेज ट्रान्सफार्मरों की टर्मिनल्स/अवयव की पहचान करना और ट्रान्सफार्मेशन अनुपात की गणना करना (Verify terminals identify components and calculate transformation ratio of single phase transformer)	134
2.7.107	सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर की दक्षता निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का परीक्षण करना (Perform open circuit and short circuit test to determine the efficiency of single phase transformer)	136

अभ्यास सं.	अभ्यास के शीर्षक	पृष्ठ सं.
2.7.108	विभिन्न भार तथा शक्ति गुणकों पर दिये गये एकल कला ट्रांसफार्मर के नियामन को ज्ञात करना (Determine Voltage regulation of single phase transformer at different loads and power factors)	139
2.7.109	दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सीरीज और समान्तर में प्रचालन करना (Perform series and parallel operation of two single phase transformers)	141
2.7.110	श्री फेज ट्रांसफार्मर के HT तथा LT साइड के टर्मिनलों तथा सहायक संसाधनों का सत्यापन करना (Verify the terminals and accessories of three phase transformer HT and LT side)	143
2.7.111	तीन एकल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हुए हेतु (i) डेल्टा-डेल्टा (ii) डेल्टा - स्टार (iii) स्टार - स्टार (iv) स्टार-डेल्टा का 3 फेज प्रचालन करना (Perform 3 phase operation (i) delta - delta (ii) delta - star (iii) star-star (iv) star - delta by use of three single phase transforms)	146
2.7.112	ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण करना और बदलना (Test and replace transformer oil)	150
2.7.113	छोटे ट्रांसफार्मर को लपेटने का अभ्यास (Practice on winding of small transformer)	152
2.7.114	ट्रांसफार्मर के सामान्य अनुरक्षण का अभ्यास (Practice of general maintenance of transformer)	159

मूल्यांकन / अभ्यास परिणाम

प्रस्तुत पुस्तक के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य कर पाएँगें :

- बेटरियों और सोलार सेलों का परिस्थापन परीक्षण और अनुरक्षण
- वायरिंग पद्धति का अनुमान, संयोजन, परिस्थापन और परीक्षण
- भू-सपर्क परिस्थापना की योजना और तैयारी
- वैद्युत प्रदीपन पद्धति की योजना और निष्पादन
- मापक यंत्रों डिजिटल उपकरणों तथा उनकी माप व्यवस्था का चयन करना और मापना
- मापक यंत्रों से परीक्षण करना और त्रुटियों का सत्यापन करना
- घरेलू उपकरणों के संस्थापन की योजना बनाना, पूरी करना और दोष निवारण करना
- ट्रान्सफार्मरों का परिणक्षण, निष्पादन मूल्यांकन और रखरखाव करना ।

विभिन्न प्रकार के सेलों का उपयोग (Use of various types of cell)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- चार्ट अथवा भौतिक सेलों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सेलों का अध्ययन करना एवं व्याख्या करना
- सैलों का नाम, भाग तथा उपयोग बताना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

उपकरण

- विभिन्न प्रकार के सैल - प्रत्येक

सामग्री

- 1 नग

- विभिन्न सेलों का प्रदर्शन चार्ट

- 1 No.




प्रक्रिया (PROCEDURE)

अनुदेशक उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सैलों को टेबल में व्यवस्थित कर उनके प्रकार एवं उपयोग की जानकारी दें ।

1 सैलों के प्रकार का परिचय देते हुए या पहचान कर संबंधित सेल के सामने उनका नाम लिखते हैं या जैसे चार्ट में सैलों को दिखाया गया है, टेबल 1 (Fig 1 से Fig 6)

2 सैलों के पार्ट्स को अंकन किया गया है इस आधार पर टेबल में उनके अंकित नम्बर के सामने पार्ट्स के नाम एवं उपयोग लिखें ।

टेबल 1

आरेख	सेल का नाम	सेल के भाग	उपयोग
Fig 1		1 2 3 4	
			
Fig 2		1 2 3 4	
			
Fig 3		1 2 3 4	
			

आरेख	सेल का नाम	सेल के भाग	उपयोग
Fig 4		1 2 3 4 5	
		ELN2165H4	
Fig 5		1 2 3 4 5	
		ELN2165H5	
Fig 6		1 2 3 4 5	
		ELN2165H6	

3 अपने अनुदेशक से जाँच करायें।

— — — — —

विभिन्न स्थितियों में विशेष वोल्टेज और करंट प्राप्त करने हेतु सेलों के समूहन का अभ्यास करना (Practice on grouping of cells for specified voltage and current under different conditions and care)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- सेलों का श्रेणी कम में संयोजन करना
- सेलों का समान्तर क्रम में संयोजन करना
- सेलों का सीरीज और समान्तर में संयोजन।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- अमीटर (MC) 0 - 1A
- वोल्टमापी (MC) 0 - 15V
- अमीटर (MC) 0 - 500mA
- बहुमापी
- रिहोस्ट 200 ओह्म 3.7A

सामग्री

- | | | |
|---------|-------------------------|-----------------|
| • 1 No. | • सैल 1.5V | - 8 Nos. |
| • 1 No. | • SP कुंजी 6A, 250V | - 4 Nos. |
| • 1 No. | • सम्बन्धन लीड्स, विविध | - आवश्यकतानुसार |
| • 1 No. | • प्रतिरोधक 5 ओह्म 10W | - 1 No. |
| • 1 No. | • 4 सैल बैटरी पैक | - 2 Nos. |
| • 1 No. | • लघु लैम्प 6V/9V 300mA | - 1 No. |
| • 1 No. | • प्रतिरोधक 10 Ω 10W | - 1 No. |

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : श्रेणी सम्बन्धन में सेलों का समूहन

1 व्यक्तिगत सेलों को उनकी स्थिति के लिए जॉच करें

- 500 mA DC अमीटर या बहुमापी में 500 mA DC धारा परास का चयन करें।
- 3 ओह्म प्रतिरोधक के साथ श्रेणी में मापी के आर पार सेलों को जोड़ें।
- विक्षेप को देखें।

पूर्ण विक्षेप, सेल की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। कम विक्षेप, सेल की अनावेशित स्थिति को दर्शाता है।

उच्च आन्तरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी सम्बन्धन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।


सेलों की ध्रुवता के लिए सावधानी रखना चाहिए।

2 सेलों को Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार जोडें।

3 श्रेणी में जुड़े एक सेल की वोल्टता V_1 , दो सेल की वोल्टता V_2 , तीन सेल की वोल्टता V_3 , तथा चार सेल की वोल्टता V_4 , को मापें।

4 अपने प्रेक्षण को टेबल 1 के प्रथम तथा द्वितीय कॉलम में अभिलेखित करें।

Fig 1



5 टर्मिनल G को टर्मिनल A के साथ सम्पर्क करें तथा अमीटर पाठ्यांक तथा लैम्प के जलने की स्थिति को देखें।


6 टर्मिनल G के सम्पर्क को टर्मिनल BC तथा D से क्रमशः बदलें।

7 टेबल 1 में कॉलम 3 तथा 4 में अपने प्रेक्षण को अभिलेखित करें।

क्र. सं.	श्रेणी में सेलों की संख्या	वोल्टमापी का पाठ्यांक	अमीटर का पाठ्यांक	प्रदीप्ति
1				
2				
3				
4				

कार्य 2 : समानान्तर सम्बन्धन में सेलों का समूहन

- 1 प्रत्येक सेल की वोल्टता की जॉच करें।
 2 Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनायें।



- 3 कुंजी S1 को बंद करें, तथा धारा तथा वोल्टता को मांपें। मानों को टेबल 2 में कॉलम 2, 3 तथा 4 में अभिलेखित करें।

टेबल 2

क्र. सं.	समानान्तर में सेलों की संख्या	V	I

- 4 कुंजी S2, S3 तथा S4 को क्रमिक रूप से बंद करने के पश्चात V तथा I के पाठ्यांक को देखें तथा अभिलेखित करें।

असमान वोल्टता के सेलों को समानान्तर में नहीं जोड़े जा सकते।

निष्कर्ष

जब समान वोल्टता सेलों को समानान्तर में जोड़ा जाता है तो टर्मिनल वोल्टता _____ के बराबर होती है।

जैसे कि भार धारा, समानान्तर में सेलों से बट जाती है। इसलिए भार के आर पार टर्मिनल वोल्टता _____ होती है।

जब उसकी तुलना उसी भार को समानान्तर से सेलों की संख्या का प्रभाव

कार्य 3 : श्रेणी तथा समानान्तर सम्बन्धन में सेलों का समूहन।

अधिक वोल्टेज तथा अधिक धारा के लिए श्रेणी समानान्तर संयोजन।

- 1 ओह्मापी की सहायता से 12 ओह्म प्राप्त करने के लिए 20 ओह्म, 3.7A रिहोस्टेट की चल भुजा को सेट करें।
 2 एक समूह बनने के लिए 1.5V के चार सेलों को श्रेणी में जोडें। चार सेलों का एक और समान समूह बनायें। (Fig 3)
 3 4 सेलों के समूह को दो श्रेणी से जोड़े और परिपथ बनाये जैसा कि Fig 3 में दर्शाया गया है।

- 4 कुंजी S1 को बंद करें। वोल्टमापी तथा अमीटर को देखें। मानों को टेबल 4 की पंक्ति 1 में अभिलेखित करें।
 5 टेबल 4 की पंक्ति 1 में अभिलेखित किये गये अनुसार कुंजी की स्थितियों S1, S2 तथा S3 को रखें। V तथा I को क्रमिक कॉलमों में अभिलेखित करें।
 6 टेबल 4 की पंक्ति 3 से 6 में संकेत किये अनुसार कुंजी स्थितियों के विभिन्न संयोजन के लिए पद 5 को दोहरायें।

ग्रुप (a) और ग्रुप (b) के खुले सर्किट के वोल्टेज समान होना चाहिए यदि और सही-सही कहें तो उनके टर्मिनल पोटेन्शियल अन्तर समान होना चाहिए जब वे समान लोड का करन्त उपलब्ध करा रहे हों।

निष्कर्ष

जब समूह 'A' अकेले भार आपूर्ति करता है तो वोल्टता में गिरावट (कमी) (EMF-TPD) _____ है।


जब समूह 'B' अकेले भार आपूर्ति करता है तो वोल्टता में गिरावट (कमी) (EMF-TPD) _____ है।

यह संकेत करता है कि समूह 'A' का आंतरिक प्रतिरोध, समूह 'B' के आंतरिक प्रतिरोध से _____ है।

श्रेणी समान्तर में शून्य वोल्टता _____ है।

भार द्वारा ली गयी कुल धारा _____ के योग के बराबर होती हैं।

Fig 3



टेबल 3

टेबल	कुंजियों की स्थिति			I_1	I_2	V
	S_1	S_2	S_3			
1	बंद	खुला	खुला			
2	बंद	खुला	बंद			
3	खुला	बंद	खुला			
4	खुला	बंद	बंद			
5	बंद	बंद	खुला			
6	बंद	बंद	बंद			

बैटरी चार्जिंग परिपथ को समझना, चार्जिंग सर्किट बनाकर अभ्यास करना (Prepare and practice on battery charging and details on charging circuit)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- बैटरी का उपयोग करते हुए बैटरी को जोड़ना और चार्ज करना
- स्थिर चार्ज विधि से बैटरी को जोड़ना और चार्ज करना
- स्थिर विभव विधि से बैटरी को जोड़ना और चार्ज करना
- इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/उपकरण

- कटिंग प्लायर 150mm
- स्कूड्राइवर 150mm
- MC वोल्टमापी 0-15V
- MC अमीटर 0-10A
- हाइड्रोमापी
- उच्च दर डिसचार्ज टेस्टर

उपकरण/ मशीन

- बैटरी चार्जर 12V के लिए
- अल्प वोल्टता DC पावर आपूर्ति 0-30 वोल्ट 10A.
- परिवर्ती प्रतिरोधक 10 ohms, 5A capacity
- बैटरी 12V सीसा अम्ल (लेड एसिड) प्रकार

सामग्री

- डीस्टील वाटर
- पेट्रोलियम जैली
- सेन्ड पेपर
- परिष्काण लीड (क्लिप्स) क्रोकोडायल क्लिप्स
- क्लिप्स
- सांग्रसल्म्यूरिक एसिड
- 1 लीटर क्षमता के मिश्रण के लिए साफ जार - 2 Nos.
- काटन वेस्ट
- सोडा बाई-कार्बोनेट

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : बैटरी चार्जर के उपयोग से बैटरी को चार्ज करना।

1 बैटरी टर्मिनलों को साफ करें, यदि जंग लगा हो तो रेत कागज से: यदि सल्फेटिड हो तो नम व्यर्थ सूत से या सोडा वाईकार्बोनेट से साफ करें।

किसी भी धातु की पट्टी से खुरचते हुए बैटरी के टर्मिनलों को क्षतिग्रस्त न करें।

2 सभी निकास प्लगों को खोलें तथा विद्युत अपघट के तल की जॉच करें।

निकास प्लगों को खुला रखते हुए बैटरी की ऊपरी सतह को साफ न करें। जमी हुई गंदगी, सेलों के अंदर गिर सकती है तथा तलक्षण बना सकती हैं।


3 आसुत जल से सभी सेलों में चिन्हांकित तल तक इलेक्ट्रो लाइट को पूर्ण करें।

बैटरी को पूरा भरने के लिए इलेक्ट्रो लाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए।

4 हाइड्रोमापी के उपयोग से प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रो लाइट की आरंभिक विशिष्ट घनत्व की जॉच करें (Fig 1) तथा टेबल 1 में अभिलेखित करें।

5 वोल्टमापी सेल की वोल्टता तथा बैटरी की वोल्टता को मापें तथा टेबल 1 में अभिलेखित करें।

6




वोल्टता मापने के लिए उच्च दर के डिसचार्ज टेस्टर का उपयोग न करें।

6 चार्जर को +ve लीड को बैटरी के +ve टर्मिनल तथा चार्जर के लीड को बैटरी के -ve टर्मिनल से जोड़ें। (Fig 2)

7 बैटरी चार्ज -ve निर्गत वोल्टता को चार्ज की जाने वाली बैटरी वोल्टता के बराबर या कुछ उच्चपर समायोजित करें।

8 आरंभिक चार्जिंग करन्ट को ज्ञात मान को उत्पन्न करने के लिए चार्जर वोल्टता को सेट करें।

Fig 2



चार्जिंग के साथ-साथ डिसचार्जिंग के लिए करन्ट की सेटिंग के लिए निर्माता की अनुशंसा का पालन करें।


- 9 बैटरी के प्रत्येक सेल की वोल्टता तथा विद्युत अपघट के विशिष्ट धनत्व को नियमित अंतरालों पर देखें। (जैसे 1 घंटा)

गैस के विकासन के लिए निकास प्लग को अलग करें।

10 पूर्ण चार्ज होने पर बैटरी को अलग करें। निकास प्लग को लगायें, बाह्य सतह को नम कपड़े से साफ करें। टर्मिनलों पर पेट्रोलियम जैली लगायें।

11 कुछ समय के लिए उच्च दर डिसचार्ज परीक्षक का उपयोग करते हुये भार में उसकी संचाजन वोल्टता के लिए बैटरी की जाँच करें। (Fig 3)

Fig 3



उच्च दर के डिसचार्ज परीक्षक को लम्बी अवधी, माना पॉच सेकेण्ड से अधिक के लिए न रखें।

टेबल 1

सेल क्रं.	आरंभिक स्थिति		चार्जड स्थिति के पश्चात									
	विशिष्ट धनत्व	वोल्टता	1 Hr		2 Hrs		3 Hrs		4 Hrs		5 घंटा	
			SP	V	SP	V	SP	V	SP	V	SP	V
1												
2												
3												
4												
5												
6												

कार्य 2 : स्थिर करन्ट विधि से बैटरी चार्ज करना

- Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनायें।
- बैटरी टर्मिनलों को साफ करें एवं सभी निकास प्लगों को खोलें।
- विद्युत अपघट के तल की जाँच करें तथा यदि आवश्यक हो तो डिस्टील्ड पानी भरें।
- प्रत्येक सेल की वोल्टता तथा विशिष्ट धनत्व की जाँच करें, तथा चार्ज के पूर्व, टेबल 2 में अभिलेखित करें। Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार 'रिक्ट' (blank) टेबल बनायें।
- दी गयी बैटरियों को Fig 4 के अनुसार लैंप बैंक के साथ श्रेणी में जोडें।

6 लैंप बैंक के द्वारा करन्ट निर्धारण को समायोजित करें।


7 आरंभिक चार्जिंग करन्ट के ज्ञात मान का उत्पन्न करने के लिए लैंप बैंक को सेट करें।

बैटरी टर्मिनलों का स्पर्श न करें, क्योंकि परिपथ 220V DC से संबंध है।

परिपथों में उचित रक्षण युक्तियां उपलब्ध होना चाहिए।

- नियमित अन्तराल पर प्रत्येक टेबल 1 में अभिलेखित करें।
- कार्य 1 के चरण 10 तथा 11 को दोहरायें।

Fig 4




ELN2167-14

कार्य 3 : स्थिर विभव विधि से बैटरी को चार्ज करना

- 1 Fig 5 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनायें।
- 2 प्रकार 2 के चरण 2 से 4 को दोहरायें।
- 3 रिहोस्टेट के आवश्यक मान पर समायोजित करते हुए वोल्टता को समायोजित करें।
- 4 नियमित अन्तरालों पर वोल्टता, करन्ट तथा विशिष्ट घनत्व को पढ़ें तथा टेबल 3 में अभिलेखित करें। (टेबल 1 में दर्शाये गये अनुसार रिक्त टेबल को तैयार करें)।
- 5 कार्य 1 के पद 10 तथा 11 को दोहरायें।

Fig 5



ELN2167-15

कार्य 4 : इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना ।

- 1 इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री तैयार को।
- 2 कॉच के जार में डिस्टोल्ड पानी को आवश्यक मात्रा में भरें।
- 3 पानी में सान्द्र सल्फूरिक अम्ल को धीरे - धीरें मिलायें तथा साथ ही साथ एक कॉच की छड से मिलायें।

अत्यधिक ऊर्जा को उत्पन्न होने से रोकने के लिए एक साथ ज्यादा अम्ल में पानी न मिलायें।

- 4 मिश्रण को परिवेशी ताप तक पर्याप्त रूप से ठंडा होने दें।
- 5 विशिष्ट घनत्व को पढ़ें (Fig 1) यदि विशिष्ट घनत्व 1250 से कम हो तो ठीक विशिष्ट घनत्व को लाने के लिए कुछ और अम्ल (तेजाव) मिलायें।

ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोलाइट छलकने न पायें।

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - सेल और बैटरी

अभ्यास 2.1.68

बैटरीयों का नियमित अनुरक्षण/मरम्मत एवं जाँच का अभ्यास (Practice on routine, care / maintenance and testing of batteries)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- बैटरीओं के लिए नियमित रखरखाव अनुसूचि चार्ट तैयार करना
- बैटरीओं के साधारण रखरखाव की प्रक्रिया का पालन करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्जार/उपकरण	उपकरण/मशीन	
• रिंग स्पैनर (6 mm - 25 mm)	- 1 Set	• लैड ऐसिड बैटरी 12V / 60 AH
• कॉम्बिनेशन प्लायर्स 150mm	- 1 No.	- 1 No.
• इन्स्यूलेटेड स्कू ड्राइवर 200mm	- 1 No.	सामग्री
• हाइड्रोमीटर	- 1 No.	• कॉटन वेस्ट
• ऊँची दरवाला डिस्चार्ज टेस्टर	- 1 No.	• डिस्ट्रिल्ड पानी
		• सोडियम बाइकार्बोर्नेट सोल्यूशन

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : बैटरीओं के नियमित रखरखाव का अनुसूचि चार्ट तैयार करना और उसका अनुपाल करना ।

- 1 लीड ऐसिड बैटरी के लिए आवश्यकतानुसार रखरखाव एकत्रित करें ।
- 2 दैनिक, सप्ताहिक, मासिक अर्धमासिक रखरखाव चार्ट बनायें । चार्ट 1 के अनुसार
- 3 चार्ट-1 को ध्यान में रखते हुए बैटरी के नियमित रखरखाव के क्रियाकलापों का अनुसरण करें ।

नियमित रखरखाव का अनुसूची चार्ट -1

क्र.सं.	नियमित	करने के कार्य	विशेष टिप्पणी
1	दैनिक	<ul style="list-style-type: none"> • बैटरीओं का निरीक्षण करें । • जो कोई तुटि पायी जाती है तो रिपोर्ट करें और आवश्यक कारवाई करें । 	
2	सप्ताहिक	<ul style="list-style-type: none"> • सभी बैटरीओं का निरीक्षण करें • ऊपरी सतह की सफाई करें और निरीक्षण कनेक्टरों की स्थिरता तथा बेन्ट प्लगों की जाँच करें । • सर्पोटिंग क्लैम्स की जाँच करें । 	
3	मासिक	<ul style="list-style-type: none"> • इलेक्ट्रोलाटूट सतह की जाँच करें । • यदि आटोमैटिकली बैटरी चार्ज नहीं हुई है तो चार्ज करें । • टर्मिनलों को साफ करें, रिकनेक्ट कर, सुरक्षा जेली लगायें । • पानी में सोडियम बॉय कार्बोनेट सेल्यूशन द्वारा ऊपरी सतह साफ करें । • सुखाने हेतु ऊपरी सतह पोछें । • देखें कि बैटरीयों की ऊपरी सतह दूसरे सामग्रियों के साथ संपर्क न करें । 	
4	अर्ध मासिक	<ul style="list-style-type: none"> • सतह तथा सपेस्फिक ग्राविटि, चार्जिंग रेट, चार्जिंग हेर्यर्स, वोल्टाज सेल की जाँच करें । 	

(अच्छी रखरखाव वाली लीड ऐसिड बैटरी पाँच से छह साल तक चल सकती है)

कार्य 2 : लीड ऐसिड का सुरक्षात्मक रखरखाव करना

1 बैटरी की सुरक्षा निम्नलिखित कार्य क्रम से करें ।

बैटरी के रखरखाव के लिए कार्य के चरणों का पालन करना

- इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को 10 से 15mm प्लेटों के (या) विर्निमाण मैनयूल के ऊपर बनाये रखें ।
- डिंसिटिल्ड पानी को ऐसिड में मिलायें, और ऐसिड को पानी में न मिलायें ।
- बैटरी के पॉसिटिव टर्मिनल को सपलाई के पासिटिव टर्मिनल से जोड़े और बैटरी को चार्ज करते समय बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़े ।
- चार्जिंग के समय वेन्ट प्लग को गेस छूटने की जगह के पास रखें ।
- गेस का निकास ठीक ढंग से हो उसके लिए वेन्ट प्लग के छेदों को साफ करें ।
- बैटरी के टर्मिनलस को हमेशा साफ रखें ।

- जंग से सुरक्षा हेतु वासलिन या पेट्रोलियम जेली की हलकी परत लगायें ।
- ऊँची मात्रा में निरंतर बैटरी चार्ज और डिसचार्ज न करें ।
- लेड सल्फेट निकाले जो चार महीने बाद और चार्ज के कारण बनता है ।
- बैटरी चार्ज करने के लिए कमरे को हवादर रखें ।
- हाई रेट डिसचार्ज टेस्टर का प्रयोग केवल चार्ज्ड बैटरी के लिए करें न कि डिसचार्ज्ड बैटरी के लिए ।
- बैटरी को चार्ज में डालने से पहले और बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पीसिफिक ग्राविटी की जाँच करें ।

— — — — —

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - सेल और बैट्री

अध्यास 2.1.69

आवश्यक शक्ति प्राप्त करने हेतु श्रेणी / समान्तर संयोजन में सोलर सैल की संख्या निर्धारित करना (Determine the number of solar cells in series / Parallel for given power requirement)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- आवश्यक दी गई वोल्टता के लिए श्रेणी समूह हेतु आवश्यक सेलों की संख्या ज्ञात करना
- दिये गये ऐम्पियर घंटा क्षमता के लिए समान्तर में सेलों के समूह की संख्या ज्ञात करना
- दी गई शक्ति आवश्यकता के लिए आवश्यक सेलों की कुल संख्या को ज्ञात करना
- बैट्री को चार्ज करने के लिए दिए गये सेल को श्रेणी एवं समान्तर क्रम में संयोजित करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

आवश्यकताएँ (Requirements)	उपकरण/भाग
आौजार/उपकरण	
• कटिंग प्लायर 200 mm	- 1 No.
• पेचकस 250 mm	- 1 No.
• कनेक्टर पेचकस 100 mm	- 1 No.
• MC वोल्टमीटर 0 - 15V	- 1 No.
• MC अमीटर 0-500 mA - MC	- 1 No.
• सोल्डरन आयरन 35W 240V 50 Hz	- 1 No.
	• सौर सेल 125 mW/cm ² , 0.45 V, 57 mA - 87 सेल
	• संम्बन्धन तार 3/0.91mm PVC - 20 m
	• रोधित केबल
	• रोधन टेप 30 cm लम्बाई - 1 No.
	• लघु बल्ब B.C प्रकार 3W 12 V साथ होल्डर - 1 No.
	• 'आन' तथा 'ऑफ' फ्लश आरोहण स्विच 6A 240 Volts - 2 Nos.
	• रेजीन कोर शोल्डर 60:40 - 2 Nos.
	- आवश्यकतानुसार

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : श्रेणी समूह में सेलों की संख्या को ज्ञात करना ।

एक ग्राणीण पंचायत कार्यालय को प्रदर्शन प्रयोजन के लिए चार घंटे के लिए 12V 3W के प्रकाश की आवश्यकता है । जिसे बैटरी द्वारा अर्जित करना है । बैटरी को 125 mw/cm² क्षमता के सौर सेली के व्यूह द्वारा आवेशित किया जाता है । सूर्य को प्रकाश को एक दिन में 8 घंटे के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है । यद्यानुसार सौर सेलों को तार स्थापित करने तथा बैटरी को आवेशित करने के लिए समान्तर में समूह की संख्या तथा श्रेणी समूह में सौर सेलों की संख्या ज्ञात करें ।

1 श्रेणी समूह में सौर सेलों की संख्या ज्ञात करना

$$\text{अविश धारा निर्धारण} = \frac{\text{वास्तविक उपयोग में लुप्त ऐम्पियर घंटा}}{\text{संभव आवेशन घंटों की संख्या}}$$

$$\text{श्रेणी समूह में सेलों की संख्या} = \frac{\text{कुल आवश्यक वोल्टता}}{\text{वोल्ट प्रति सेल}}$$

$$= \frac{1\text{AH}}{8} = 0.125 \text{ ऐम्पियर}$$

माना कि आलेखन वोल्टता, बैटरी वोल्टता

$$+ 1\text{V के बराबर है} = 12 + 1 = 13\text{V}$$

$$\text{समान्तर में समूह/सेलों की कुल संख्या} = \frac{\text{nिर्गत धारा}}{\text{सेल धारा}}$$

$$\text{श्रेणी समूह में सेलों की संख्या} = \frac{13}{0.45} = 29 \text{ सैल}$$

$$= \frac{0.125 \text{ amp}}{57 \text{ mA}}$$

आवश्यक ऐम्पियर घंटा को परिकलित करें ।

$$\text{आवश्यक धारा} = \frac{\text{शक्ति}}{\text{वोल्ट}} = \frac{3 \text{ वाट}}{12 \text{ वोल्ट}} = \frac{1}{4} \text{ ऐम्पियर}$$

$$= \frac{125}{57} = 2.2$$

माना 250 mA

= माना 3 समूह

बैटरी द्वारा 4 घंटे के लिए 250 mA की दर पर लिया गया आवेश ।

$$\text{अतः आवश्यक सेलों की कुल संख्या} = 29 \times 3$$


$$\text{अत ऐम्पियर घंटा आवश्यकता} = \frac{250}{1000} \times 4 \\ = 1 \text{ AH}$$

$$= 87 \text{ सेल}$$

— — — — —

कार्य 2 : प्रकार्य 1 में दिये गये स्थिति में 12 v बैटरी को आवेशित करने के लिए श्रेणी समांतर समूह में दिये गये 87 सेलों को जोड़ें।

- 1 29 सेलों को श्रेणी समूह में जोड़े तथा बिन्दुओं को सोल्डर करें।
- 2 29 सेल श्रेणी समूह के 3 समूह बनाये।
- 3 तीन श्रेणी समूह को समांतर में जोड़े तथा संबंधन सिरों को सोल्डर करें।
- 4 सेलों के श्रेणी समान्तर समूह को वोल्टमीटर तथा अमीटर के साथ 12V बैटरी से जोड़े जैसा कि (Fig 1) में दर्शाया गया है।
- 5 0-15 V M.C. वोल्टमीटर की सहायता से समूह के आरपार वोल्टता को मापे तथा मानों को टेबल 1 में लिखें।
- 6 स्विच को बन्द करें तथा आवेशन धारा को मापे।



टेबल 1

सेलों की खुला परिपथ वोल्टता	भार वोल्टता	आवेशन धारा

— — — — —

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - मूलभूत वायरिंग अभ्यास

अभ्यास 2.2.70

विभिन्न प्रकार के कंड्यूट तथा विभिन्न वैद्युतिक सहायक सामग्रियों की पहचानना करना (Identify various conduits and different electrical accessories)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- कंड्यूट तथा कंड्यूट सहायक सामग्रियों के नाम पहचानना तथा उनके वर्गीकरण और उपयोग बताना
- वैद्युतिक सहायक सामग्रियों की पहचान करना
- वैद्युतिक सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण तथा उपयोग बताना
- वैद्युतिक सहायक सामग्रियों का IE प्रतीक बनाना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

ओज़ार/उपकरण

- इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर 4mm x150mm
- इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर 4mm x100mm
- ड्रे 60x30x4 cm
- ग्राफिक सिम्बल पुस्तक (B.I.S 2032 सभी भाग)

- 1 No.
- 1 No.
- 1 No.
- 1 No.

• ट्यूब एवं स्टार्टर संयुक्त होल्डर 6A

- 1No.

• ट्यूबलाइट होल्डर - 6A

- 1No.

• पीतल बैटन होल्डर 6A 250V

- 1No.

• बैकेलाइट बैटन होल्डर 6A 250V

- 1No.

• पीतल पैडेन्ट होल्डर 6A 250V

- 1No.

• बैकेलाइट पैडेन्ट होल्डर 6A 250V

- 1No.

• 3-पिन 6A वाल साकेट, माउंटिंग टाइप

- 1No.

• 3-पिन 16A वाल साकेट, माउंटिंग टाइप

- 1No.

• 3-पिन 6A वाल साकेट, फ्लश टाइप

- 1No.

• 3-पिन 16A वाल साकेट, फ्लश टाइप

- 1No.

• 2-पिन 6A वाल साकेट, फ्लश टाइप

- 1No.

• 2-पिन 6A माउंटिंग टाइप

- 1No.

• सीलिंग रोज 6A 250V 2 प्लेट

- 1No.

• सीलिंग रोज 6A 250V 3 प्लेट

- 1No.

• फैन रेगुलेटर

- 1No.

• किट-काट फ्लूज 16A 250V

- 1No.

• इंटरमीडिएट स्विच 6A 250V

- 1No.

• 3-पिन 6A 250 V प्लग

- 1No.

• 3-पिन 16A 250 V प्लग

- 1No.

• टर्मिनल प्लेट 16A 250 V 3- वे

- 1No.

• I.C.D.P. स्विच 16A 250V

- 1No.

• I.C.T.P. स्विच 16A 400V

- 1No.

• न्यूट्रल लिंक 16 amps

- 1No.

• I.C. कट-आउट 16A 250V

- 1No.

• डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 4-वे

- 1No.

• बेल-पुश/स्विच 6A, 250V फ्लश टाइप

- 1No.

• बेल-पुश/स्विच 6A, 250V

- 1No.

• माउंटिंग टाइप

- 1No.

• HRC फ्लूज - 16A

- 1No.

• आयरन कनेक्टर - 5A

- 1No.

• Toggle स्विच 6A

- 1 No.

• MCB 1,2 & 3 पोल - प्रत्येक

- 1 No.

सामग्री

- PVC कंड्यूट पाइप - 19 mm और 25 mm - 3M लंबा - प्रत्येक
- GI कंड्यूट पाइप - 19 mm और 25mm - 3 m लंबा - प्रत्येक
- PVC चैनल - 20mm और 25mm - 1M लंबा - प्रत्येक
- PVC पार्ईप कपलिंग - 19mm & 25mm - प्रत्येक - 1 No.
- PVC जंक्शन बाक्स - 1,2,3 और 4 way - 19mm & 25mm - प्रत्येक - 1 No.
- PVC बैण्ड - 19 mm & 25mm - प्रत्येक - 1 No.
- PVC एल्बो - 19 mm & 25 mm - प्रत्येक - 1 No.
- PVC टी - 19mm & 25mm - प्रत्येक - 1 No.
- GI कंड्यूट कपलर एवं इंसपेक्शन कपलर - 19mm & 25mm - प्रत्येक - 1 No.
- GI एल्बो एवं इंसपेक्शन एल्बो - 19mm & 25mm - प्रत्येक - 1 No.
- GI एल्बो एवं इंसपेक्शन एल्बो - 19mm & 25mm - प्रत्येक - 1 No.
- GI जंक्शन बॉक्स - 1,2,3 & 4 way स्कवायर टाइप 19mm & 25mm - 1 No.
- S.P. स्विच 6A 250V फ्लश टाइप - एकल मार्ग - 1 No.
- S.P. स्विच 6A 250V फ्लश टाइप - द्वि मार्ग - 1 No.
- S.P. स्विच 6A 250V माउंटिंग टाइप एकल मार्ग - 1 No.
- S.P. स्विच 6A 250V माउंटिंग टाइप द्वि मार्ग - 1 No.
- ट्यूब लाइट स्टार्टर होल्डर 6A - 1 No.

- 1 No.

• पीतल बैटन होल्डर 6A 250V

- 1No.

- 1 No.

• बैकेलाइट बैटन होल्डर 6A 250V

- 1No.

- 1 No.

• पीतल पैडेन्ट होल्डर 6A 250V

- 1No.

- 1 No.

• बैकेलाइट पैडेन्ट होल्डर 6A 250V

- 1No.

- 1 No.

• 3-पिन 6A वाल साकेट, माउंटिंग टाइप

- 1No.

- 1 No.

• 3-पिन 16A वाल साकेट, माउंटिंग टाइप

- 1No.

- 1 No.

• 2-पिन 6A माउंटिंग टाइप

- 1No.

- 1 No.

• 2-पिन 16A माउंटिंग टाइप

- 1No.

- 1 No.

• सीलिंग रोज 6A 250V 2 प्लेट

- 1No.

- 1 No.

• सीलिंग रोज 6A 250V 3 प्लेट

- 1No.

- 1 No.

• फैन रेगुलेटर

- 1No.

- 1 No.

• किट-काट फ्लूज 16A 250V

- 1No.

- 1 No.

• इंटरमीडिएट स्विच 6A 250V

- 1No.

- 1 No.

• 3-पिन 6A 250 V प्लग

- 1No.

- 1 No.

• 3-पिन 16A 250 V प्लग

- 1No.

- 1 No.

• टर्मिनल प्लेट 16A 250 V 3- वे

- 1No.

- 1 No.

• I.C.D.P. स्विच 16A 250V

- 1No.

- 1 No.

• I.C.T.P. स्विच 16A 400V

- 1No.

- 1 No.

• न्यूट्रल लिंक 16 amps

- 1No.

- 1 No.

• I.C. कट-आउट 16A 250V

- 1No.

- 1 No.

• डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 4-वे

- 1No.

- 1 No.

• बेल-पुश/स्विच 6A, 250V फ्लश टाइप

- 1No.

- 1 No.

• बेल-पुश/स्विच 6A, 250V

- 1No.

- 1 No.

• माउंटिंग टाइप

- 1No.

- 1 No.

• HRC फ्लूज - 16A

- 1No.

- 1 No.

• आयरन कनेक्टर - 5A

- 1No.

- 1 No.

• Toggle स्विच 6A

- 1 No.

- 1 No.

• MCB 1,2 & 3 पोल - प्रत्येक





- 1 No.







प्रक्रिया (PROCEDURE)


कार्य 1 : काटने के लिए कंडूट पाइप को तैयार करना

- 1 प्रत्येक सामग्री को पहचान कर इनके सामने सूची में नाम लिखें ।
- 2 दिये गये कॉलम में पाइप का उपयोग और विवरण लिखें ।
(Fig 1 से Fig 11)

कंडूट पाइप & कंडूट सहायक सामग्री

आरेख	नाम	वर्गीकरण	उपयोग
Fig 1  ELN2270-H1			
Fig 2  ELN2270-H2			
Fig 3  ELN2270-H3			
Fig 4  ELN2270-H4			

आरेख	नाम	वर्गीकरण	उपयोग
Fig 5 			
Fig 6 			
Fig 7 			
Fig 8 			
Fig 9 			
Fig 10 			

आरेख	नाम	वर्गीकरण	उपयोग
<p>Fig 11</p>  <p>ELN2270HB</p>			

कार्य 2 : इलेक्ट्रिकल सामग्री को पहचानना और नाम लिखना

1 टेबल 2 में दिए गए सामग्री को पहचानो और नाम लिखे । (Fig 12 से 30)

विभिन्न निर्माता विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त उपसाधनों/ सहायक सामग्री की रूपरेखा को विभिन्न रूप से डिजाइन करते हैं फिर भी उपसाधनों की विद्युतीय संपर्क स्थितियाँ वहीं रहती हैं इसलिए उपसाधनों को पहचानने में अधिक कठिनाई नहीं होना चाहिए ।

दूसरी ओर एकल पथ तथा द्विपथ कुंजी के साथ-साथ दो तथा तीन प्लेट सीलिंग रोज समान दिखाई देता है, उपसाधनों के पिछले भाग पर सावधानी पूर्वक देखने से पहचान प्रक्रिया अधिक सरल हो जायेगी ।



2 प्रत्येक (उपसाधन) आकृति के साइड में दिये गये कॉलम में प्रत्येक उपसाधन के विनिर्देश को लिखिए ।






अधिकांश विनिर्देश को स्वयं उपसाधन पर अंकनों से प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा उन्हें अनुमोदित पुस्तिका से प्राप्त करने का प्रयास करें या मार्गदर्शन से अनुदेशक से मिले ।






3 BIS पुस्तिका या संबंधित थोरी से दिये गये सामग्री/उपकरण के लिए I.E चिन्ह पहचानिए दिये गये स्थान पर सिग्नल को बनाइए ।






4 तैयार किए गये वर्गीकृत चार्ट (चिन्ह सहित) को अपने अनुदेशक को दिखाएं और जांच कराएं ।



टेबल 2 - विद्युतीय सहायक सामग्रियाँ

आरेख	नाम	विनिर्देश	उपयोग	I.E चिन्ह
<p>Fig 12</p>  <p>ELN2270HC</p>				
<p>Fig 13</p>  <p>ELN2270HD</p>				

आरेख	नाम	विनिर्देश	उपयोग	IE चिन्ह
Fig 14 				
Fig 15 				
Fig 16 				
Fig 17 				
Fig 18 				

आरेख	नाम	विनिर्देश	उपयोग	IE चिन्ह
Fig 19  ELN2270-HJ				
Fig 20  ELN2270-HK				
Fig 21  ELN2270-HL				
Fig 22  ELN2270-HM				
Fig 23  ELN2270-HN				

आरेख	नाम	विनिर्देश	उपयोग	IE चिन्ह
Fig 24  ELN2270IO				
Fig 25  ELN2270IP				
Fig 26  ELN2270IQ				
Fig 27  ELN2270IR				
Fig 28  ELN2270IS				

आरेख	नाम	विनिर्देश	उपयोग	IE चिन्ह
<p>Fig 29</p>  <p>ELN2270-HU</p>				
<p>Fig 30</p>  <p>ELN2270-HU</p>				

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - मूलभूत वायरिंग अभ्यास

अभ्यास 2.2.71

विभिन्न कंड्यूट को काटने, चुड़ी बनाने का अभ्यास करना एवं उन्हें स्थापित करना (Practice cutting, threading of different sizes of conduits and laying installations)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- हैवी गेज के धातु कंड्यूट पाइपों को आवश्यक आकार में काटना
- कंड्यूट पाइप को पाइप वाइस में बाँधना तथा कंड्यूट के सिरे पर चुड़ी तैयार करना
- कंड्यूट डाइ सेट का प्रयोग कर हैवी गेज मेटल कंड्यूट में आवश्यकतानुसार चुड़ी काटना
- श्रीडेड विधि का प्रयोग कर पाइपों को पाइप साइज अनुसार कंड्यूट/पाइप सहायक सामग्रियों में बिठाना
- सतही कंड्यूट वायरिंग में B.I.S. अनुशंसा के अनुसार क्लैम्स का उपयोग करने की आवश्यकता अनुसार बिठाना
- धातु कंड्यूट पाइप में केबलों को खींचना
- ज्वाइंट तथा जंक्शन पर कंड्यूट पाइप को जोड़ना
- B.I.S. अनुशंसा के अनुसार कंड्यूट को यर्थ करना
- धातु के बॉक्स तैयार करना एवं वैद्युतिक सहायक सामग्रियों को बिठाना
- वायरिंग डायग्राम के अनुसार वैद्युतिक सहायक सामग्रियों को केबल के अंत सिरे से जोड़ना
- वायरिंग की जाँच करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/उपकरण

• स्कू ड्राइवर 200mm, 5mm ब्लेड के साथ	- 1 No.	• कंड्यूट पाइप 19 mm	- 3 Nos.
• कनेक्टर स्कू ड्राइवर 100mm, 3mm ब्लेड के साथ	- 1 No.	• कंड्यूट एल्बो 19 mm	- 4 Nos.
• पाइप वाइस 50 mm	- 1 No.	• कंड्यूट बेन्ड 19 mm	- 1 No.
• स्टील रूल 300 mm	- 1 No.	• कंड्यूट जंक्शन बॉक्स 3-way 19 mm	- 4 Nos.
• हैक्सा 24 दाँत ब्लेड के साथ	- 1 No.	• T.W. स्पेसर्स 60mm लम्बे 19 mm	
हैक्सा 25 mm (25 TPI) ब्लेड के साथ	- 1 No.	चौड़े और 12mm मोटे	- 25 Nos.
• फ्लैट बैस्टर्ड रेती 250 mm	- 1 No.	• टिन किया हुआ ताम्बे का वायर 14 SWG	- 12 mts.
• 2nd कट हाफ राउंड फाइल 200 mm	- 1 No.	• अर्थ क्लैम्स, टिन किया हुआ 19 mm पाइप के लिए	
• रीमर 16 mm	- 1 No.	उपयुक्त जिसमें बोल्ट, नट और वाशरें हों	- 3 doz.
• ऑयल केन 250ml	- 1 No.	• G.I. सैडलें 19 mm	- 25 Nos.
• स्टॉक और डाइ कंड्यूट	- 1 set.	• लकड़ी के स्कू और मशीन स्कू मिलेजुले	- आवश्यकतानुसार
(19 mm & 25 mm कंड्यूट के लिए)		• P.V.C. अल्यूमिनियम केबल 1.5 sqmm	
• वायर ब्रश 50 mm	- 1 No.	250 V ग्रेड	- 18 mts.
• प्लम्ब बॉव (धागे के साथ)	- 1 No.	• S.P.T. स्वीट्च 6A 250V	- 1 No.
• डबल ब्लेड इलेक्ट्रीशियन चाकू 100 mm	- 1 No.	• दू-वे फ्लश वर्ग का स्वीट्च 6A 250V	- 3 Nos.
• पोकर Poker 200 mm	- 1 No.	• सिलिंग रोज 2-वे 6A 250V	- 4 Nos.
• बाल पिन हैमर 500 grams	- 1 No.	• पेन्डन्ट-होल्डर, बैक लाइट 6A 250V	- 4 Nos.
• हैंड ड्रिल मशीन 6 mm कैपेसिटी	- 1 सेट	• B.C. बल्ब 40W, 230V	- 4 Nos.
4 mm ड्रिल बिट के साथ		• कलर चाक	- 1 piece.
• स्काईबर 200 mm	- 1 No.	• 3-वे टर्मिनल प्लेट 16 amps	- 1 No.
• काम्बीनेशन प्लायर 200 mm	- 1 No.	• G.I. वायर फिश वायर जैसा 14 SWG	- 6 mts.

सामग्री

• हैवी गेज कंड्यूट पाइप 19 mm dia.	- 6 M	• कंड्यूट चेक नट 19 mm	- 8 Nos.
• हैवी गेज कंड्यूट पाइप 25 mm dia	- 3 M	• लूब्रीकेन्ट नारियल तेल	- 100 gm
• वर्ग मेटल बॉक्स 90 mm	- 4 Nos.	• काटन वेस्ट	- आवश्यकतानुसार
पट्कोण टाईप ऊपर कवर के साथ			


प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : काटने के लिए कंड्चूट पाइप को तैयार करना

मान लें कि कृत्य (जॉब) के लिए 300 mm लम्बा कंड्चूट के टुकड़े की आवश्यकता है लेकिन केवल 3000 mm मानक लम्बाई का पाइप ही उपलब्ध है। सामान्यतः मानक लम्बाई के पाइप के दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती हैं। आवश्यक कंड्चूट टुकड़े को बनाने के लिए 3000 mm पाइप की मानक लम्बाई 300 mm लम्बाई के लिए काटना होगी तथा एक सिरे पर पुनः चूड़ी बनाना होगी। कर्तन, या तो पाइप कटर से या तो हैक्सां से किया जा सकती हैं। व्यवहार में, हैक्सा से काटना लोकप्रिय हैं, तथा विधि को नीचे वर्णन किया गया है।


- पाइप के चूड़ी बने सिरे से 300 mm मापें तथा Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार उसे चाक से निशान लगाये।

Fig 1




- शिंकजे के जबड़े को खोले तथा पाइप को निवेश करें जिससे कि वह जबड़ों के क्राकचयन (Serrations) के क्षैतिज तथा समांतर हो।
- Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार पाइप के चाक निशान को शिंकजे के 100 mm के अंदर रखें।

Fig 2



- शिंकजे जबड़े को बंद करें तथा करें।
- Fig 3 में दर्शाये गये अनुसार 24 दांत प्रति 25 mm (25 TPI) की ब्लेड वाले हैक्सा का चयन करें।

Fig 3



यह सुनिश्चित करें कि हैक्सा ब्लेड, फ्रेम में मजबूती से कसा है, तथा दांत अग्र दिशा की ओर है।


- हैक्सा का पकड़े तथा अपने बांये कंधे को काटने की दिशा में इंगित करने के साथ Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार अपनी स्थिति लें, पैर की स्थिति को नोट करें, जो काटते समय शरीर को मुक्त तथा नियंत्रित गति देता है।

Fig 4




- हैक्सा के हैन्डिल को दांये हाथ से पकड़े तथा हैक्सा ब्लेड को कर्तन रेखा के ऊपर रखें।
- Fig 5 में दर्शाये गये अनुसार आरे ब्लेड के सापेक्ष ठीक कर्तन रेखा पर अपने बांये हाथ से अंगूठे से ब्लेड को मार्ग दर्शन देते हुए काटें।

Fig 5



- जब आरंभिक कट बन गया हो तो, हैक्सा फ्रेम के अग्र सिरे से बांये हाथ को हटाये तथा Fig 6 में दर्शाये गये अनुसार कर्तन प्रचालन के लिए दोनों हाथों का उपयोग करें।


Fig 6



10 कर्तन के समय, ब्लेड की अग्र स्टोक पर दाब को प्रारंभिक रूप से बढ़ाते हुए पूर्ण लम्बाई का उपयोग करें तथा ब्लेड को वापिस लाते समय दाब मुक्त करें। (Fig 6)

11 Fig 7 में दर्शाये गये अनुसार लगातार, समान स्टोक के साथ ब्लेड को सीधा तथा कट के लम्बवत् रखते हुए काटें।

Fig 7




HOLD THE STRAIGHT

ELN2271H7

12 कट के सिरे के निकट पहुँचते समय Fig 8 में दर्शाये गये अनुसार कंडूट को अपने बायें हाथ से टेक देना चाहिए। कट को संमूर्ति करें।

Fig 8



END OF SAWING


ELN2271H8

हैक्सा की ब्लेड को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए कंडूट के मुक्त सिरे को टेक दें।

कार्य 2 : चूड़ी बनाने के लिए कंडूट पाइप को तैयार करना

- शिंकजे के जबड़ों को खोले तथा 19 mm dia पाइप को निवेश करें जिससे कि वह जबड़ा क्रकचन के क्षतिज तथा समांतर हो।
- नली के सिरे को शिंकजे से 150 mm के अंदर रखें।
- Fig 11 में दर्शाये गये अनुसार शिंकजे को बंद करें तथा कसें।

Fig 11




HOLD THE PIPE IN THE PIPE VICE FOR THREADING OPERATION

ELN2271H9

13 Fig 9 में दर्शाये गये अनुसार आन्तरिक बर्स को हटाने के लिए रीमर या अर्ध गोल रेती का उपयोग करें।

Fig 9




REMOVAL OF BURRS

ELN2271H9

14 तीव्र किनारों को चिकना करने के लिए अर्ध गोल रेती के सपाट भाग का उपयोग करें। (Fig 10)

Fig 10



REMOVAL OF SHARP EDGES


ELN2271H4

15 3 m लंबे पाइप से पुनः क्रमांक 2 से 14 को दोहराते हुए 25 mm व्यास का 300 mm लंबा पाइप काटते हैं।

16 कार्य को पूर्ण होने के पश्चात् हैक्सा तथा शिंकजे को साफ करें तथा उन्हें, उनके क्रमिक स्थानों में रखें।

- नली के सिरे को सपाट रेतन करें तथा Fig 12 में दर्शाये गये अनुसार बाहरी किनारे को लगभग 20° के कोण पर निष्कोणित (chamfer) करें।

Fig 12




BEFORE THREADING, CHAMFER THE EDGE OF THE PIPE

ELN2271H5

निष्कोण की गहराई की चूड़ी की पिच के बारबर बनाये (कंडूट के लिए 1.5m)

5 चूड़ी बनाये जाने वाले पाइप के लिए उपयुक्त सही डाई तथा स्टाक का चयन करें। (Fig 13 में कंड्यूट स्टाक एवं डाई सेट दिखाया गया है)

Fig 13



त्वरित कट स्टाक तथा डाई के लिए समुच्चय आरेख, Fig 13 में दिया गया है। डाई का आमाप, स्वयं डाई पर ही खुदा रहता है। इस साइज को पाइप के साइज से जाँच करें। स्पष्टता के लिए स्टाक के हैन्डिल को चित्र में नहीं दर्शाया गया है।

6 निष्कोणित चूड़ियां (अग्र फलक) को गाइड के सन्निकट रखते हुए कैप (स्टाक) में डाई के प्रत्येक आधे भाग को निविष्ट करें।

7 गाइड को स्थिति में करें।

8 डाई अर्ध को पाइप अक्ष के केन्द्र में करने के लिए प्रत्येक समायोजित पेंच को समान रूप से समायोजित करें।

9 पाइप के सिरे पर स्टाक गाइड को सरकाये, समायोजी पेंचों को ऐसे समायोजित करें जिससे कि डाई, दोनों साइडों पर समान रूप से पाइप को पकड़ें।

10 स्टाक पर दाव लगायें तथा Fig 14 में दर्शाये गये अनुसार हैन्डिलों को पाइप के समकोण पर रखें।

11 Fig 15 में दर्शाये गये अनुसार हैन्डिल को पाइप अक्ष के समकोण पर तल में दक्षिणावर्त घुमायें।

12 चूड़ी बनना आरंभ होने के पश्चात्, चूड़ी बनाये जाने वाले भाग पर स्नेहक लगायें।

स्नेहक से डाई विकसित ऊँचा को शीतलन करती है तथा उसके द्वारा किनारों को तेज बना रहने में मदद करती है तथा चूड़ी कि अधिक अच्छी परिष्कृति उत्पन्न होती है।

13 दक्षिणावर्त दिशा में एक या दो पूर्ण चक्कर बनायें।

जाँच करें कि क्या स्टॉक, पाइप अक्ष से समकोण पर हैं।

Fig 14





Fig 15



14 जैसा कि घूर्णन के अधिक प्रतिरोध द्वारा संकेत होता है कि हैन्डिल को बार-बार आवश्यकतानुसार आधे चक्कर के लिए वामावर्त घुमायें।

लम्बी कर्तनों को तोड़ने तथा डाई के कर्तन किनारों को साफ करने के लिए परिवर्त्य घुमाना आवश्यक है।

15 बार-बार अन्तरालों पर स्नेहक लगायें।

डाई के धातु बरों को हटाने के लिए ब्रुश का उपयोग करें।

16 स्टाक हटा दें। लम्बाई की तथा मादा फिटिंग (युग्मन आदि) पर घुमाकर चूड़ी की फिट की जाँच करें।

चूड़ी की लम्बाई को युग्मन में आधा मार्ग तक तथा अन्य फिटिंग में पूर्णतः फिट होने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।


17 यदि चूड़िया चिकनी (smooth) न हो (अर्थात् फिटिंग में कसी हुई) स्टाक को आरोहित करें तथा समायोजी पेंचों को समान रूप से आधा चक्कर करने तथा कार्यान्वयन पद 10 से 16 को दोहरायें।

18 रीमर या अर्ध गोल रेती से पाइप के सिरे के अन्दर से कोई वर्स या तीव्र किनारों को हटाये जैसा कि Fig 16 में दर्शाया गया है, तथा तीव्र किनारे यदि कोई हो तो, हटाये।

19 25 mm व्यास पाइप हेतु प्रकार्य 2 में दिये गये क्रमांक 2 से 18 तक पुनः दोहराएं।

20 शिंकजा तथा डाई स्टाक को साफ करें। उन्हें उनके क्रमिक स्थानों में रखें।


Fig 16



कार्य 3 : गोदाम लाइटिंग (प्रकाश) हेतु घासिक पाइप की स्थापना कर वायरिंग करें।

- वर्क बैंच पर परिपथ आरेख (Fig 17) के अनुसार आवश्यक तार स्थापन उपसाधनों के साथ परिपथ को बनाये।

Fig 17




कंडक्ट का माप लेते समय कंडक्ट चूड़ियों के साथ विभिन्न स्थानों में उपयोग होने वाले उपसाधनों की लम्बाई पर विचार करें।

- परिपथ को अनुदेशक से अनुमोदित करायें।

यदि वह गलत हो तो, परिपथ को अनुरेखित करें तथा उसे ठीक करें।

- Fig 18 में दिये गये विन्यास के अनुसार IPC पर विन्यास को अंकित करें।

Fig 18



- विन्यास के अनुसार आवश्यक कंडक्ट फिटिंग का चयन करें।
- विन्यास के अनुसार प्रत्येक दौड़ के लिए आवश्यक कंडक्ट पाइपों की लम्बाई को मारें।


- चिन्हांकनों के अनुसार कंडक्ट की लम्बाई को काटे तथा बर्स को हटायें।

काटने के लिए कंडक्ट पाइपों पर निशान लगाए समय, किफायती विधि पर विचार करें जिससे कि लम्बाई में अधिक व्यर्थ किये बिना, पाइपों को उपयोग किया जा सकें।

- पाइपों में चूड़ियाँ काटे तथा बर्स को हटायें।
- सैडल लगाने के लिए पायलट छिद्रों तथा IPC पर लगाने के लिए आरपार छिद्रों के साथ T.W. अन्तरालकों को तैयार करें।
- विन्यास के अनुसार T.W. अन्तरालकों को लगायें।
- सैडलों के माध्यम से विन्यास के अनुसार कंडक्ट पाइप तथा कंडक्ट उपसाधनों को लगायें।

Fig 19 में दर्शाये गये अनुसार कंडक्ट पाइप अन्तकों के लिए वर्गाकार / षष्ठभुजाकार धातु बाक्सों में छिद्रों को निकालें।

Fig 19




- तार स्थापन आरेख (Fig 20) में दिये गये केवल मार्ग के अनुसार केवल्स को मारें तथा काटें।

अन्तकों के लिए केवल लम्बाईयों में गुन्जाइश (allowance) रखें।

- कंडक्ट सिरों में ब्रुश उपलब्ध करायें।
- केबल्स को खीचने के लिए पाइप दौड़ में दिये गये मत्त्य तार को निवेश करें।

Fig 20




केबल्स को खींचने को कार्य चरण दर चरण, प्रत्येक दौड़ को एक-एक करके लेते हुए तथा प्रत्येक दौड़ में केबल्स की संख्या को संगाठित करके किया जाना चाहिए।

14 केबल्स को छीले तथा प्रत्येक केबल के दोनों सिरों पर स्पष्ट निशान लगायें।

15 केबल मार्ग तथा केबल दौड़ों के अनुसार केबल्स को समूह करें तथा Fig 21 में दर्शाये गये अनुसार उन्हें मत्य तार से बंधन करें।


Fig 21



केबल्स को मत्य तार से बंधन करने के पूर्व, केबल्स की अविच्छिन्नता की जाँच करें।

16 केबल्स को मत्य तार के माध्यम से खींचें तथा उसी समय, Fig 22 में दर्शाये गये अनुसार दूसरे सिरे से केबल को धकेले।

Fig 22



केबल्स को खींचते समय आपको सहायक की, आवश्यकता हो सकती है। कंड्यूट पाइपों में से केबल्स को खींचते समय केबल्स में कोई खांचा या मरोड़ नहीं होना चाहिए। लम्बी कंड्यूट दौड़ों के लिए यह अधिक अच्छा होगा कि केबल्स को खींचने का कार्य चरणों में किया जाए। पहले एक सिरे से निरीक्षण प्रकार के उपसाधन तक तथा फिर निरीक्षण प्रकार के उपसाधन से कंड्यूट के सिरे तक तथा इसी प्रकार से आगे।

17 केबल प्रवेश तथा उपसाधन को लगाने के लिए आर-पार छिड़ियों को वर्मायी करते हुए उपसाधनों को लगाने के लिए वर्गाकार धातु बाक्से के ऊपरी आवरणों को तैयार करें।

18 एकल पथ संधि बाक्सों पर सीलिंग रोज को लगाये।

सीलिंग रोज को, आवरण को लगाने के लिए उपलब्ध कराये गये मशीन पेंचों के उपयोग से एक पथ संधि बाक्सों पर सीधे फिट किया जा सकता है।

19 Fig 17 तथा 20 तथा पद 14 के अनुसार किये गये केबल अंकनों के अनुसार केबल सिरों को तैयार करें तथा उन्हें उपसाधनों में अन्तक करें।


20 मशीन पेंचों के द्वारा उपसाधनों को लगायें।

21 धातु बाक्सों के ऊपरी आवरण को बंद करें।

22 निरीक्षण प्रकार के उपसाधनों की निरीक्षण खिड़की को बंद करें।

23 भू क्लैम्पों के द्वारा कंड्यूट पाइप के साथ दिये गये भू तारों को दौड़ाये तथा संधि बाक्सों तथा धातु बाक्सों पर अन्तक करें। (Fig 24)

Fig 23



भू तार की दौड़ों को रोकने के लिए पाश पञ्चति को पालन करना आवश्यक है।


पाश विधि के विकल्प: बंधन पञ्चति का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ कहीं पर उपसाधनों का उपयोग हो रहा है, Fig 23 में दर्शाये गये अनुसार भू क्लैम्प तथा भू तार से बंधन की अनुशंसा की जाती है।

लगाने के पूर्व, कंड्यूट, तांबा तार तथा क्लैम्पों की सतह पर पेन्ट को हटाये।

24 पेन्डेन्ट धारकों को तैयार करें तथा सीलिंग रोज के साथ केबल्स को जोड़ें।

25 बल्बों को लगायें।

Fig 24



एक पूर्ण अधिष्ठापन, Fig 24 में दर्शाये गये अनुसार प्रतीत होता है।

26 अनुदेशक से तार स्थापन की जाँच कराये।

27 आपूर्ति को जोड़े तथा तार स्थापन का परीक्षण करें।

**परीक्षण बोर्ड/विस्तार बोर्ड तैयार करना एवं उन पर बल्ब, बटन, प्लूज रिले, MCB, ELCB, MCCB इत्यादि लगाना
(Prepare test boards/extension boards and mount accessories like lamp holders, various switches, sockets, fuses, relays, MCB, ELCB, MCCB Etc.)**

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- द्वि-ध्रुव कुंजी तथा सांकेतिक निऊँन लैंप जैसे विद्युतीय उपसाधनों को पहचानना तथा उपयोग करना
- निर्दिष्ट उपसाधनों को आरोहित करने के लिए सही आमाप के बोर्ड का चयन करना
- उपसाधनों को स्थित करना तथा उन्हे T.W. बोर्ड पर आरोहित करना
- परीक्षण बोर्ड को तार स्थापन करने तथा परीक्षण करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/उपकरण

- संयुक्त लायर 200 mm
- पेंचकस 150 mm, 5 mm ब्लेड के साथ
- पेंचकस 150 mm, 3 mm ब्लेड के साथ
- पोकर 200 mm
- फार्मर छैनी 12mm
- गुनिया 150mm
- टेनन आरी 300 mm
- गिमलेट 5 mm व्यास 200 mm
- बॉल पिन हथौड़ा 250 ग्राम
- 4 mm बर्मा बिट (अनी)
- सम्बंधक पेंचकस 100 mm
- हस्त बर्मायी मशीन 6 mm क्षमता
- मैलेट 75 mm व्यास हैड, हैन्डल के साथ
- स्टील रूल 30 cm
- की (होल) छिद्र आरी 200 mm

सामग्री

- T.W. हिन्जड बाक्स 375 x 250 x 80 mm

- B.C. बैटन लैम्प धारक 6 A 250 V - 2 Nos.
- फ्ल्या आरोहण 250 V, 6 A - 3 पिन साकेट - 3 Nos.
- फ्ल्या आरोहण 250V 6A
- S.P.T. कुंजी 250V, 6A - 2 Nos.
- PVC तांबा केबल 3/20 - 2 m.
- 14 SWG, G.I.तार - 1 m.
- 12 mm नं. 5 लकड़ी के पेंच - आवश्यकतानुसार
- 20 mm नं. 6 लकड़ी के पेच - आवश्यकतानुसार
- 25 mm नं. 6 लकड़ी के पेच - आवश्यकतानुसार
- निऊँन लैम्प फ्ल्या -आरोहण 250 V
- धारक 6A के साथ - 1 No.
- BC बल्ब 60 W, 250 V - 1 No.
- किट-कैट प्लूज - वाहक आधार फ्ल्या-प्रकार 16A 250V - 1 No.
- विद्युतरोधित टर्मिनल अपृथक्करणीय 4 mm ल्यग प्रवेश - 3 Nos.
- फ्ल्या -आरोहण प्रकार D.P.कुंजी 250 V 20 A निऊँन संकेतक के साथ - 1 No.
- द्वि मरोड नम्ब तार 23/0. 2 mm - 5 metre


प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : परीक्षण / एक्टेंशन बोर्ड तैयार करना

- D.P. कुंजी उसके आगमी / निर्गमी टर्मिनलों तथा उसके प्रचालन की पहचान करें। निऊँन लैंप तथा इसके सम्बंधन की पहचान करें।
- परीक्षण परिपथ के लिए नम्ब तार का उपयोग करते हुए योजना आरेख Fig 1 के अनुसार परिपथ को बनाये।
- बनाये गये परिपथ को अनुदेशक से जाँच कराये।


यदि ठिक न हो तो आवश्यक परिवर्तन करें।

- आपूर्ति दे तथा परिपथ का परीक्षण करें।



- 5 तकनीकी तथा सौन्दर्यात्मक पहलू के अनुरूप कार्ड बोर्ड पर उपसाधनों को स्थित करें तथा विन्यास को बनाये। यथानुसार T.W. बोर्ड के आमाप का चयन करें।
- 6 Fig 2 में दिये गये विन्यास के अनुसार, आपके द्वारा बनाये गये विन्यास की तुलना करें तथा अपने सह प्रशिक्षणार्थी से उसके दोष तथा हानियों के बारे में विवेचना करें।

Fig 2




TEST BOARD-LAYOUT DIAGRAM

ELN2272H2

- 7 अग्र पैनल (Fig 3) के आपूर्ति आरेख तथा दिये गये विन्यास (Fig 2) के अनुसार T.W. बोर्ड पर द्वि ध्रुव कुंजी तथा अन्य उपसाधनों की स्थिति को अंकित करें।

Fig 3



TEST BOARD FRONT PANEL DRAWING SHOWING THE PROFILE

ELN2272H3

- 8 T.W. बोर्ड के साथ उपसाधनों को लगाने के लिए प्रोफाइल काटे तथा केबल प्रवेश विद्युतरोधी टर्मिनलों तथा स्थायीकारी पेचों के लिए तथा छिद्रों को बर्मा करें तथा जहाँ कही आवश्यक हो तो पायलट छिद्र बनाये।

- 9 T.W. बोर्ड पर विद्युतीय उपसाधनों को लगाये।

- 10 तीन विद्युत रोधी टर्मिनल लगाये।

- 11 परिपथ आरेख (Fig 1) के अनुसार काम में लाने के लिए केबल्स को मापे तथा काटे।


परीक्षण बोर्ड के अन्दर केबल सम्बद्धनों के लिए **B.I.S. अनुशंसित रंग कोड का उपयोग करें।**

- 12 उपसाधनों के बीच सम्बद्धक केबल्स को मार्ग में भेजे, केबल्स को हारनेस (स्ट्रेप-गुच्छा) करें।

- 13 कला तथा उदासीन को पहचानने के पश्चात् उपसाधनों तथा विद्युतरोधी टर्मिनलों को जोड़े।

- 14 साकेट निर्गम, किसी एक विद्युतरोधी टर्मिनल तथा द्वि ध्रुव कुंजी के भू संम्पर्क टर्मिनलों के साथ भू तार को जोड़े। पूर्ण किया गया परीक्षण बोर्ड, Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार दिखाई देगा।

Fig 4



FRONT PANEL VIEW OF THE TEST BOARD

ELN2272H4

- 15 बल्ब धारकों में बल्ब लगाये।

- 16 अपने अनुदेशक से अनुमोदन प्राप्त करें तथा परीक्षण बोर्ड का परीक्षण करें।

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - मूलभूत वायरिंग अभ्यास

अभ्यास 2.2.73

ले-आऊट तैयार कर न्यूनतम 15 मीटर पाइप से कम से कम एवं अधिक बिन्दुओं हेतु केसिंग - केपिंग PVC वायरिंग का अभ्यास करना (Draw layouts and practice in PVC casing - capping, conduit wiring with minimum to more number of points of minimum 15 metre length)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- स्थान/कार्यस्थल के लिए विन्यास को चिन्हांकित करना
- चिन्हांकित विन्यास के अनुसार PVC चैनल को तैयार करना
- PVC चैनल तथा अन्य PVC उपसाधनों को स्थिर करना
- PVC चैनल तथा अन्य PVC उपसाधनों को स्थिर करना
- केसिंग पर ऊपरी आवरण को स्थिर करना
- PVC बाक्सों को बनाना तथा स्थिर करना
- कुंजी बोर्ड पर कुंजी, पंखे का नियामक, साकेट को आरोहित करना
- परिपथ आरेख के अनुसार भार के अंतिम सिरों को जोड़ने तथा उसका परीक्षण करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/उपकरण

- प्रशिक्षणार्थी औजार किट
- हैक्सा फ्रेम साथ में क्लोड
- रावल जम्पर नं. 14
- पेंचकस 100mm
- स्टील टेप 5 m
- स्टील रूल 300mm
- विद्युत/हैंड ड्रिल मशीन (क्षमता 6mm)
- टिवस्ट ड्रिल मशीन 5mm

आवश्यक सामग्री

- PVC कास्टिंग और कैपिंग 25mm x 10 mm
- PVC राउण्ड ब्लॉक - 90 mm x 40 mm
- T.W. बाक्स 250 mm x 100 mm के साथ सनमार्ईका कवर
- टर्मिनल प्लेट 16 Amps - 3 वे

सिंगल पोल एकल पथ स्विच -6A,230V

- फ्लश टाइप
- इलेक्ट्रानिक फेन रेगुलेटर - सॉकेट टाइप
- 3 पिन सॉकेट - 6A 250V फ्लश टैईप
- बैटन लैम्प होल्डर, - 6A, 250V
- सिलिंग रोज 6A, 250V
- PVC इंसुलेटेड एल्युमिनियम केबल 1.5 sq. mm
- बुड स्कू नं. 6 X12 mm
- बुड स्कू नं.6 X 20 mm
- PVC केसिंग और कैपिंग एल्बो -25 mm
- PVC केसिंग और कैपिंग टी (3 वे)
- PVC केसिंग और कैपिंग आंतरिक जोड़नेवाला
- कलर चॉक/पेन्सिल
- PVC इन्सुलेशन टेप रोल 20mm

प्रक्रिया (PROCEDURE)

- 1 फिटिंग, उपसाधन तथा उनकी दूरियों की स्थिति को दर्शाता हुआ विन्यास आरेख Fig 1 का अध्ययन करें।
- 2 विन्यास नक्शे के अनुसार दिये गये परिपथ के लिए तार स्थापन आरेख को बनाइये। Fig 1 (अनुदेशक द्वारा आपूर्तित) की सहायता से तार स्थापन आरेख की सत्यता की जाँच करें।
- 3 इस तार स्थापन के लिए आवश्यक सामग्री के साथ इस तार स्थापन के लिए आवश्यक सामग्री के साथ इस तार स्थापन के लिए आवश्यक मात्रा तथा पूर्ण विनिर्देश की सूची बनाये।

- 4 अपने सामग्री की सूची को, आपूर्तित सूची के साथ जाँच करें।

अपने अनुदेशक को सूची दीजिए और उनकी सहमति प्राप्त कीजिए।

- 5 सूची के अनुसार सामग्री को एकत्र करें।
- 6 कार्यस्थल/स्थान के अनुसार विन्यास को चिन्हांकित करें। अधिष्ठापन नक्शा आरेख के अनुसार केसिंग को काटे तथा तैयार करें।
- 7 ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके PVC केसिंग में ड्रिल छेद डायामीटर को 60 cm पर किक्स करें।

Fig 1





Fig 2



- 8 PVC चैनल को स्थिर करने के लिए जम्पर छिद्रों के साथ संपत्ति मार्ग चिन्ह में स्थिर करें।
- 9 PVC चैनल पर जोड़ों को बनाये (विन्यास को देखें)
- 10 PVC चैनल को विन्यास के अनुसार कार्यस्थल पर स्थिर करें।
- 11 PVC चैनल में केबल को तार स्थापन आरेख के अनुसार दौड़ायें। (Fig 2)
- 12 चैनल पर आवरण को स्थिर रखें।
- 13 चैनल के प्रवेश के लिए PVC बाक्सों को चिन्हांकित करें तथा काटें।
- 14 नियुक्त नक्शे के अनुसार केबल के प्रवेश तथा केबल्स को बाहर निकालने के लिए छिद्रों को ड्रिल करें।

15 केबल को उपसाधन में अन्तक करें तथा कुंजी बाक्स पर कुंजी नियामक तथा साकेट को आरोहित करें।

16 परिपथ को रोधन प्रतिरोध, अविच्छिन्नता परीक्षण तथा ध्रुवता के लिए परीक्षण करें।

उपरोक्त परीक्षण के साथ संतोष जनक परिणाम प्राप्त होने के पश्चात ही परिपथ को ऊर्जित करें।

17 परिपथ को आपूर्ति से जोड़े तथा उसका परीक्षण करें।

PVC कोन्ड्यूट वायरिंग करके दो विभिन्न स्थानों से एक लैम्प को कंट्रोल करना (Wire up PVC Conduit wiring to control one lamp from two different places)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- द्वि मार्गी कुंजी का प्रयोग करके परिपथ के द्वारा दो विभिन्न स्थानों से एक लैम्प को कंट्रोल करना
- फ्लश प्रकार के सहसाधनों के लिए लकड़ी के बोर्ड कट के आधार पर वर्णन करना
- PVC केसिंग में परिपथ को वायर अप करना तथा दो विभिन्न स्थानों के द्वारा एक लैम्प के कैमिंग से कंट्रोल करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/उपकरण	सामग्री
क्रास पिन हथौड़ा 250 gms	- 1 No. PVC कन्ड्यूट पाइप -19 mm व्यास - 2 mtrs.
पेंचकस 200 mm साथ 5 mm ब्लेड	- 1 No. PVC टर्मिनल बाक्स - 1 No.
इन्सुलेटेड स्क्रू ड्राइवर 150 mm चौड़ाई 5 mm ब्लेड के साथ	- 1 No. बुड स्कू नं. 6x12 mm - 3 Nos.
इलेक्ट्रीशियन चाकू (100 mm)	- 1 No. बुड स्कू नं. 6x20 mm - 4 Nos.
कलैक्टर पेंचकस 100 mm	- 1 No. PVC - शीट एल्यूमिनियम केबल 1.5 sq mm. 250V ग्रेड - 6 m.
मैलेट 5 cm व्यास -500 gram	- 1 No. फ्लश माउण्टिंग द्वि मार्गी कुंजी 6A, 250V - 2 Nos.
जिमलेट 5 mm डाया 200 mm लम्बी	- 1 No. बैटन लैम्प होल्डर,, 6A, 250V - 1 No.
हस्त ड्रिलिंग मशीन 6 mm क्षमता	- 1 No. टर्मिनल प्लेट 3-way - 1 No.
ड्रिल बिट 3 mm to 5 mm	- 1 प्रत्येक बल्ब 40W, 250V, BC प्रकार - 1 No.
ट्राई स्क्रवायर 150 mm	- 1 No. PVC राउण्ड ब्लॉक (90mm x 40 mm) - 1 No.
ब्राइल 150 mm	- 1 No. PVC box 100 mm x 100 mm - 2 No.
कॉम्बीनेशन प्लायर 200 mm	- 1 No. PVC 'टी' 19 mm - 2 Nos.
हैक्सा फ्रेम साथ में ब्लेड (24 TPI)	- 1 No. मार्किंग पेन/पेन्सिल/चॉक - आवश्यकतानुसार
स्टील रूल (300 mm)	- 1 No. मार्किंग थ्रेड - आवश्यकतानुसार
	• PVC इन्सुलेशन टेप - 1 रोल
	• सेल्फ टैपिंग स्कू (20 mm) - आवश्यकतानुसार
	• PVC बेन्ड 19mm - 2 mtrs

प्रक्रिया (PROCEDURE)

1 Fig 1 लेआऊट के आधार पर जॉब के लिए जरूरत सामग्री तथा और का आकलन करें तथा वायरिंग का चित्र Fig 3 में दी गई लिस्ट के साथ तुलना करें । अपने प्रशिक्षणार्थियों तथा अनुदेशक से इन दोनों लिस्टों के परिवर्तन के बारे में विचार करें ।

2 प्रत्येक लिस्ट की सामग्री को एकत्र करें ।

3 द्वि मार्गी कुंजी को ले और कुंजी को पहचाने तथा निश्चित करें ।

4 बैटन लैम्प होल्डर तथा कुंजी के टर्मिनल चिन्ह, केबल प्रवेश छेद को पहचानने ।

5 Fig 2 में परिपथ के हिसाब से चित्र दिखाया गया है ।

Fig 1





Fig 2




अनुदेशक से सहमति लीजिए। यदि आवश्यकता है, कनेक्शन को अल्टरेशन में बनाना है।

6 सफ्टार्व को जोड़े, परिपथ के फंक्शन की जाँच करें तथा टेबल 1 में निष्कर्ष को लिखें।

टेबल 1

S_1, S_2 पोजिशन ऊपर	_____
S_1, S_2 पोजिशन नीचे	_____
S_1 ऊपर तथा S_2 नीचे	_____
S_1 नीचे तथा S_2 ऊपर	_____


Fig 3



ELN2274H3

7 स्थापन योजना के हिसाब से इमारत पर ले आऊट प्लाइंट को चिन्हित करें। (Fig 4)

Fig 4



ELN2274H4

8 ले आऊट के द्वारा चिन्हांकित किये गये आवश्यक लंबाई का PVC पाइप को काटें।

PVC पाइप काटते समय उनके मध्य उपयोग होने वाले बेन्ड्स, टी, कानर्स ज्वाइंटर का ध्यान रखें ताकि पाइप की आवश्यक ख्यात न हो।

9 सेडल्स कहाँ-कहाँ लगाना है चिन्हांकित करें और उनके एक किनारा को ही दीवार पर ढीला करना चाहिए।

सेडल्स की बीच की दूरी N.E. कोड को देखें। यदि दीवार ईंट / क्रांकीट का बना हो तब लकड़ी की गढ़ियाँ लगाना आवश्यक है।

10 सेडल्स में PVC पाइप एवं वैद्युतिक सहायक सामग्री लगाते हैं एवं सेडल्स के स्कू कसते हैं। आयरिंग डायग्राम के अनुसार वायर/केवल को काटें। (Fig 2)

वायर के लम्बाई को घुमाव/मोड़ हेतु 200 से 300 mm अतिरिक्त रखना चाहिए।

11 वायरिंग परिपथ के अनुसार वायर/केवल को पाइप में घुसाकर फिटकर देते हैं फिर अन्य सिरे के वायर को आवश्यकतानुसार खींचते हैं। (Fig 3)

PVC पाइप को लंबी दूरी तक दौड़ाने/लगाने हेतु फिस वायर स्लिंग का उपयोग करना चाहिए ताकि कंड्यूट में केवल को पुल करने में परेशानी न हो।

12 सभी बॉक्सों एवं राउण्ड ब्लॉक में केवल/वायर के आने का जगह चिन्हांकित करें। बॉक्स और राउण्ड ब्लॉक में भी वायर के एन्ट्री (घुसाव) के जगह को चिन्हांकित कर लेना चाहिए। बॉक्स/ब्लॉक में लगाने वाले वैद्युतिक सहायक सामग्री हेतु भी चिन्हांकित करना आवश्यक है।

13 पाइप के सभी एन्ट्री जगह को ड्रिल करते हैं और राउण्ड ब्लॉक एवं बॉक्स में पिलोट/छेद तैयार करें।

14 राउण्ड ब्लॉक एवं बॉक्स में केवल के लिए बने होते हैं वायर डालें एवं ब्लॉक/बॉक्स को इमारत पर लगा दें।

15 वायरिंग डायग्राम के अनुसार वायर/केवल के अंत में सहायक सामग्रियों को फिट करें एवं उसे राउण्ड ब्लॉक या बॉक्स में लगाकर तैयार करें।

संपूर्ण स्थापना/वायरिंग स्थापना योजना के अनुसार होना चाहिए। (Fig 4)

16 अनुदेशक से जाँच कराने के पश्चात वायरिंग/स्थापना की जाँच करें।

PVC कांड्यूट में तार स्थापन करके एक लैम्प को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करना (Wire up PVC conduit wiring to control one lamp from 3 different places)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- नॉव की एकांतर स्थितियों में I.M. कुंजी सम्बद्धनों के सत्यापित करना तथा बनाना
- I.M. कुंजी सम्बद्धनों पर आधारित 3 विभिन्न स्थितियों से नियंत्रित होने वाले एक लैप को दर्शाने के लिए योजनाबद्ध आरेख को बनाना
- I.M. कुंजी के साथ किये गये परिपथ को बनाना
- दीवार तथा छत में आवश्यक संख्या के मोड़, एल्वो (कोहनी) तथा विभिन्न प्रकार के जोड़ बाक्सों के साथ मापों के अनुसार PVC पाइपों को काटना तथा विछाना
- तार स्थापन आरेख के अनुसार केबल्स को पाइप में खिंचना
- उपसाधनों को बोर्ड पर लगाना तथा उपसाधनों में केबल्स को अन्तक करना
- परिपथ का परीक्षण करना।


आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/उपकरण	सामग्री
हैक्सा फ्रेम 300 mm 24 TPI ब्लेड के साथ	- 1 No.
Steel tape roll 5 Meter	- 1 No.
पेंचकस 250 mm, 4 mm ब्लेड चौड़ाई के साथ	- 1 No.
पेंचकस 150 mm, 3 mm ब्लेड चौड़ाई के साथ	- 1 No.
कनेक्टर पेंचकस 100 mm,	
3 mm ब्लेड चौड़ाई के साथ	- 1 No.
साहूल धागे के साथ Plumb bob	- 1 No.
गुनिया 250 mm	- 1 No.
बाल पेन हथौड़ा 200 mm	- 1 No.
पोकर 4 mm व्यास 200 mm	- 1 No.
गिलमेट 4 mm व्यास 200 mm	- 1 No.
इलेक्ट्रीशियन D.B का चाकू 100 mm	- 1 No.
कटिंग प्लायर विद्युतरोधित 200mm	- 1 No.
हस्त बर्मायी मशीन 6 mm धमता	- 1 No.
S.S. बर्मा (बिट) अनी 3 mm तथा 4 mm	- 1each
साइड कटिंग प्लायर 150 mm	- 1 No.
फर्मर छैनी 12mm	- 1 No.
	PVC पाइप 20 mm व्यास
	PVC मोड़ 20 mm व्यास
	PVC कोहनी 20 mm व्यास
	PVC टी 200 mm व्यास
	सैडल 20 mm व्यास भारी गेज
	लकड़ी के पेंच नं. 6 , 12 mm
	लकड़ी के पेंच नं. 6, 18 mm
	PVC केबल 1.5 mm ² 250V ग्रेड
	T.W. गोल ब्लाक बाक्स 90 x 40 mm के साथ
	टर्मिनल प्लेट 3-पथ
	S.P. कुंजी –2 पथ टम्बलर प्रकार- 6 A 250 V
	मध्यवर्ती कुंजी 6 A 250 V
	B.C. प्रकार 6 A 250 V का बैक्लाईट बैटन-धारक
	B.C. लैम्प 40W 250 V

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : मध्यवर्ती कुंजी के सम्बद्धनों का पता लगाना

- अभ्यास के लिए उपसाधनों तथा सामग्री को एकत्र करें।
- नॉव की स्थिति के सापेक्ष टर्मिनलों के सम्बद्धनों के साधन (Male) को पहचाने तथा अपनी अभिलेख पुस्तिका में सम्बंधन आरेख को बनाइये।
- उपरोक्त सम्बद्धों को आधार के रूप में रखते हुए तीन विभिन्न स्थितियों से एक लैम्प को नियंत्रण करने के लिए योजनाबद्ध आरेख को अपनी अभिलेख पुस्तिका में बनाइये।
- आपके द्वारा बनाये गये योजनाबद्ध आरेख को, Fig 1 में दिये गये योजना बद्ध आरेख से तुलना करें।



5 सम्बद्धनों को अपने अनुदेशक को दिखाये तथा उनका अनुमोदन लें।

कार्य 2 : वर्क बैच / प्रशिक्षण बोर्ड पर परिपथ को बनाना

- वर्क बैच / प्रशिक्षण बोर्ड पर अनुमोदित आरेख के अनुसार परिपथ को बनायें।
 - अनुदेशक को परिपथ दिखाये तथा उनका अनुमोदन लें।
 - टेबल 1 में दिये गये अनुसार कुंजियों को प्रचालित करें तथा टेबल 1 में पणिमां को नोट करें।

ટેબલ 1

S नाब की ¹ स्थिति	S नाब की ² स्थिति	S नाब की ³ स्थिति	लैंप की स्थिति
↑	↑	↑	ON/OFF
↓	↑	↑	
↓	↓	↑	
↓	↓	↓	
↑	↓	↓	
↑	↑	↓	
↓	↑	↑	
↓	↑	↓	

कार्य 3 : PVC कंडियूट तार स्थापन को निष्पादित करना

- 1 Fig 2 में दिये गये विन्यास के अनुसार अधिष्ठापन अभ्यास कक्षिका पर विन्यास को अंकित करें।

Fig 2




Fig 3

- 2 विन्यास अंकन के अनुसार PVC पाइपों की आवश्यक लम्बाई को काटे।

PVC कंड्यूटों की मापी गयी लम्बाई को कम करने के लिए उपयुक्त स्थानों में मोड़, टी, तथा कोनों की लम्बाई को ध्यान में रखें।

- 3 I.P.C. में सैडलों की स्थिति को अंकित करें तथा उन्हें केवल एक साइड पर ढीला लगाये।


सैडलों के बीच दूरी के लिए N-E कोड का पालन करें। इट / कंक्रीट की दीवार स्थिति में लकड़ी के प्लग (गिडियॉ) को दिवार के साथ समतल में लगायें, उन्हें प्लास्टर करें तथा तराई करें।

- 4 सैडल में PVC पाइप तथा उपसाधनों को लगाये तथा सैडल को पेंचो से कर्सें।

5 तार स्थापन आरेख (Fig 3) के अनुसार केबल्स को काटे।

अन्तक के लिए 200 से 300 mm अतिरिक्त रखें।

Fig 3



WIRING DIAGRAM


PVC कंडयूट की अधिक लम्बी लम्बाईयों के लिए, कंडयूट में से केबल्स को खीचने के लिए मत्त्य तार पर्दा (**curtain**) स्थिंग का उपयोग करें।

- 7 गोल ब्लाक में कंडयूट के प्रवेश को फाइल को अंकित करें।
 - 8 कंडयूट की प्रवेश स्थिति पर आधारित, गोल ब्लाक पर उपसाधनों को स्थित करें। केवल प्रवेश के लिए आर-पार छिद्रों को तथा उपसाधनों को लगाने के लिए पायलट छिद्रों को अंकित करें।
 - 9 कंडयूट प्रवेश प्रोफाइल तैयार करें, गोल ब्लाक में आर-पार तथा पायलट छिद्रों को बर्मायी करें/ बनायें।
 - 10 गोल ब्लाकों के केवल प्रवेश छिद्रों में से केवल्स को निवेश करें तथा गोल ब्लाक को बोर्ड पर लगायें।
 - 11 तार स्थापन आरेख के अनुसार उपसाधनों के साथ केवल के सिरों को जोड़े तथा उपसाधनों को T.W. गोल ब्लाकों पर लगायें।

पूर्ण किये गये अधिष्ठापन को Fig 4 में दर्शाये गये अधिष्ठापन के अनुसार दिखना चाहिए।

12 अनुदेशक के अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात् परिपथ का परीक्षण करें।

Fig 4



ELN2275-H4

PVC कान्ड्यूट पर वायरिंग करना और सॉकेटों और लैम्पों के विभिन्न प्रकार के संयजनों का स्विचों से नियंत्रण करने का अभ्यास करना (Wire up PVC Conduit wiring and practice control of sockets and lamps indifferent combinations using switching concepts)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- शक्ति तार स्थापन के लिए केबल के आमाप को ज्ञात करना
- अधात्तिक कंड्यूट पाइपों को काटना
- मजबूत पकड़ विधि के साथ पाइप आमाप के अनुसार पाइपों के साथ उपसाधनों को लगाना
- I.S. अनुशंसा के अनुसार सतह अधिष्ठापन पर आवश्यक क्लैम्पों तथा अन्तरालकों के साथ कंड्यूट को लगाना
- अधात्तिक कंड्यूट पाइपों के साथ तारों को खींचना
- PVC कंड्यूट में शक्ति परिपथों में तार स्थापन करना
- परिपथ का परीक्षण करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र	सामग्री
• संयुक्त प्लायर 200 mm	- 1 No.
• पेंचकस 200 mm, 4 mm ब्लेड के साथ	- 1 No.
• साइड कटिंग प्लायर 150 mm	- 1 No.
• इलेक्ट्रीशियन का चाकू 100 mm	- 1 No.
• सूजा (bradawl) 150mm	- 1 No.
• बाल पेन हथौड़े 250 ग्राम	- 1 No.
• हैक्सा 24 TPI ब्लेड	- 1 No.
• फार्मर छैनी 6mm x 200mm	- 1 No.
• अर्धचन्द्र रास्प रेती 200 mm बाइस्टेड हेन्डलवाली	- 1 No.
• सपाट रेती रेस्प 200 mm	- 1 No.
• निअॉन परीक्षक 500V	- 1 No.
• बर्मा अनी 6 mm, 3 mm	- 1 No.
• हस्त बर्मायी मशीन 6 mm क्षमतावाला	- 1 No.
	प्रत्येक
	- 1 No.
• PVC पाइप 20 mm व्यास	- 11 mts.
• 3-पथ सधि बाक्स 25 mm	- 3 Nos.
• 20mm सैडल	- 19 Nos.
• T.W. बाक्स 200 x 150 x 40mm	- 4 Nos.
• PVC कवचित ऐलुमिनियम केबल 4 वर्ग mm 250V- 52 mts.	
• तांबा तार 14 SWG	- 13 mts.
• 3-पिन साकेट 16A 250V	- 2 Nos.
• 3-पिन साकेट फ्लूज कुंजी 16A 250V	- 2 Nos.
• T.W. लकड़ी का अन्तरालक	- 20 Nos.
• टर्मिनल प्लेट 16A 6-पथ	- 1 No.
• लकड़ी के पेंच नं. 6 x 25 mm	- 20 Nos.
• लकड़ी के पेंच नं. 6 x 12 mm	- 40 Nos.
• PVC कोहरी 20 mm	- 1 No.
• पृष्ठ-आरोहण प्रकार किट-केट फ्लूज 16A, 250V	- 2 Nos.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : शक्ति तार स्थापन के लिए केबल के आमाप को ज्ञात करना

1 यह मानते हुए कि प्रत्येक साकेट 1.5 क्षमता के एक कमरा वातानुकूलकों को प्रदाय कर रहा है, प्रत्येक साकेट के भार विवरण को सुनिश्चित करें।

साकेट सम्बंधन, भार तथा परिपथ के अनुसार अधिकतम संख्या के साकेट के सम्बन्ध में I.E. विनियम N.E. कोड तथा I.S. अनुशंसाओं को देखें।

2 परिपथों की संख्या, परिपथ तथा शाखा परिपथों के लिए केबल्स के लिए आमाप को ज्ञात करें।

केबल्स के धारा वाहक क्षमता को टेबल को देखें।


3 टेबल 1 में भरें तथा परिणामों के लिए अनुदेशक का अनुमोदन प्राप्त करें।

टेबल 1

वातानुकूल को नाम पट्टी का विवरण	क्षमता : 1.5 टन वोल्टता : 230 V 50 Hz धारा : 13 A
प्रत्येक साकेट पर भार एम्पियर
एक परिपथ में अनुमेय साकेटों की संख्या दिये गये प्रकार्य के लिए आवश्यक परिपथों की संख्या साकेट
मुख्य परिपथ केवल में धारा जब, चार वातानुकूलक कार्य कर रहे हो परिपथ
शाखा परिपथ केवल में धारा जब, दोनों वातानुकूलक कार्य कर रहे हो एम्पियर
मुख्य परिपथ के लिए चयन किया गया केवल	अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल : sq. mm
शाखा परिपथ के लिए चयन	आमाप : mm
किया गया केवल	वोल्ट ग्रेड : वोल्ट
	अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल : sq. mm
	आमाप : mm
	वोल्ट ग्रेड : वोल्ट

कार्य 2 : परिपथ को बनाना तथा उसका परीक्षण करना

- 1 परिपथ आरेख के अनुसार आवश्यक उपसाधनों के साथ वर्क बैंच / प्रशिक्षण बोर्ड पर परिपथ को बनाये। (Fig 1)
- 2 अपने अनुदेशक से अनुमोदन प्राप्त करें।
- 3 आपूर्ति दे तथा परिपथ का परीक्षण करें।




कार्य 3 : PVC कंड्यूट के साथ शक्ति परिपथ का तार स्थापन

- 1 विन्यास आरेख के अनुसार I.P.C. पर विन्यास को अंकन करें। (Fig 2)
- 2 फिटिंग की लम्बाई को ध्यान में रखते हुए विन्यास के अनुसार PVC कंड्यूट को काटें।
- 3 Fig 3 में दर्शाये गये अधिष्ठापन नक्शे के अनुसार, विन्यास अंकन पर लकड़ी के अन्तरालकों को 25 mm लकड़ी के पेंचों की सहायता से लगायें।
- 4 लकड़ी अन्तरालकों पर केवल एक साइड सैडलों को लगायें।
- 5 विन्यास आरेख Fig 2 तथा तार स्थापन आरेख, Fig 4 को ध्यान में रखते हुए मार्ग लम्बाई के अनुसार केवल की लम्बाई को काटें।

प्रत्येक केवल में 200 से 300 mm को अतिरिक्त लम्बाई रखें।

- 6 PVC कंड्यूट तथा उपसाधनों को सैडल में लगाये तथा सैडलों को लकड़ी के पेंचों के माध्यम से करें।
- 7 केवल्स तथा भू तार को पाइप में तथा फिटिंग में निवेश करें तथा तारों को पाइप के दूसरे सिरे तक धकेलें।
- 8 कंड्यूट अन्तकों के लिए उपसाधनों को लगाने के लिए तथा केवल अन्तकों को लें जाने के लिए लकड़ी के बाक्से तैयार करें।



9 बाक्सों के आधार को I.P.C. पर लगाये तथा क्रमिक छिद्रों में केवल का निवेश करने के पश्चात् बाक्सों पर आवरण को लगाये।

परिपर्ती शब्द IPC का विस्तार, अधिष्ठापन अभ्यास कक्षिका / तार स्थापन कक्षिका / तार स्थापन बूथ है।

10 उपसाधनों के साथ केवल सिरों को जोड़े तथा बाक्सों के साथ उपसाधनों को पेंचों के द्वारा लगायें।

11 भू तार को जोड़े (पूर्ण अधिष्ठापन को Fig 3 में दर्शाये गये अनुसार दिखाना चाहिए।)

भू तार के न्यूपतम आमाप, 14 SWG, तथा कलईदार तांबा का उपयोग करना चाहिए।

12 अनुदेशक का अनुमोदन लें।

13 परिपथ का परीक्षण करें।

Fig 3

The diagram illustrates an installation plan for a system. A horizontal pipe is shown with several vertical sections branching off from it. On the left side, there is a vertical stack of six rectangular components, each connected to the horizontal pipe by a vertical pipe. The top-most component is connected to the main horizontal pipe via a T-junction. The other five components are connected via vertical pipes that meet the horizontal pipe at different points along its length. The entire assembly is labeled "N E O O O O L N E E O" vertically on the left side.

INSTALLATION PLAN

ELN22761H3

Fig 4

The wiring diagram illustrates a three-phase motor connection. It features three sets of terminals labeled N, E, and L. The first set connects to a thermal relay (top contact open, bottom contact closed) which controls a first starter (top contact open, bottom contact closed). The second set connects to a second thermal relay (top contact open, bottom contact closed) which controls a second starter (top contact open, bottom contact closed). The third set connects to a third thermal relay (top contact open, bottom contact closed) which controls a third starter (top contact open, bottom contact closed). Each starter has its own set of contacts (top contact open, bottom contact closed) in series with the line. The neutral (N) lines from all three phases are connected together at the top. The common neutral line (N) is also connected to the common neutral line of the first phase's star connection. The line (L) from the first phase's star connection is connected to the common neutral line (N) of the second phase's star connection. The line (L) from the second phase's star connection is connected to the common neutral line (N) of the third phase's star connection. The line (L) from the third phase's star connection is connected to the common neutral line (N) at the bottom.

वितरण फ्लूज बाक्स तथा I.C.D.P. कुंजी के साथ उपभोक्ता के मुख्य बोर्ड का तार स्थापन करना (Wire up the consumer's main board with I.C.D.P. switch and distribution fuse box)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- मानक पद्धति की संहिता का अनुपालन करते हुए दिये गये विन्यास के अनुसार बोर्ड पर वितरण फ्लूज बाक्स तथा I.C.D.P. कुंजी को लगाना
- तारों को खींचने के प्रयोजन से तथा उपसाधनों को लगाने के लिए छिद्रों को बर्मा करने के लिए, बोर्ड पर अंकन करना
- उपसाधनों को लगाने के लिए तथा केबल प्रवेश के लिए उपयुक्त छिद्रों की बर्मायी करना
- उपसाधनों को लगाने में
- धातु भागों को पहचानने तथा भू संपर्कित करने में
- रोधन के रंग के अनुसार कला तथा उदासीन के लिए जोड़े जाने वाले केबल के पहचानने में
- मुख्य कुंजी तथा D.B. की क्षमता के अनुसार केबल्स के आमाप को चयन तथा पुष्टि करने में।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयन्त्र	सामग्री	
• स्टील रूल 300mm	- 1 No.	
• इन्सुलेटेड साइड कटर 150mm	- 1 No.	
• संयुक्त प्लायर 200 mm	- 1 No.	
• हस्त बर्मायी मशीन 6 mm क्षमता, 3mm, 6mm अनी के साथ	- 1 set.	
• पोकर 200mm	- 1 No.	
• पेंचकस 200 mm, 4 mm ब्लेड के साथ	- 1 No.	
• पेंचकस 150 mm, 3 mm ब्लेड के साथ	- 1 No.	
• सम्बंधक पेंचकस 100 mm	- 1 No.	
• निझॉन परीक्षक 500V	- 1 No.	
• लकड़ी का मैलट 7.5 cm व्यास 500 g	- 1 No.	
• इलेक्ट्रीशियन चाकू DB 100 mm	- 1 No.	
• टेनन-आरी 300mm	- 1 No.	
• गिमलेट 200 mm, 4 mm व्यास स्टेम के साथ	- 1 No.	
• फार्मर छैनी 12mm	- 1 No.	
• लकड़ी रेस्प रेती 200 mm सपाट	- 1 No.	
	- 1 No.	
	• लौह आवरत द्वि-ध्रुव कुंजी 16A 250V	- 1 No.
	• वितरण फ्लूज बाक्स –4 पथ 16A 250V	- 1 No.
	• लकड़ी के पेंच नं. 25 x 6 mm	- 4 Nos.
	• लकड़ी के पेंच नं. 20 x 6 mm	- 4 Nos.
	• लकड़ी के पेंच नं. 15 x 6 mm	- 2 Nos.
	• PVC ऐलुमिनियम केबल 2.5 वर्ग mm लाल तथा काले रंग में	- 1.5 m प्रत्येक
	• टिनड कलई तांबा तार 14 SWG	- 3 M.
	• T.W. (हिंड) कब्जा बाक्स 300x250x80 mm	- 1 No.
	• 3 mm व्यास 25 लम्बा पूर्ण चूड़ीदार G.I. बोल्ट नट तथा वाशर	- 10 Nos.
	• PVC केबल क्लिप 10 mm चौड़ा 2 mm मोटा	- 300 mm.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

- Fig 1 तथा 2 में दर्शाये गये अनुसार T.W. बोर्ड की ऊपरी सतह पर दिये गये I.C.D.P. तथा D.B. की स्थिति को अंकित करें।
- केबल दौड़, तथा भू चालक के लिए आर-पार छिद्रों की स्थिति को अंकित करें।
- ICDP तथा D.B. को लगाने के लिए T.W. बोर्ड में उपयुक्त छिद्रों (या तो पायलट या आर-पार) को बर्मा करें।
- केबल प्रवेश के लिए छिद्रों को बर्मायी करें।
- आपूर्ति तथा निर्गम केबल्स के लिए आधार T.W. बोर्ड के ऊपर तथा निचले भाग में छिद्र बनायें।
- लकड़ी पेंच / अन्य बंधनों के उपयोग से ICDP तथा DB को लगायें।

Fig 1





Fig 2



- 7 मुख्य कुंजी तथा D.B. के निर्धारण के अनुसार केबल्स के आमाप का चयन तथा पुष्टि करें।
- 8 T.W. बोर्ड के माध्यम से ICDP के साथ आपूर्ति लीडों को जोड़ें। कला केबल के सिरे को अंकित करें।


आगामी तथा निर्गमी केबल को I.C.D.P. तथा D.B. के साथ जोड़ते समय, वे शीर्ष बोर्ड के छिद्रों में से तथा फिर आधार बोर्ड के शीर्ष तथा तल पाइपों में उपलब्ध कराये गये छिद्रों में से गुजरना चाहिए। दोनों स्थितियों में केबल की लम्बाई में पर्याप्त गुजाइश (allowance) देना चाहिए, जिससे कि कब्जे वाले ऊपरी बोर्ड को आधार बोर्ड से 120° के कोण पर खोला जा सके। बोर्ड के अन्दर केबल को PVC केबल क्लिपों से होर्नसिंग (harnessing) करना चाहिए, तथा केबल्स को ICDP तथा D.B. से PVC ब्रुश युक्त छिद्रों में से अन्दर या बाहर गुजारना चाहिए।

- 9 Fig 3 में दर्शाये गये अनुसार ICDP को DB को परस्पर जोड़ें। चार शाखा परिपथों के लिए DB से 4 जोड़े निर्गम केबल्स उपलब्ध कराये। तार स्थापन आरेख (Fig 3) को परिपथ आरेख (Fig 2) से तुलना करें।

सम्बंधन केबल्स का उपयोग करते समय रंग कोड का पालन करें।
कला : लाल, उदासीन : काला


- 10 ICDP एवं DB में अर्थ संयोजन विंदु को पता लगाकर/निर्धारित कर T.W. बोर्ड पर अर्थिंग वायर हेतु उचित छेद करें।

Fig 3



- 11 ICDP तथा DB के साथ भू तार को जोड़ें तथा फिर मीटर बोर्ड भू तार के साथ E.C.C. को जोड़ें।
- 12 परिपथ / मुख्य भार के अनुसार DB तथा मुख्य कुंजी में फ्लूज लगाये। व्यष्टि परिपथ भारों को D.B. पर लेबल लगाकर ऐम्पियर में संकेत करना चाहिए।

Fig 4



ऊर्जा मापी बोर्ड तैयार करना तथा आरोहित करना (Prepare and mount the energy meter board)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- आवश्यकतानुसार दीवार पर छिद्रों को हथौड़े तथा रॉल जम्पर के साथ बनाना
- छिद्रों को भराई सामग्री के साथ भरना
- लकड़ी की गिट्ठियों को बनाने के लिए गर्त छिद्रों को बनाना
- दीवार में लकड़ी की गिट्ठियों (लकड़ी के प्लगों) को लगाना
- ईट दीवार में आर-पार छिद्रों को बनाने के लिए पाइप जम्पर का उपयोग करना
- मापी (मीटर) बोर्ड पर दिये गये ऊर्जामापी, लौह आवरत (Iron clad) कटाउट तथा उदासीन लिंकों का आरोहण करना
- विनियमों के अनुसार मापी, लौह आवरत कट-आउट उदासीन लिंक को जोड़ना
- दीवार पर मीटर बोर्ड को आरोहित करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र	उपकरण मशीन
इन्सुलेटेड स्टील रूल 300mm	- 1 No.
इन्सुलेटेड साइड कटर 150mm	- 1 No.
संयुक्त प्लायर 200 mm	- 1 No.
हस्त बर्मायी मशीन 3 mm तथा 6 mm बर्मा अनी के साथ	- 1 No.
पेंचकस 200 mm, 4 mm ब्लेड के साथ	- 1 No.
इन्सुलेटेड कनेक्टर पेंचकस 100 mm	- 1 No.
पोकर 200 mm लम्बा 4 mm ब्यास स्टेम के साथ - 1 No.	- 1 No.
इलेक्ट्रीशियन चाकू DB 100 mm	- 1 No.
फार्मर छैनी 12mm wooden handle	- 1 No.
रॉल जम्पर नं. 8 धारक तथा बिट के साथ	- 1 No.
शीतल छैनी 200 mm लंबा 12 mm किनारा के साथ	- 1 No.
बॉल पिन हथौड़ा 500 gm.	- 1 No.
टेनन-आरी 250mm	- 1 No.
मैलेट 7.5 cm ब्यास हैंड के साथ 500 gm	- 1 No.
निअॉन परीक्षक 500 V	- 1 No.
खरोचक 200 mm, 3 mm ब्यास सहित	- 1 No.
मेसन कन्फ्री	- 1 No.
सीमेंट मार्टर के लिए	- 1 No.
सामग्री	
एकल कला ऊर्जा मापी 10/15 A 250 V	
PVC विद्युतरोधित तांबा केवल 2.5 वर्ग mm	
कलईदार तांबा तार 14 SWG	
लौह -क्लेड कट आउट 16A	
उदासीन लिंक 16 A	
T.W. बोर्ड 250 x 250 x 40mm	
पोर्सेलेन अन्तरालक	
टीक लकड़ी गिट्ठियाँ (लकड़ी के प्लग)	
40mm वर्गx 60mm लम्बा x 30mm वर्ग	
लकड़ी के पेंच नं. 4 x 25 mm	
सीमेंट	
नदी की रेत	
रॉल प्लग नं. 8	
रॉल प्लग यौगिक	
चॉक का टुकड़ा (रंग)	
G.I. पाइप 20 mm	
लकड़ी पेंच नं. 50 x 8 mm	

कार्य 1 : मापी बोर्ड आरोहण के लिए दीवार को तैयार करना

विधि 1 (रॉल प्लग)


यदि ईट की दीवार दृढ़ हो तो इस विधि को अपनाये।

ध्यान रखें कि दीवार पर बोर्ड, सही क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर स्थिति में हैं।

- 1 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार T.W. बोर्ड में 3 mm ब्यास के 4 आर-पार छिद्रों को बर्मायी करें।
- 2 भूमि के सापेक्ष मीटर बोर्ड की स्थिति की ऊँचाई की पुष्टि करने के पश्चात् T.W. बोर्ड को दीवार पर रखे तथा खरोचक से दीवार पर बोर्ड के छिद्रों की स्थिति को अंकित करें।

- 3 जम्पर हेन्डिल के साथ नं. 8 रॉल अनी का चयन करें।
- 4 जम्पर के रॉल अनी को निशान पर रखें तथा छिद्रों की स्थिति को अंकित करने में लिए हल्की चोटें।


Fig 1



REAR SIDE LAYOUT OF THE METER BOARD

ELN2378-H1

Fig 2



MARKING ON WALL

ELN2378-H2

पहले सभी चार अंकनों पर रॉल जम्पर के साथ हल्का निशान बनायें तथा बोर्ड में छिद्रों के साथ उनकी सत्यता की जाँच करें।

- 5 एक निशान राल जम्पर को रखते हुए चोट दें तथा हथौड़े के प्रत्येक चोट के लिए जम्पर हैंडिल को 90° पर घुमाये।

इससे मसाले के टूटे हुए टुकड़े रॉल अनी को पकड़ बिना बाहर आ जायेगे। अन्यथा प्रचालन के अंत में अनी सरलता से बाहर नहीं आयेगी तथा अनी टूट भी सकती है।

- 6 40 mm की गहराई तक छिद्र बनाये।
- 7 अन्य तीन अंकनों में इस विधि को दोहराये।
- 8 रॉल प्लग को जल में डुबोये, उन्हें छिद्रों में प्लग करें तथा उस पर हल्की चोट दें, जिससे कि वे दीवार के बराबर हो जाएं।

अब T.W. बोर्ड के आरोहण के लिए दीवार तैयार है।

- 9 45 mm लम्बे लकड़ी पेंचों से दीवार पर बोर्ड को स्थिर करें।

आप रॉल प्लग के स्थान पर, रॉल पाउडर यौगिक (ऐस्ट्रेस्टस आधारित) का उपयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में उसे छिद्रों में कसकर भरने के पूर्व अर्ध ठोस लेप बनाने के लिए पाउडर में जल को मिलाने की आवश्यकता होती है।

विधि 2 लकड़ी की गिट्टीयाँ (प्लग)



यदि दीवार अधिक दृढ़ न हो तो इस विधि का पालन करें।

- 1 विधि 1 की कार्यन्वयन पद 1 तथा 2 को दोहरायें।
- 2 Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार अंकन के चारों ओर 50 mm वर्ग बनाये।
- 3 शीतल छैनी तथा हथौड़े की सहायता से दीवार सतह से 70 mm की गहराई पर प्लास्टर तथा ईंट को हटाये।
- 4 सीमेन्ट तथा रेत मसाले को 1:4 के अनुपात में तैयार करें।

मसाले को अर्ध ठोस स्थिति में रहने दें।

- 5 सभी गर्तों में जल छिद्रके।
- 6 मिस्त्री की कन्धी की सहायता से गर्त के अन्दर सीमेन्ट मसाले की कुछ मात्रा डाले।
- 7 छिद्र गर्त के अन्दर लकड़ी की गिट्टीयों को ऐसे निवेश करें जिससे कि चौड़ा भाग अन्दर तथा सकरा भाग बाहर हो तथा दीवार की सतह के साथ ठीक समतल पर हो। (Fig 3)

Fig 3



MOUNTING GUTTY IN THE RECESS

GUTTY

ELN2378-H3

- 8 गिट्टी की सभी साइडों पर ऐसे सीमेन्ट लगाये जिससे कि गिट्टी, वर्गाकार छिद्र के केन्द्र में रहें।
- 9 मिस्त्री की कन्धी से दीवार की सतह को चिकना करें।

4 घंटे तक सीमेन्ट को सूखने दें तथा प्रत्येक एक घंटे पर जल छिद्रके जिससे कि सीमेन्ट सेट हो जाए। लगभग 24 घंटों के पश्चात् गिट्टी दृढ़ हो जायेगी। तभी गिट्टीयों पर बोर्ड लगाया जा सकता है।

अब T.W. बोर्ड को लगाने के लिए दीवार तैयार है।

- 10 45 mm लम्बे लकड़ी के पेंच की सहायता से T.W. बोर्ड को लगाये।


प्रशिक्षणार्थियों को 45 mm लम्बे लकड़ी पेंचों को स्टेम मोटाई तथा क्रमिक पदनाम नंबरों के बीच सम्बंध को पहचानना चाहिए।

कार्य 2 : सेवायी सम्बंधन खिंचने के लिए दीवार को तैयार करना

कभी-कभी सेवायी सम्बंधन तार को G.I. पाइप के उपयोग से दीवार से निकालना होता है। इसलिए पाइप जम्पर की सहायता से दीवार में छिद्र बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने की विधि का वर्णन नीचे किया गया है। पाइप जम्पर का व्यास सेवायी सम्बंधन पाइप के व्यास पर निर्भर करता है तथा पाइप जम्पर किलम्बाई, दीवार मोटाई पर निर्भर करती है।

- 1 400 mm लम्बाई के एक 20 mm व्यास G.I. पाइप को लें।
- 2 Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार हैक्सा के उपयोग से पाइप के एक सिरे पर काटते हुए ढांते बनाये।

Fig 4



दिखावट के कारण इस प्रकार के पाइप जम्पर को क्राउन जम्पर भी कहते हैं।

- 3 विद्युत सेवायी खंभे के निकटतम बिन्दु को ध्यान में रखते हुए दीवार का निरीक्षण करें तथा दिवार पर एक स्थान अंकित करें।

अंकन को, मापी टर्मिनल के निकट होना चाहिए। इसे R.C. बीम पर या दीवार में लगे ग्रेनाइट पत्थर में नहीं होना चाहिए।

पुराने भवन की स्थिति में यह जाँच करें कि अंकन के स्थल पर दीवार में से कोई कन्नील तार स्थापन तो दौड़ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में निशान को भिन्न स्थान पर लगाना चाहिए। फिर भी, भवनों में जहाँ तार स्थापन विद्यमान हैं, मुख्य को बंद करें, फ्यूज वाहक को हटा दें तथा उसे अभिरक्षण में रखें।

- 4 पाइप जम्पर को निशान पर रखें तथा उसे धीरे से चोट दें।
- 5 हथौड़े के प्रत्येक चोट के लिए पाइप जम्पर को घुमाये।

यह प्रक्रिया दूटी ईटों को हटाती है तथा पाइप जम्पर की गति मुक्त रहती है। ध्यान रखें तथा दीवार पृष्ठ पर पाइप जम्पर को लम्बवत रखें।

- 6 जब पाइप जम्पर दीवार से दूसरे किनारे से निकट पहुँच जाता है तो हथौड़े की चोट को धीमी करें।

छिद्र के अंत में हथौड़े से जोर से चोट लगाने से दीवार दूसरे सिरे पर अधिक बड़े साइज का प्लास्टर गिरेगा।

- 7 छिद्र को साफ करें।

- 8 छिद्र में सेवायी केवल के लिए G.I. पाइप निवेश करें तथा पाइप के निकट सीमेन्ट प्लास्टर कर दें।


मीटर बोर्ड की तार स्थापन करना (Wiring up a meter board)

- 1 ऊर्जामापी की क्षमता की पुष्टि करें।
- 2 मीटर निर्धारण के अनुसार केवल के आमाप का चयन करें तथा इसकी पुष्टि करें।

कला तथा उदासीन के लिए मानक रंग कोड का पालन करें।

- 3 विन्यास (Fig 5) के अनुसार मापी I.C. कट आउट तथा भू पट्टी को स्थित करें तथा T.W. बोर्ड पर उनकी स्थिति को अंकित करें।

Fig 5



- 4 केबल प्रवेश स्थितियाँ तथा आरोहण पेंच के स्थितियों को अंकित करें।
- 5 केबल आमाप के अनुसार बर्मा अनी का चयन करें।
- 6 केबल प्रवेश के लिए T.W. बोर्ड में आर-पार छिद्र तथा भू पट्टी, I.C. कट आउट तथा मापी को लगाने के लिए पायलट छिद्रों को बर्मायी करें।
- 7 मापी, IC कटाउट तथा भू पट्टी को लगायें।
- 8 विन्यास के अनुसार केबल्स के अनुसार केबल की लम्बाई को जात करें, तथा Fig 5 तथा 6 के संदर्भ में उन्हें काटें।
- 9 आपूर्ति लीड तथा I.C. कटाउट को निर्गत कला तार को जोड़ें, तार स्थापन आरेख के अनुसार उदासीन को सीधे गुजारें। (Fig 7 तथा 8)
- 10 मीटर की केसिंग तथा IC कटाउट काय (body) को भू प्लेट से भू संपर्कित करें।
- 11 मीटर बोर्ड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए, अनुदेशक के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिपथ का परीक्षण करें।
- 12 45 mm लकड़ी पेंचों की मदद से पूर्व में तैयार दीवार पर मापी बोर्ड को आरोहित करें।

पूर्ण कार्य को Fig 9 में दर्शाये गये अनुसार दिखाना चाहिए।

Fig 6




Fig 9




Fig 7





Fig 8



हास्टल, आवासी भवन एवं वर्कशाप की वायरिंग में लगने वाले सामानों का अनुमानित दर निकालना (Estimate the cost/bill of material for wiring of hostel/residential building and workshop)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- एक सब सर्किट का कूल लोड ज्ञात करना
- सब सर्किट में लगने वाले केबल का साइज ज्ञात करना
- सामग्रियों की संख्या ज्ञात करना
- वायरिंग की कीमत निकालना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/उपकरण

- मापने वाला टेप 0-25 m
- SWG
- स्टील रूल 300 mm
- माइक्रो मीटर 0-25 mm

सामग्री


- 1 No. • A-4 पेपर
- 1 No. • पेस्सिल/HP
- 1 No. • रबड
- 1 No.

- आवश्यकतानुसार
- 1 No.
- 1 No.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : हास्टल/घर में वायरिंग में लगनेवाले सामानों का अनुमानित दर निकालना

1 बिल्डिंग का प्लान तैयार करें । (Fig 1)



लोड का प्रकार और मात्रों ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर है । ये सब डाटा अनुमानित दर निकालने से पहले उपलब्ध होना चाहिए । एक ट्रेलि के लिए सामान्य आवश्यकताएँ नीचे दिया गया है ।

2 लाइटिंग, फेन, लाइटिंग और पावर साकेट की आवश्यकता निकालना ।

3 प्लान में लाइटिंग स्वीच बोर्ड इलेक्ट्रिकल लीड और DB को लोकेट करना ।

दीवार की चौड़ाई - 40 cm

जमीन से छत की ऊँचाई - 3.5 m

पाइप लगाने की ऊँचाई - 3 m

मुख्य बोर्ड की ऊँचाई - 2.5 m

स्वीच की ऊँचाई - 1.5 m

लाईटिंग पाइप की ऊँचाई - 3 m

मेइन बोर्ड की ऊँचाई - 3 m

नीचे दिए गए टेबल 1 में विद्युत लोड की क्षमता के अनुसार पाइंट दिया गया है ।

टेबल 1

स्थान	लाईट (60 W)	फैन (80 W)	6A प्लग पाइंट (80 W)	16A पावर प्लग (1000 W)
वरांडा	1	1	1	1
किचन	1	1	Nil	1
बेडरूम	2+2	1+1	1+1	Nil
द्राइंग रूम	2	1	1	Nil


4 IE रूल के अनुसार उपरोक्त लोड हेतु आवश्यक उप परिपथ की गणना कीजिए।

भारतीय विद्युत के नियमानुसार लाइटिंग/फेन एवं पावर के लिए अलग-अलग परिपथ होना चाहिए। टेबल फेन/टेबल लैम्प हेतु 6A का सॉकेट उपयोग में लाना चाहिए। 16A का पावर प्लग, पावर परिपथ जैसे भारी लोड हीटर, केटली आदि के लिए उपयोग करना चाहिए।

लाइट के लिए कुल वॉट	= 8 x 60 = 480 W
पंखे के लिए कुल वॉट	= 5 x 80 = 400 W
6A सॉकेट का कुल वॉट	= 4 x 80 = 320 W
कुल 17 Nos.	= 1200 W


इस प्रकार उप परिपथ हेतु 17 प्वाईट चाहिए। प्रत्येक उप परिपथ हेतु 8 या 9 बिन्दुओं से अधिक नहीं होना चाहिए। (संदर्भ Fig 2)

Fig 2



5 Fig 3 में दर्शाए अनुसार पाइप, स्विच बोर्ड, लोड एवं DB हेतु ले-आउट तैयार करें।

Fig 3



6 नीचे दर्शाए अनुसार प्रत्येक केबल के सार्वज का निर्धारण करें।

i) उप परिपथ -1 हेतु धारा

$$= \frac{(5 \times 60) + (2 \times 80) + (2 \times 80)}{230} = 2.696 \text{ A}$$

ii) उप परिपथ - 2 में धारा

$$= \frac{(3 \times 60) + (3 \times 80) + (2 \times 80)}{230} = 2.522 \text{ A}$$

iii) उप परिपथ 3 में धारा = $\frac{2000}{230} = 8.696 \text{ A}$

$$\text{कुल करंट} = 2.696 + 2.522 + 8.696 = 13.9 \text{ A}$$

16A, 250V फ्लश टाइप DP स्विच पर्याप्त है।

7 नीचे दिखाए अनुसार PVC कंड्यूट पाइप की लम्बाई की गणना कीजिए

ABC लम्बाई हेतु 19mm कंड्यूट उपयोग में लाया जा सकता है और वबे हुए लंबाई के लिए 12mm की पाइप पर्याप्त है।

क्षेत्रिज दिशा में

$$19\text{mm की पाइप ABC लंबाई हेतु} = 2.4 \text{ m}$$

$$19\text{mm पाइप C (दीवार की लम्बाई) के लिए} = 0.4 \text{ m}$$

$$\text{कुल} = 2.8 \text{ m}$$

12 mm पाइप

$$\text{लम्बाई CDEHI (4 + 3 + 1.5)} = 8.5 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई EG} = 2.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई HJ} = 2.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई CMNQSvw (3+3+4+2)} = 12.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई MS3} = 1.5 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई NP} = 2.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई QR} = 2.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई ST} = 2.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई SV} = 1.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई BK} = 3.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई AXyz (6+1)} = 7.0 \text{ m}$$

$$\text{लम्बाई (दीवार की मोटाई)} = 2.4 \text{ m}$$

$$\text{C, H, M, Q, S & Y (6 \times 0.4) पर} = 2.4 \text{ m}$$

$$\text{कुल} = 45.4 \text{ m}$$

उर्ध्वाधर (क्षेत्रिज दिशा में SB's) :

19 mm पाइप

$$\text{छत की ओर लम्बाई B} = 0.5 \text{ m}$$

$$\text{छत की ओर लम्बाई E} = 0.5 \text{ m}$$

$$\text{छत की ओर लम्बाई N} = 0.5 \text{ m}$$

$$\text{छत की ओर लम्बाई S} = 0.5 \text{ m}$$

$$\text{कुल} = 2.0 \text{ M}$$

$$\text{कुल 19 mm की पाइप चाहिए} = 2.8 + 1.5 + 0.5 = 4.8 \text{ m}$$

$$\text{नष्ट (वेस्टेज) 10\%} = 0.48 \text{ m}$$

$$\text{कुल} = 5.28 \text{ m}$$

(6m लेना है)

$$\text{कुल 12mm की पाइप चाहिए} 45.4 + 10.50 = 55.9 \text{ M}$$

$$\text{नष्ट (वेस्ट) 10\%} = 5.59 \text{ m}$$

$$\text{कुल} = 61.49 \text{ m}$$

(62m लीजिए)

पावर उप परिपथ हेतु - 3 (1/1.8m AI)

$$= 3 \times (6+1+1.5+1.5) = 30 \text{ m}$$

उप परिपथ 1 & 2 (1.0 mm² कॉपर)

$$= 3 \times (6 + 62 - 10) = 174 \text{ m}$$

प्रशिक्षणार्थी केबल/वायर के साइज को संबंधित धीयरी से भी चयन कर सकते हैं।

8 मजदूरी लागत की गणना

मीटर बोर्ड	= 2 बिन्दुएँ
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड	= 2 बिन्दुएँ
लाइट / पंचे	= 17 बिन्दुएँ
पावर	= 2 बिन्दुएँ
कुल बिन्दुएँ	= 23 बिन्दुएँ

मजदूरी लागत / उपयोग बिन्दु को स्थानीय लागत सूची से लिया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए यदि लागत प्रति बिन्दु 100 रु. हो,

तब कुल लागत होगा $23 \times 100 = \text{Rs. } 2300/-$

9 टेबल 2 में दर्शाये अनुसार "सामग्रियों की सूची एवं लागत" तैयार करें।

टेबल 2

सामग्रियों की सूची एवं लागत

क्र.सं.	सामग्रियों का विवरण	लागत-मूल्य				रिमार्क
		मात्रा	कीमत	प्रति	कीमत	
1	दो पोल मेन स्विच 10A, 240V फ्लश टाइप	1 No.	प्रत्येक	M.B & पावर लोड के लिए
2	I.C कट आउट 16A, 240V	1 No.	प्रत्येक	
3	फ्लूज इकाई फ्लश टाइप 16A	1 No.	प्रत्येक	
4	फ्लूज इकाई फ्लश टाइप 6A	2 Nos.	प्रत्येक	
5	PVC पाइप 19 mm (चादर की मोटाई अधिक हो)	6 m	लंबाई	1 की लंबाई = 3 m
6	PVC पाइप 12 mm (heavy guage)	62 m	लंबाई	1 की लंबाई = 3 m
7	मल्टी स्टेंडर्ड कॉपर वायर VIR केबल 1.0mm ²	174 m	100m	
8	एल्युमिनियम VIR केबल 1/1.8 mm	30 m	100m	
9	कॉपर VIR केबल 1/1.8 mm	2 m	100 m	MB से D.B तक
10	स्विच 6A, 240V एक पथ फ्लश टाइप	17 Nos.	प्रत्येक	
11	सॉकेट 2-पिन 6A, 240V	4 Nos.	प्रत्येक	
12	3-पिन सॉकेट 16A, 240V स्विच के साथ	2 Nos.	प्रत्येक	
13	सिलिंग रोज 2 - प्लेट 6A 240V	5 Nos.	प्रत्येक	
14	पीतल का लैम्प बैटन होल्डर	8 Nos.	प्रत्येक	
15	PVC जोड़ बॉक्स	25 mm 4 - रास्तोंवाला 12 mm 3-रास्तोंवाला 12 mm 2-रास्तोंवाला	1 No. 7 Nos. 5 Nos. प्रत्येक प्रत्येक	
16	PVC बैंड्स 12 mm	4 Nos.	प्रत्येक	
17	PVC रिड्चूसर (25 mm से 12 mm	1 No	प्रत्येक	
18	सैडल्स	24Nos.	Doz	
		144No.	144 Nos.	
19	लकड़ी का बोर्ड	(a) 30 x 30 Cm (b) 18x10 Cm	2 Nos 7 Nos. प्रत्येक	MB से D.B तक D.B तथा सब S.D's बोर्ड
20	राउण्ड ब्लॉक	5 Nos	प्रत्येक	
21	लकड़ी की गट्टियाँ/प्लग 9cm ² x 4 cm ² x50 mm	3 doz	doz	बोर्ड के लिए
22	कील 25 mm	1 kg.	kg	प्रति पाईप
23	लकड़ी का स्क्रू 60 mm	25 Nos.	100	बोर्ड के लिए
		25 Nos.	100	होल्डर के लिए
24	लकड़ी का स्क्रू 12 mm	1 Kg.	kg.	
		1 Kg.	kg.	
25	अर्थ के लिए कॉपर वायर (16SWG) (GI वायर 14 SWG)	1 Kg.	kg.	
26	अर्थ हेतु (पाइप, नमक, कोयला)	1 सेच	kg.	
27	सिमेंट	2 kg.	kg.	
	मजदूरी लागत/कीमत	2 kg.	4 गुटियाँ के लिए	
	कुल				
	आकस्मिक खर्च 10%				
	महा योग				

प्रत्येक सामग्री का मूल्य, उच्च किस्म के सामग्रियों के मूल्य सूची
से प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य 2 : वर्कशॉप के वायरिंग के लिये सामग्रियों के मूल्य / बिल का निर्धारण करना ।


- 1 वर्कशॉप के फ्लोर प्लान के प्राप्त करें ।
- 2 ग्राहक के आवश्यकतानुसार फ्लोर प्लान में मोटरों के स्थितियों को चिन्हित करना ।

प्रशिक्षणार्थियों को समझने के लिए आवश्यकता का नमूना नीचे दिया गया है।

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1 5HP, 415V 3 फेज मोटर | - 1 No. |
| 2 3HP, 415V 3 फेज मोटर | - 1 No. |
| 3 ½ HP, 240V 1 फेज मोटर | - 1 No. |
| 4 1HP, 415V 3 फेज मोटर | - 1 No. |

Fig 4 में मोटरों के स्थापना को दिखाया गया है -

Fig 4



मेन स्विच, मोटर स्विच तथा स्टार्टर्स को जमीन के तल से 1.5m की ऊँचाई पर स्थापित किया जाता है।

ऊँचाई पर क्षेत्रज स्थापित युक्ति जमीन तल से 2.5 m पर होंगी।
मोटरों तथा स्टार्टरों का मूल्य निर्धारण में सम्मिलित नहीं होंगी।

3 केवल के साइज की गणना

मानलो सभी मोटरों की दक्षता 85% पावर फैक्टर 0.8 तथा सफ्टार्व वोल्टेज 400 V है।

$$5\text{HP} \text{ मोटर की फुल लोड करंट} = \frac{5 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.85 \times 0.8} = 7.806\text{A}$$

$$3\text{HP} \text{ मोटर की फुल लोड करंट} = \frac{3 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.85 \times 0.8} = 4.68 \text{ A}$$

$$\frac{1}{2} \text{ HP मोटर की फुल लोड करंट} = \frac{0.5 \times 735.5}{240 \times 0.85 \times 0.8} = 2.25 \text{ A}$$

$$1\text{HP} \text{ मोटर की फुल लोड करंट} = \frac{1 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.85 \times 0.8} = 1.56 \text{ A}$$

मेन स्विच और केवल की क्षमता जो मीटर से मेन स्विच तक लाने वाली केवल की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि परिपथ में लगे सभी महीनों की उच्चतम लोड करंट को सहन कर सके।

i.e, $15.6 + 4.68 + 2.25 + 1.56 = 24.9\text{A}$

4 टेबल 3 में दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्थापित मीटर के केवल साइज के लिए टेबल तैयार करें।

टेबल 3

क्र.सं.	मोटर	फुल लोड करंट $I_L (\text{A})$	स्टार्टिंग करंट $I_s = 2I_L (\text{A})$	आवश्यक केवल पाइप
1	5HP मोटर	7.5	15.0	2.0mm ² कापर कंडक्टर केवल (17A) or 2.5mm ² एल्युमिनियम कंडक्टर केवल (16A)
2	3HP मोटर	4.68	9.36	2.0mm ² कापर कंडक्टर केवल (17A)
3	1/2 HP मोटर	2.25	4.5	1.0mm ² कापर कंडक्टर केवल (11A) न्यूनतम संस्तुत केवल
4	1HP मोटर	1.56	3.12	1.0mm ² कापर कंडक्टर केवल (11A) न्यूनतम संस्तुत केवल

संबंधित सैद्धांतिक टेबल में से सभी प्रकार तथा गेज का केबल का चयन किया गया है।

5 उचित स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का चयन करें।

- 32A, 415V ICTP मेन स्विच, फ्यूज के साथ प्रयोग किया जा सकता है।
- 16A, 415V, ICTP मेन स्विच, फ्यूज के साथ का प्रयोग 5HP, 3HP तथा 1HP मोटर के लिए किया जा सकता है।


• 16A, 240V, ICDP मेन स्विच का फ्यूज के साथ का प्रयोग $\frac{1}{2}$ HP मोटर के लिये किया जा सकता है।

• 415V, 4वे, 16A per way IC वितरण बोर्ड जिसमें न्यूट्रल लिंक हो उसका प्रयोग पावर वितरण में हो सकता है।

6 Fig 5 में दर्शाये अनुसार पावर वायरिंग के लिये सिंगल लाइन डायग्राम बनायें।

7 कंडक्टर के साइज तथा लंबाई की गणना करना।

Fig 5



ELN2379-H5

तीन केबल स्थापित करने के लिए 19mm भारी गेज कंडक्टर तथा छ केबल स्थापित करने के लिये 25 mm भारी गेज कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है।

- 19 mm भारी गेज कंडक्टर

5HP मोटर स्टार्टर से मेन बोर्ड की लंबाई

$$= 1+1+3+1 = 6.0\text{m}$$

3HP मोटर स्टार्टर से मेन बोर्ड की लंबाई

$$= 1+1+5.5+1 = 8.5\text{m}$$

$\frac{1}{2}$ HP मोटर के आधार से मेन बोर्ड की लंबाई

$$= 1+1+8+1+1.5+1.5 = 14.0\text{m}$$

5HP मोटर के आधार से मेन बोर्ड की लंबाई

$$= 1+1+10.5+1+1.5+1.5 = 16.5\text{m}$$

कुल = 45.0 m

10% हानियाँ = 4.5m

कुल लंबाई = 49.5m, say 50.0m

- 25.4 mm हैवी गेज कंडक्टर

मीटर से मेन स्विच की लंबाई = 0.75 m

5HP मोटर स्टार्टर से 5HP मोटर आधार की लंबाई

$$= (1.5+1.5) 3.0\text{ m}$$

3HP मोटर स्टार्टर से मोटर आधार की लंबाई = 3.0 m

कुल = 6.75 m

10% हानियाँ = 0.67 m

कुल = 7.42m, (8.0m लगभग)

• 5HP & 3 HP मोटर के लिए 25 mm फ्लैक्सीबल कंडक्टर $(0.75+0.75) = 1.5$, (2.0m लगभग)

8 केबल के लंबाई की गणना करें

मेन बोर्ड से 5 HP मोटर टर्मिनल तक 2.0mm^2 कापर कंडक्टर

$$= 3(1+1+3+1) + 6(1.5+1.5+0.75) = 40.5\text{m}$$

15% हानियाँ तथा अंत सिरे = 7.2 m

कुल = 55.2m, (56.0 m लगभग)

मेन बोर्ड से $\frac{1}{2}$ HP मोटर टर्मिनल तक 1.0mm^2 कापर कंडक्टर = $2(1+1+8+1+1.5+1.5+0.75) = 29.5\text{m}$

15% हानियाँ तथा अंत सिरे = 7.76m

कुल = 59.51m, (60.0m लगभग)

9 सामान्य दर तथा नियम अनुसार प्वाइंट की संख्या की गणनानुसार मजदूर/श्रम मूल्य की गणना करें।

10 टेबल 4 में दिखाये अनुसार "सामग्रियों की सूची तथा लागत मूल्य तैयार" करना।

टेबल 4

सामग्री का विवरण एवं मूल्य

क्र.सं.	सामग्री की विशेषता	संख्या	दर	कीमत	रु. पै.	रिमार्क
			रु. पै.	प्रति		
1	32A, 415V- आयरन-क्लेड ट्रीपल-पोल (ICTPN) स्वीच फ्यूज के साथ	1 No.	प्रति	
2	16A, 415V, आयरन क्लेड ट्रीपल-पोल स्वीच फ्यूज के साथ	3 Nos	प्रति	
3	16A, 240V, क्लेड डबल-पोल स्वीच फ्यूज के साथ	1 No.	प्रति	
4	4-वे इंटीस्ट्रीब्यूशन बाक्स, 415V, 16A	1 No.	प्रति	
5	कन्ड्यूट हैवी गेज	19 mm 25mm	50m 8m	m
6	क्लेक्सीबल कन्ड्यूट्स.....	19 mm 25 m	2m 2m	m
7	2.0 mm ² कापर कंडक्टर सींगल कोर (17A)	47m	100m	
8	1.0mm ² कापर कंडक्टर सींगल कोर (11A)	56m	100m	
9	1.0mm ² कापर कंडक्टर सींगल कोर (11A)	34m	100m	
10	1.0mm ² कापर कंडक्टर सींगल कोर (11A)	60m	100m	
11	आयरन कोण फ्रेम 50 x 30 m	5 Nos.	प्रति	M.B & D.B केलिये
12	कंड्यूट बेल्स	19mm 25 mm	10 Nos. 2 No.	प्रति
13	सेडल्स	19 mm 25 mm	150 Nos. 25 No	100 100
14	कंड्यूट कपल्स	19mm 25 mm	6 No 1 No	प्रति
15	लकड़ी के टुकड़े	120 No.	doz	
16	अर्ध वायर, GI, 8 SWG	40m	kg	1kg \simeq 10m
17	मोटर में लगाने वाले लीड के लिए लग्स	17 No.	प्रति	(6+6+2+3)
18	पाइप अर्थिंग 25.4mm व्यास	2.5m	m	दो अर्थ
19	कोल	40 kg.	kg	
20	नमक	40 kg.	kg	
21	मेश वायर कीप सहित	1 No.	प्रति	
22	अर्थिक के लिए मजदूरी (सीविल वर्क)	2 Nos.	pit	
23	काशल प्लेट	1 No.	प्रति	
24	कील 25.4 mm	2	kg	
25	शॉक ट्रीटमेंट चार्ट	1	प्रति	
26	लेवर चार्ज	-	point	
	कुल	
	अतिरिक्त 10%	
	महा योग	
	ISay	

छात्रावास और आवासी भवन का IE नियमानुसार वायरिंग अभ्यास करना (Practice wiring of hostel and residential building as per IE rules)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :


- बैंक/हॉस्टल/जेल के परिपथ आरेखों की अध्ययन करना
- तार स्थापन योजना के विन्यास को चिन्हाकिंत करना
- विन्यास के अनुसार कंड्यूट फ्रेम को तैयार करने तथा अधिष्ठापित करना
- कंड्यूट में से केबल्स को खीचना
- परिपथ के अनुसार उपसाधनों को जोड़ना
- परिपथ का परीक्षण करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र	सामग्री
• संयुक्त प्लायर 200 mm	- 1 No. • द्विपथीय बटन 6A 250V - 4 Nos.
• पेंचक्स 200 mm, 4 mm ब्लेड के साथ	- 1 No. • बैटन होल्डर 6A 250V - 4 Nos.
• साइड कटिंग प्लायर 150 mm	- 1 No. • PVC बटन बॉक्स 100 X 100 X 40 mm - 4 Nos.
• इलेक्ट्रीशियन चाकू 100 mm	- 1 No. • PVC केबल 1.5 sq mm, 660 V - आवश्यकतानुसार
• सूजा (bradawl) 150 mm	- 1 No. • सैडल 19 mm - 20 Nos.
• बाल पेन हथौड़े 250 ग्राम	- 1 No. • लकड़ी की गट्टी - 20 Nos.
• हैक्सा 24 TPI ब्लेड	- 1 No. • पाइप बेंड 19mm - 20 Nos.
• फार्मर छैनी 6 mm	- 1 No. • फिश वायर - आवश्यकतानुसार
• सपाट रेती रेस्प 200 mm	- 1 No. • PVC पाइप 19 mm - 50 m
• निओन परीक्षक 500V	- 1 No. • फ्लेक्सिबल पाइप 19 mm - 2 m.
• हस्त बर्मायी मशीन 6 mm क्षमता 5mm ड्रिल बिट के साथ	- 1 No. • पाईप कपलर 19 mm - 6 Nos.
	• अर्थ वायर GI, 8 SWG - 20 m
	• लकड़ी के पेंच नं. 25 x 6 mm - 1 box
	• लकड़ी के पेंच नं. 12 x 6 mm - 1 box


प्रक्रिया (PROCEDURE)

1 योजनाबद्ध (Fig 1) तथा विन्यास आरेख (Fig 2) का अध्ययन करें।



2 Fig 1 तथा 2 पर आधारित तार स्थापन आरेख को बनाये तथा दिये गये तार स्थापन आरेख के साथ तुलना करें। (Fig 3)

3 विन्यास के अनुसार अपना स्वयं का तार स्थापन आरेख बनाये।




- 4 तार स्थापन आरेख के साथ-साथ विन्यास को देखते हुए तार स्थापन अधिष्ठापन के लिए आवश्यक सामग्री का आंकलन करें।
- 5 अधिष्ठापन अभ्यास घनाकृति (IPC) पर विन्यास को चिन्हांकित करें।
- 6 PVC कंड्यूट फ्रेम को विन्यास नक्शों के अनुसार तैयार करें।
- 7 सैडिल की स्थिति को चिन्हांकित करें तथा उन्हें विन्यास नक्शों के अनुसार ढीला स्थिर करें।
- 8 सैडिल की सहायता से कंड्यूट पाइप को IPC पर स्थिर करें।
- 9 कंड्यूट पाइप में मत्स्य तार को डाले।
- 10 केवल को तार स्थापन आरेख के अनुसार खीचें। (Fig 3)

प्रत्येक केबल में अंतक के लिए 200 से 300 mm की अतिरिक्त लंबाई छोड़ें।

- 11 बैटन धारकों को Fig 2 के अनुसार स्थिर करें तथा केबल सिरों को अन्त करें।
- 12 PVC कुंजी बाक्सों पर कुंजियों को स्थिर करें।
- 13 केबल्स के अन्तक सिरों को तैयार करें तथा परिपथ के अनुसार उपसाधनों का सम्बंधन करें।
- 14 अनुदेशक के अनुमोदन को प्राप्त होने के बाद परिपथ का परीक्षण करें।

Fig 3



ELN2380H3

IE नियम अनुसार संस्था तथा कार्यशाला की वायरिंग का अभ्यास करना (Practice wiring of Institute and workshop as per IE rules)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- कार्यशाला के फ्लोर प्लान का अध्ययन करना तथा वर्णन करना
- कार्यशाला में पावर वायरिंग के लिये सिंगल लाइन डायग्राम चिह्नित करना
- लाइन डायग्राम के लिये कंड्यूट फ्रेम का निर्माण करना
- कंड्यूट में केबल को खींचना/स्थापित करना
- परिपथ के अनुसार सहायक सामग्रियों को जोड़ना
- परिपथ की जाँच करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र	सामग्री
• इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन 6mm (5 mm ड्रिल बिट के साथ)	- 1 No. • PVC पाईप 20 mm - 10 M
• कार्बनेशन प्लायर 200 mm	- 1 No. • PVC 3 वे जंक्शन बॉक्स - 20 Nos.
• साइड कटिंग प्लायर 150 mm	- 1 No. • TW बॉक्स 200 X 150 X 40 mm - 3 Nos.
• इलेक्ट्रीशियन चाकू	- 1 No. • TW बॉक्स 300 x 200 x 40 mm - 4 Nos.
• ब्राडल 150mm	- 1 No. • TPIC 16A - 415V - 2 Nos.
• बाल पिन हेमर 250 gm	- 1 No. • DPIC 16A, 250V - 2 Nos.
• हैक्सा 24 TPI ब्लेड के साथ	- 1 No. • सैडल्स 19 mm - 50 Nos.
• फर्मर चिजल 6 mm	- 1 No. • लकड़ी की गिर्धी - 50 Nos.
• नियोन टेस्टर 500V	- 1 No. • कंड्यूट बेण्ड 19 mm - 10 Nos.
• 3φ एनर्जी मीटर 30A, 440V	- 1 No. • एंगल आयरन फ्रेम 50 x 30mm - 5 Nos.
उपकरण/मशीन	• फिश वायर - आवश्यकतानुसार
• 5 HP 3φ 440V AC मोटर	- 1 No. • PVC एल्युमिनियम केबल 4 Sq mm 250 V - 60 m
• 3 HP 3φ 440V AC मोटर	- 1 No. • कापर वायर 14 SWG - 15 meter
• 1/2 HP 1φ 240V AC मोटर	- 1 No. • PVC एल्बो 20 mm - 25 Nos.
• 1 HP 1φ 240V AC मोटर	- 1 No. • 4 वे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 200x150x40mm - 1 No.
• स्टार डेल्टा स्टार्टर 4, 5V 50 Hz	- 2 Nos. • TW बुडन स्पेसर - 30 Nos.
• DOL स्टार्टर 1φ, 10A, 250 V	- 2 Nos. • बुड स्क्रु 25 x 6 mm - 1 बॉक्स
	• बुड स्क्रु 12 x 6 mm - 1 बॉक्स
	• सरफेज माउंटेड किट काट फ्यूज 16A 250V - 4 No.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

- 1 वर्कशॉप का फ्लोर प्राप्त करें । (Fig 1).
 - 2 ग्राहक के आवश्यकतानुसार फ्लोर प्लान में मोटरों के स्थितियों को चिह्नित करें ।
- प्रशिक्षणार्थियों के समझने के लिए नीचे एक साधारण आवश्यकता दिया गया है :

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1 5 HP, 415V 3 फेज मोटर | - 1 No. |
| 2 3 HP, 415V 3 फेज मोटर | - 1 No. |
| 3 1/2 HP; 240V, 1 फेज मोटर | - 1 No. |
| 4 1 HP, 240V, 1 फेज मोटर | - 1 No. |




Fig 1 में दर्शाये अनुसार मोटरों को व्यवस्थित किया गया है -

जमीन के तल से भेनस्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर को 1.5 m

की ऊँचाई पर स्थापित करें।

क्षैतिज में स्थापित युक्तियों को 2.5 m की ऊँचाई पर स्थापित करें।

3 Fig 1 अनुसार वायरिंग डायग्राम बनायें।

4 Fig 2 अनुसार लेआउट चिन्हित करें।

5 प्रत्येक ले-आउट अनुसार PVC कंडक्यूट फ्रेम का निर्माण करें।

6 सैडलों की स्थिति को मार्क करें और उनको ले आऊट प्लान के अनुसार बिठायें।

7 सैडलों की सहायता से कॉन्डक्यूट पाईप को बिठायें।

8 कॉन्डक्यूट पाईप में फिश वायर को डालें।


9 Fig 2 में दर्शाये गये वायरिंग चित्र के अनुसार केबलों को खीचें।

10 बॉक्स पर स्वीटच का एनर्जी मीटर और स्टार्टर बिठायें।

11 केबल के सिरों को तैयार करें और सर्किट के अनुसार लोड को जोड़ें।

12 अनुदेश के अनुमोदन लेकर सर्किट का परीक्षण करें।

Fig 2



ELN281H2

घरेलू और औद्योगिक वायरिंग स्थापना में परीक्षण दोष खोजने का अभ्यास करना (Practice testing /fault detection of domestic and industrial wiring installation and repair)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में ओपन सर्किट दोष खोजना
- वायरिंग में शार्ट सर्किट दोष खोजना और मरम्मत करना
- वायरिंग में अर्थ दोष खोजना एवं मरम्मत करना
- घरेलू वायरिंग प्रणाली में दोष ठीक करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- कनेक्टिंग पेचकस 100mm
- कटिंग प्लायर 150mm
- पेचकस 200mm
- निओैन टेस्टर 500 V
- D.E. इलेक्ट्रीशियन चाकू 100mm
- मल्टीमीटर
- मेगर 500V

सामग्री


- टेस्ट लैम्प 100W, 240 V - 1 No.
- क्रोकोडायल किलप 15A - 2 sets
- PVC फ्लेक्सीबल केबल 1.5sq.mm, 660 V - 10m.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

खुला परिपथ दोष (Open circuit fault)

1 Fig 1 में दिये गये घरेलू अधिष्ठापन परिपथ पर विचार करना ।

Fig 1



खुले परिपथ के लिए दोष परीक्षण जैसे दर्शाया है मेगर से परीक्षण करने से पहले आवश्यक शाखा परिपथ फ्लूज इत्यादि को हटाए ।

2 मेगर का उपयोग करते हुए यह परीक्षण किया जाता है कि अधिष्ठापन में उपयोग हुई के बलस के उचित अविच्छिन्नता है कि नहीं ।

3 परिपथ में लगे फ्लूज की जाँच करेंगे की क्रमिक निर्धारण में है या नहीं यदि नहीं तो फ्लूज का तार बदलेंगे ।

4 एक बार में एक परिपथ की जाँच करेंगे और क्रमवार आगे बढ़ेंगे ।

5 जाँच रहे परिपथ में दो तरफा स्थित हैं तो यह सुरक्षित करेंगे कि सम्बन्ध रखने वाले स्थित बारी बारी से आपरेट होने चाहिए परिणाम का सही परीक्षण होगा ।

6 दोष पूर्ण पंखे, रेम्यूलेटर लम्बे घरेलू उपकरण जिनकी शेका हो उनकी जाँच करें और यदि आवश्यकता हो तो दुबारा परीक्षण करें ।


लघु परिपथ दोष (Short circuit fault)

1 Fig 2 के दर्शाये जैसे परिपथ बनाए और मेगर से सम्बन्ध करे यदि स्थित की आँॅन व आँॅक स्थिति में अविच्छिन्नता आती है तो यह दर्शाता है कि परिपथ में लघु पथित है ।

2 अधिष्ठापन में लगाई गई केबल और मूख्यपर्क के बीच रोधन प्रतिरोध की जाँच करें ।

3 मेगर का 'E' टर्मिनल फेस बार से और L दूसरा तार यूटल से जोड़े मेगर का मान शून्य या रोधन प्रतिरोध का मान बहुत कम होतो निश्चित है लघुपथित है ।

Fig 2



4 परीक्षण की विधि प्रत्येक और हर परिपथ में दोहराए जाँच कर रोधत बार व रोधन हटाया हुआ मग्नतार में और रोधन तार व न्यूटल तार में लघुपचित का निर्धारण करें।

भू सम्पर्क दोष (Earth fault)


1 जैसा की परिपथ (Fig 3) में दिखाया गया है सभी फ्यूज, स्विच बब्ब आदि जैसे फिगर में दर्शाये गये बन्द स्थिति में दिखाए गये हैं।

फेस तार को न्यूटलतार से विच्छेद करेंगे, सभी लैम्प और दूसरे उपकरण तार स्थापन से हटाएंगे।

2 सभी स्विच ऑन करेंगे।

3 इन्सुलेशन प्रतिरोध टेस्टर का उपयोग से मेगर के 'E' टर्मिनल को मीटर बोर्ड पर दिया गया भूसंपर्क और मेगर का 'L' टर्मिनल मेन बोर्ड के

Fig 3



हस्तार कट आऊट टर्मिनल में मेगर के हेण्डल को घूमाकर बन्द परिपथ में करेन्ट भेजेंगे।

4 भूसंपर्क और इन्सुलेशन प्रतिरोध का सीधामान मीटर के पाठ्यांक से नोट करेंगे।


5 पद 3 व पद 4 को दूसरे परिपथ, सब परिपथ, फेस तार और मुख्य स्विच बोर्ड आदि के लिए दोहराएंगे।

दोष के निवारण हेतु चार्ट बनाना (Flow chart for rectification of fault)

दोष ढूँढ़ने और समाधान के लिए चार्ट तैयार करें।

घरेलू तार स्थापन अधिष्ठापन में दोष और उनका निवारण Fig 4 में दर्शाया गया है।

Fig 4



FLOW CHART FOR LOCATING FAULT IN DOMESTIC WIRING INSTALLATION

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - वायरिंग स्थापना एवं अर्थिंग

अभ्यास 2.3.83

पाइप अर्थिंग तैयार करना एवं अर्थ टेस्टर/मेगर की सहायता से भू प्रतिरोध का मापना करना (Prepare pipe earthing and measure earth resistance by earth tester/megger)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- भू संपर्कन के लिए पाइप तैयार करना
- भू गर्भ को खोदना
- भू पाइप को तैयार तथा परीक्षण करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र	सामग्री	
• G.I डाई स्टाक 12.7 mm, 19 mm तथा 38 mm डाई के साथ	- 1 सेट	
• D.E. सैनर 5 mm से 20 mm - छः का	- 1 set	
• ब्लौ लैम्प, 1 लीटर मिट्टी तेल के साथ	- 1 No.	
• सब्ल, पट्टभुजाकर 1800 mm लम्बा	- 1 No.	
• फावड़ा (Spade)	- 1 No.	
• खोदाई की कुदाली	- 1 No.	
• सीमेन्ट मसाला ट्रे	- 2 Nos.	
• टाँगा 300 mm	- 1 No.	
• मापन टेप 5 m	- 1 No.	
• करछुल	- 2 Nos.	
• संयुक्त प्लायर 200 mm	- 1 No.	
• पाइप रिंच 50mm	- 1 No.	
• हैक्सा 32 T.P.I. ब्लेड के साथ	- 1 No.	
• लकड़ी का बाक्स 150(l) x 150(b) x 300(h) mm - 1 No.		
• सोल्डरिन पात्र (pot) (गलनांक)	- 1 No.	
• Sledge Hammer 2 Kg.	- 1 No.	
औज्ञार/उपकरण		
• भू परीक्षक सम्बद्धन लीडों तथा तीलिया के साथ and spikes - 4 Nos.	- 1 No.	
	• G.I. पाइप 12.7 mm व्यास	- 5m.
	• G.I. मोड़ 12.7 mm व्यास	- 2 Nos.
	• C.I. आवरा कब्जा लगा से C.I. फ्रेम 300 mm वर्ग	- 1 No.
	• G.I. पाइप 19 mm व्यास	- 1 m.
	• G.I. पाइप 38 mm व्यास, 12 mm व्यास छिद्रों के साथ	- 2.5 m
	• अपचायित्र (Reducer) 38 x 19 mm	- 1 No.
	• कीप 19 मिमी व्यास स्लीव तथा तार, जाली सहित	- 1 No.
	• 19mm GI नट के लिए स्लीव तथा तार, जाली सहित	- 1 No.
	• 19 mm व्यास G.I. पाइप के लिए G.I. चैक - नट	- 4 Nos.
	• G.I. वाशर 40 mm, 19 mm छिद्र सहित	- 1 No.
	• G.I तार नं. 8 SWG	- 10 m.
	• तांबा लग 200 ऐम्पियर, 19 mm व्यास छिद्र के साथ	- 1 No.
	• सोल्डर 60/40	- 100gms.
	• माचिस की डिब्बी	- 1 No.
	• सोल्डर लैप	- 10 gms.
	• सीमेन्ट	- 10 kgs.
	• नीले धातु चिप्स 6 mm आमाप	- 40 kgs.
	• नदी की रेत	- 80 kgs.
	• नमक (साधारण)	- 3 बोरे
	• कोक या चारकोल	- 3 बोरे


प्रक्रिया (PROCEDURE)

- 1 G.I. पाइप तथा उपसाधनों को एकत्र करें।
- 2 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार 38 mm व्यास G.I. पाइप में तीव्र किनारा होने के लिए 30° पर एक तिरछा कट बनाये।
- 3 38 mm व्यास G.I. पाइप के दूसरे सिरे में 25 mm की लम्बाई तक सूत्रण बनाये।
- 4 19 mm व्यास G.I. पाइप के दोनों सिरों में सूत्रण बनाये। एक साइड पर 25 मिलीमीटर तथा दूसरी साइड 75 mm तक।

- 5 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार 38 mm तथा 19 mm व्यास के G.I. पाइपों को संविरचन करें।
- 6 भवन आधार से कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर एक भू सम्पर्क गर्त स्थल का चयन करें।

बाड़ा (fence) को सजीव होने की संभावना को रोकने के लिए धातु इलेक्ट्रोड को धातु फैन्स के निकट स्थापित नहीं करना चाहिये। यदि धातु फैन्स उपरिहार्य हो तो, उसे भू सम्पर्कित करना चाहिए।

Fig 1



7 1 मीटर लम्बाई x 1 मीटर चौड़ाई x 3.75 मीटर गहराई माप का भू गर्त खोदें।

यहाँ पर दी गई गहराई, अनुशंसा का न्यूनतम है, फिर भी नम मिट्टी के पहुँचने तक गहराई को बढ़ाया जा सकता है।

8 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार संविचित पाइप को खड़ी स्थिति में रखें तथा पाइप को बॉस की सहायता से स्थिति रखें।

9 पाइप के चारों ओर लकड़ी का बक्सा रखें तथा उसे चारकोल के साथ लगभग 15 से.मी. की ऊँचाई तक भरें, तथा बाक्स के आस पास के बाहरी क्षेत्र को मिट्टी से भरें।

150 mm वर्ग गर्त को खोदना कठिन होता है, इसलिये 1 मीटर वर्ग माप के गर्त को खोदने की सलाह दी जाती है। नमक तथा कोयले के साथ भरे जाने वाला पर्याप्त क्षेत्रफल लगभग **150 mm** वर्ग है, अतः आस पास के अतिरिक्त क्षेत्र को मिट्टी से भरे जिसे पूर्व में बाहर निकाला गया था।

10 लकड़ी के बाक्स को उठाये तथा कोक के परत के ऊपर रखें। पाइप के चारों ओर के क्षेत्र को $150 \times 150 \text{ mm}$ के क्षेत्र तक तथा लगभग 15 cm की ऊँचाई तक नमक से भरें।

आस पास के क्षेत्र को मिट्टी से भरें।

11 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार 2.5 मीटर तक उपरोक्त पद 10 तथा 11 को दोहरायें।

12 E.C.C. सम्बंधन के लिए G.I. पाइप 12.7 mm व्यास को G.I. मोड के साथ उचित स्थिति में रखें।

13 कंक्रीट मिश्रण तैयार करें तथा Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार संरचना को बनायें।

14 G.I. आवरण को भी लगायें।

कंक्रीट संरचना को तराई के लिए कम से कम 1 दिन दें। हर 2 घंटों में पानी डाले (नम बोरिया, कई घंटों तक नमी को बनाये रखती है)

15 12.7 mm व्यास G.I. पाइप में से G.I. तार नं. 8 SWG को निवेश करें।

भू तार का आमाप, आगमी आपूर्ति केवल पर निर्भर करता है।

16 करछुल तथा ब्लो लैम्प का उपयोग करें तथा सोल्डर को पिघलायें।

17 G.I. तार में लग को सोल्डरन करें।

18 19 mm व्यास G.I. पाइप में लग को निविष्ट करें तथा G.I. नट तथा चैक्नट के साथ करें।

19 कीप में से 3 या 4 बाल्टी जल निवेश करें।

भूमि में जल सोखने के लिए एक घंटे का समय दें।

20 भू मैगर से भू इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का परीक्षण करें।

भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को मापते समय भू के साथ, भू अविच्छिन्नता चालक (E.C.C.) को सम्बंधन नहीं करना चाहिए।

21 टेबल 1 के कॉलम 5 में भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध के मान को दर्ज करें। अन्य विवरण भी भरें। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध का स्वीकार्य मान, पूर्व में दिया जा चुका है। मान की जाँच करें।

22 यदि भू प्रतिरोध का मान स्वीकार्य से अधिक पाया जाता है तो, पूर्व से 8 मीटर की दूरी पर एक और पाइप भू इलेक्ट्रोड बनाये तथा दोनों को समांतर में जोड़ें।

23 भू इलेक्ट्रोड के मान को मापें तथा टेबल 1 के कालम 6 में उसे दर्ज करें।

दो इलेक्ट्रोड के साथ दूसरा पाठ्यांक, प्रथम का लगभग आधा होगा, जिसे एक इलेक्ट्रोड के साथ लिया गया था। मापे गये मान को अनुशंसित मान में होना चाहिए।

24 अपने अनुदेशक द्वारा जाँच कराएँ।

टेबल 1

क्र. सं.	दिनांक	जलवायु	भू इलेक्ट्रोड का स्थान	भू प्रतिरोध ओह्म में		टिप्पणी
				एकल	द्वि	
1	2	3	4	5	6	7

— — — — — — —

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - वायरिंग स्थापना एवं अर्थिंग

अभ्यास 2.3.84

प्लेट अर्थिंग तैयार करना एवं अर्थ टेस्टर / मैगर की सहायता से अर्थ प्रतिरोध का मापन करना (Prepare plate earthing and measure earth resistance by earth tester / megger)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- ISI अनुसार प्लेट भू को तैयार करना
- आवश्यकता के अनुसार भू गर्त को खोदना
- तैयार किये भू गर्त में प्लेट को स्थापित करना
- भू परीक्षण करना तथा भू टेस्टर के द्वारा भू प्रतिरोध को मापना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

• G.I डाई स्टाक 12.7mm, 19mm तथा 38mm डाई के साथ	- 1 सेट	• G.I. पाइप 12.7mm व्यास	- 5 m.
• D.E स्पैनर 6mm से 25mm	- 1 सेट	• G.I. पाइप 19mm व्यास	- 1 m.
• ब्लो लैम्प, 1 लीटर मिट्टी तेल के साथ	- 1 No.	• C.I आवरा कब्जा लगा C.I. फ्रेम 300mm वर्ग	- 1 No.
• सब्बल 38mmX1800mm लम्बा	- 1 No.	• कीप 19mm मिमी. व्यास स्लीव तथा तार जाली सहित	- 1 No.
• फावडा 300mm x 150mm	- 1 No.	• 19mm G.I. नट के लिए स्लीव तथा तार जाली सहित	- 2 Nos.
• सीमेन्ट मसाला ट्रे	- 1 No.	• 19mm व्यास G.I पाइप के लिए G.I. चैक - नट	- 2 Nos.
• टॉम्स 300mm	- 1 No.	• G.I वॉशर 40mm, 19mm छिद्र सहित	- 2 No.
• हैक्सा फ्रेम 24 TPI ब्लेड के साथ	- 1 No.	• G.I तार नं. 8 SWG	- 10 m.
• पाइप रिंच 50mm	- 1 No.	• ताँबा लग 200 एम्पियर 19mm व्यास छिद्र के सहित	- 1 m
• सोल्डरन पात्र गलनांक	- 1 No.	• सोल्डर 60x40	- 100gms.
• संयुक्त प्लायर 200mm	- 1 NO.	• सोल्डरिंग लेप	- 10 gms.
• मापन टेप 5mm	- 1 No.	• माचिस की डिब्बी	- 1 No.
• स्लेड्ज हैमर 2 Kg.	- 1 No.	• सीमेन्ट	- 10 kgs.

उपकरण/मशीन

• भू के साथ स्पाइक्स और केनकिंग लीड	- 1 सेट	• नीले धातु चिप्स 6mm आमाप	- 40 kgs.
सामग्री		• नदी की रेत	- 80 kgs.


सामग्री

• G.I. प्लेट 600mmx600mmx63mm	- 1 No.	• नमक साधारण	- 5 kgs
		• कोक या चारकोल	

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : ISI अनुसंशा के अनुसार प्लेट भू को तैयार करना ।

- 1 G.I प्लेट तथा उपसाधनों को एकत्र करें।
- 2 19mm व्यास G.I पाइप में एक किनारे पर 25mm लम्बाई पर निशान (चिह्न) लगायें।
- 3 Fig-1 में दर्शाये गये अनुसार G.I प्लेट 1600X600 वर्ग, 63 mm मोटाई के साथ।
- 4 19mm व्यास का G.I पाइप जो दर्शाया गया है Fig-2 में ।



कार्य 2 : भू गर्त को खोदने में


- भवन आधार से कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर एक भू सम्पर्क गर्त स्थल का चयन करें।

बाड़ा (fence) को सजीव होने की संभावना को रोकने के लिए भू इलेक्ट्रोड को धातु फैन्स के निकट स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि धातु फैन्स उपरिहार्य हो तो उसे भू सम्पर्कित करना चाहिए।

- 1 मीटर लम्बाई x 1 मीटर चौड़ाई x 250 मीटर गहराई माप का भू गर्त खोदें।

यहाँ पर दी गयी गहराई, अनुसंशा की गई उसका न्यूनतम है, फिर भी नम मिट्टी के पहुचने तक गहराई को बढ़ाया जा सकता है।

- G.I पाइप 12.7mm व्यास को G.I मोड के साथ उचित स्थिति में रखें G.I आवरण को भी लगायें। G.I तार में लग को सोल्डरन करें और G.I प्लेट के साथ ही नट और बोल्ट को लगायें। जैसा (Fig-2) में दर्शाया है।



कार्य 3 : तैयार किये हुए प्लेट भू गर्त में स्थापित करना

- 19mm G.I व्यास की प्लेट को खड़ी स्थिति में रखे (Fig-2) और पाइप को बॉस की सहायता से स्थिति में रखें।
- प्लेट के चारों ओर लकड़ी का बक्सा रखे तथा उसे चारकोल के साथ लगभग 15 cm की ऊँचाई तक भरें, तथा बाक्स के आस पास के बाहरी क्षेत्र को मिट्टी से भरें।

150mm वर्ग गर्त को खोदना कठिन होता है, इसलिए 1 मीटर वर्ग माप के गर्त को खोदने की सलाह दी जाती है। नमक तथा चारकोल के साथ भरे जाने वाला पर्याप्त क्षेत्रफल 150mm वर्ग है, अतः आस पास के अतिरिक्त क्षेत्र को मिट्टी से भरें जिसे पहले बाहर निकाला गया था।

- लकड़ी के बाक्स को उठायें तथा कोक के परत के ऊपर रखें। पाइप के चारों ओर के क्षेत्र को 150 x 150mm के क्षेत्र तक लगभग 15c.m की ऊँचाई तक नमक से भरें।

आस पास के क्षेत्र को मिट्टी से भरें।

- कंक्रीट मिश्रण तैयार करें तथा Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार संरचना को बनाये।
- G.I आवरण के साथ प्लेट को लगायें।

कंक्रीट संरचना की तराई के लिए कम से कम 1 दिन दें। हर 2 घंटों में पानी डालें (नम बारियां, कई घंटों तक नमी बनायें रखती हैं)

- तीन या चार कीप में से या बाल्टी जल निवेश करें।

भूमि में जल सोखने के लिए 1 दिनघंटे का समय दें।

कार्य 4 : भू परीक्षण करना तथा भू टेस्टर के द्वारा भू प्रतिरोध को मापना

- 1 भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध के साथ ही भू टेस्टर का परीक्षण करना।
- 2 भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को दर्ज करें।
- 3 भू इलेक्ट्रोड के मान को मापे तथा उसे दर्ज करें।

यदि भू प्रतिरोध का मान स्वीकार से अधिक पाया जाता है तो, पूर्व से 8 मीटर की दूरी तक एक और पाइप भू इलेक्ट्रोड बनाये तथा दोनों को समान्तर में जोड़ें।

दो इलेक्ट्रोड के साथ दूसरा पाठ्यांक, प्रथम का लगभग आधा का होगा, जिसे एक इलेक्ट्रोड के साथ लिया गया था। मापे गये मान को अनुंसित मान में होना चाहिए। यदि न हो तो, दूसरे इलेक्ट्रोड से 8 मीटर की दूरी पर एक अन्य इलेक्ट्रोड बनाना होगा।

— — — — —

रिले और ELCB के द्वारा अर्थ लीकेज का परीक्षण करना (Test earth leakage by ELCB and relay)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- ELCB के टर्मिनलों की पहचान करना
- ELCB को बिजली परिपथ में जोड़ना और उसका कार्य टेस्ट करना
- क्षरण धारा मापना जिस पर ELCB विमोचित है ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र	सामग्री
• कर्तन प्लास 150 mm	- 1 No.
• पेचकश 150 mm	- 1 No.
• इलेक्ट्रीशियन चाकू 100 mm	- 1 No.
• तार स्ट्रिपर 150 mm	- 1 No.
• एमीटर MI (0 - 10A)	- 1 No.
• एमीटर MI (0 - 100mA)	- 1 No.
• फिलिप्स स्टार स्कू ड्राइवर 100 mm	- 1 No.
उपकरण	
• ELCB 240V, 25A, 2 पोल के साथ ट्रिपिंग लिकेज करंट 30mA	- 1 No.
• MCB 240V, 10A, 2 पोल	- 1 No.


प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : ELCB के टर्मिनलों की पहचान करना

1 अपने अनुदेशक से ईएलसीबी प्राप्त करें और उस पर दिए विनिर्देश देखें।

Fig 1 में विए यूनिटों पर अंकनों को देखते हुए सप्लाई टर्मिनलों (Supply Terminals) और लोड टर्मिनलों की पहचान करें।

Fig 1



कार्य 2 : ELCB को योजित करना और प्रचालन टेस्ट करना

- परिपथ आरेख (Fig. 2) में दिखाए अनुसार परिपथ वायर-अप करें।
- MCB और ELCB का आन स्थिति पर रखते हुए मेन सप्लाई चालू करें।

- 3 स्विच S1 बन्द करें और जल रियोस्टैट प्रचालित करें जब तक कि एमीटर 'A' पर लगभग 5A धारा न पढ़ी जाए।


चर प्रतिरोध को क्रिया-आरंभ स्थिति में रखें ।

- 4 टेस्ट स्विच दबाएं और चर प्रतिरोध परिवर्तित करें और क्षरण धारा नोट करें और रेकार्ड में दर्ज करें ।

- 5 रेकार्ड करें क्षरण धारा को ELCB ट्रिपऑफ होने पर

- 6 बाहरी टेस्ट स्विच खोलें और ELCB रीसेट करें।

- 7 'टेस्ट बटन' प्रचालित करके 'विमोचन फलन' के लिए ELCB की जाँच करें। बटन दबाते ही ELCB विमोचित हो जाना चाहिए।



प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बत्तियों के लिए परावर्तकों सहित लाईट-फिटिंग लगाना (Install light fitting with reflectors for direct and indirect lightings)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- कार्य स्थिति के अनुसार एक दिये गये कमरे के लिए लाईट परावर्तकों की अभिकल्पना करना
- लाईट परावर्तकों की स्थापना व प्रभाव की जाँच करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र

- कटिंग प्लायर 200mm
- पेचकस 150mm
- विद्युत ड्रिल मशीन 6 mm क्षमता की
Capacity with drill bit - 5 mm


सामग्री

- | | | |
|---------|---|-----------------|
| - 1 No. | तापदीप्ति लैंप 100W 240V उसी डिजायन
के लैंप शेडों सहित | - 2 No. |
| - 1 No. | परावर्तक लैम्प 100W 240V | - 2 No. |
| - 1 No. | रजित चप्पक लैम्प 100W 240V | - 2 No. |
| | तार सामग्री | - आवश्यकतानुसार |

प्रक्रिया (PROCEDURE)

- स्थल तथा कार्यकर स्थिति की पहचान करें ।
- दो सीलिंग रोज या निकट समीयता पर लगाने के लिए संभव करें ।
- परिपथ के अनुसार तार स्थापन करें ।
- श्रेणी परीक्षण बोर्ड के साथ तार स्थापन की जाँच करें ।
- उपयुक्त डोरियों के साथ एक लैंप रोड मुँह निचे तथा एक लैंप रोड मुँह ऊपर लगाए जैसा (Fig 1) में दर्शाया गया है ।
- दोनों रोडों में एक ही प्रकार के (तापदीप्ति) बल्ब लगाए ।
- मेज पर लैंप रोडों के ठीक नीचे कुछ प्रदर्शन वस्तुएँ रखें ।
- सप्लाई देतथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बत्तियों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को एक एक करके जाँच करें ।
- स्थल के प्रदीप्ति की जाँच करें, किं क्या दोनों स्थितियों में पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध हैं ।
- रोडों में उसी बाट तथा उसी (जैसे परावर्तक) प्रकार के बल्ब बदलें तथा चरण 8 और 9 को दोहराएँ ।
- प्रदर्शित व्यापारिक सामग्री की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की उपयुक्तता तथा प्रदीप्ति स्तर पर आधारित निष्कर्ष को लिखें ।

Fig 1



ELN2486H1

निष्कर्ष :

विभिन्न वोल्टेज लैंपों को एक विशेष वोल्टेज के लिए समूह करना (Group different wattage lamps in series for specified voltage)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- दिये गये लैम्प पर मुद्रित आंकड़े को पढ़ना तथा व्याख्या करना
- आपूर्ति से श्रेणी में असमान वोल्टेज के लैंप के सम्बंधन के समय लैंप के आरपार वोल्टता पतन को मापना
- श्रेणी में असमान वोल्टेज के लैंपों के प्रदीप्ति के व्यवहार / स्थिति के लिए कारणों को बताना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र

- बहुमापी
- वोल्टमापी MC 0-15V
- अमीटर MC 0-500 mA

सामग्री

- बल्ब स्क्रू (पेंच) कैप - 6V 100 mA - 10 Nos.
- बल्ब पेंच कैप - 6V 150 mA - 6 Nos.
- बल्ब स्क्रू (पेंच) कैप - 6V 300 mA - 4 Nos.
- बल्ब धारक - 20 Nos.
- सम्बंधन लीड - आवश्यकतानुसार
- नाइफ कुंजी DPST 16A - 1 No.


उपकरण/मशीन

- DC परिवर्ती स्रोत 0-24 वोल्ट, 5 एम्पियर निर्गत धारा तथा वोल्टता संकेतक के साथ - 1 No.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

TASK 1 : 18 वोल्ट आपूर्ति के आरपार श्रेणी में 6 वोल्ट के 3 लैंप (असमान वोल्टेज)

- 1 Fig 1a में दर्शाये गये अनुसार परिवर्ती वोल्टता DC आपूर्ति स्रोत से श्रेणी में अमीटर A के साथ तीन लैंपों को जोड़े।




DC स्रोत के निर्गत को न्यूनतम पर रखें, माने कि 0 वोल्ट।

- 2 L_1 के आरपार एक MC वोल्टमापी (0-15) को जोड़े (अर्थात् कम धारा निर्धारण कम / कम वोल्टता के बल्ब)। कुंजी S को बंद करें।
- 3 अमीटर वोल्टमापी तथा लैंप L_1 को देखते हुए आपूर्ति वोल्टता को 0 वोल्ट से क्रमिक रूप से बढ़ायें।
- 4 वोल्टता को 18 वोल्ट तक बढ़ायें। अपने प्रेक्षण को अभिलेखित करें।

- 5 क्या लैंप L_1 फ्यूज होता है? यदि हाँ तो फ्यूज होने के ठीक पूर्व प्रेक्षण को कथन करते हुए, अपना कारण दें।

- 6 कुंजी S को खोले तथा आपूर्ति वोल्टता को 0V पर पुनः सेट करें। बल्ब L_1 को प्रतिस्थापित करें।

- 7 प्रत्येक बल्ब के आरपार जुड़े 0-15 वोल्ट के 3 वोल्टमापियों के साथ परिपथ 1 (b) को बनायें।



- 8 कुंजी S को बंद करें तथा आपूर्ति वोल्टता को तब तक बढ़ायें जब तक कि धारा 100 mA तक न पहुँच जाए (अर्थात् श्रेणी परिपथ में कम वोल्टता के बल्ब की निर्धारण धारा)।

- 9 वोल्टता V_1 , V_2 तथा V_3 को पढ़ें तथा अभिलेखित करें।

टेबल 1

आपूर्ति वोल्टेज	V_1	V_2	V_3


- 10 आपूर्ति वोल्टता के असमान वितरण के लिए अपना कारण दें।

11 Fig 2 में दर्शाये गये परिपथ में प्रत्येक लैंप L_1 , L_2 तथा L_3 को स्वतंत्रता पूर्वक जोड़े, तथा धारा तथा वोल्टता के मान का अभिलेखित करें, जब आपूर्ति वोल्टता 6V है।

टेबल 2

परिपथ में लैम्प	आपूर्ति वोल्टता	V	I	V/I
L_1 6 V 100 mA	6 V			
L_2 6 V 150 mA	6 V			
L_3 6 V 300 mA	6 V			


Fig 2



कार्य - 2 : कार्य 1 के जैसे समांतर, कम वोल्टेज वाले L_1 दो लैंपों को जोड़ना।


1 आरेख के अनुसार परिपथ को बनायें। (Fig 3)

Fig 3



2 आपूर्ति वोल्टता को शून्य से उस मान तक बढ़ाते हुए जिसके कारण कम वोल्टता लैंप L_1 के आरपार 6 वोल्ट हो, के प्रभाव का प्रेक्षण करें।

Fig 4



निष्कर्ष

श्रेणी में जुड़े प्रत्येक लैंपों के आरपार वोल्टता इसलिए परिवर्तित होती है क्योंकि _____

लैंप पर वोल्टता तथा धारा के मुद्रित मान का अर्थ है कि जब निर्दिष्ट _____ को जब प्रयुक्त करते हैं तो उसके कारण _____ प्रवाह होगा।

लैंप का प्रतिरोध, लैंप के विभिन्न _____ के कारण परिवर्तित होता है।

3 क्या लैंप L_1 फ्लूज होता है? यदि हाँ तो, L_1 के फ्लूज होने के ठीक समय पर बनाये गये प्रेक्षण को कथन करते हुए ¹ ² अपना कारण दें।

4 कुंजी S को खोले, तीन वोल्ट मापियों को Fig 4 में दर्शाये गय अनुसार जोड़े।

5 लैंप L_1 को प्रतिस्थापित करें तथा DC स्रोत को OV पर पुनः सेट करें। कुंजी ¹ S को बंद करें। परिपथ में 150 mA की धारा प्रवाह होने तक आपूर्ति वोल्टता को बढ़ाये।

6 वोल्ट V_1 , V_2 तथा V_3 को पढ़े तथा अभिलेखित करें।

टेबल 3


आपूर्ति वोल्टेज	V_1	V_2	V_3
_____	_____	_____	_____

निष्कर्ष

वोल्ट V_2 , V_1 से अधिक है। $V_2 > V_1$ क्योंकि _____

कार्य 3 : कार्य 1 के जैसे समांतर में दो L_2 (लैंपों) को जोड़ें।

1 Fig 5 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनाये।



2 कुंजी S को बंद करने के पश्चात् आपूर्ति वोल्टता को 18 V तक क्रमिक रूप से बढ़ाये। वोल्टता V_1 , धारा तथा लैंप L_1 के प्रवीपन को प्रेक्षण करें।

3 क्या लैंप L_1 पुनः फ्यूज होता है? फ्यूज होने के समय क्या स्थितियाँ हैं।

_____ V_1
_____ DC आपूर्ति वोल्टेज
_____ धारा

4 क्या कार्य 1 से तुलना करने पर मानों में कोई अन्तर है? अपनी प्रतिक्रिया दें।

5 कुंजी S को खोले। फ्यूज लैंप L_1 को प्रतिस्थापित करें। आपूर्ति वोल्टेज को 0V पर पुनः सेट करें। कुंजी S को बन्द करें तथा धारा को परिपथ के द्वारा 100 mA तक बढ़ाये। वोल्टता V_1 , V_2 तथा V_3 को अभिलेखित करें।


टेबल 4

आपूर्ति वोल्टेज	V_1	V_2	V_3
_____	_____	_____	_____

निष्कर्ष

कार्य 4 : कार्य 1 के जैसे समांतर में एक लैंप L_3 दो L_2 के साथ, श्रेणी में पूर्ण तथा समांतर में जुड़े तीन L_1 लैंपों के साथ जोड़ना।

1 Fig 6 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनाये।



2 कुंजी S को बंद करें। आपूर्ति वोल्टता को क्रमिक रूप से 18 V तक बढ़ाये। लैंप, अमीटर को देखे तथा लैंप समूह L_1 , लैंप समूह L_2 तथा L_3 के आरपार वोल्टता को मापें।

3 अब सभी लैंप अपने समान चमक (दीप्ति) के साथ प्रदीप्त होते हैं। कोई बल्ब फ्यूज नहीं होता है। क्यों?

निष्कर्ष

लैंपों के क्रमिक सेट में, फ्यूज लैंप को प्रतिस्थापित करते समय लैम्प वोल्टता तथा _____ या _____ को भी _____ होना चाहिए।

समान वोल्टता तथा वाटता के लैम्प की अउपलब्ध की स्थिति में, प्रतिस्थापन _____ होना चाहिए।

विभिन्न प्रकार के बल्बों की स्थापना/वायरिंग का अभ्यास करना जैसे - प्रदीप्ति बल्ब, उच्च दबाव मर्करी वेपर, निम्न दबाव मर्करी वेपर, उच्च दबाव सोडियम वेपर, निम्न दबाव सोडियम वेपर, मेटल हैलाईड, बल्ब इत्यादि (Practice installation of various lamps eg. fluorescent tube, HP mercury vapour, LP mercury vapour, HP Sodium vapour, LP Sodium vapour, Metal halide etc.)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- फ्लोरोसेन्ट ट्यूब का उसकी सहायक सामग्री के साथ कनेक्शन स्थापन एवं जाँच करना
- त्वरित प्रारंभ होनेवाली फ्लोरोसेन्ट लैम्प का त्वरित स्टार्ट करने वाली चोक के साथ जोड़ना
- त्वरित/शीघ्र प्रारंभ होनेवाले फ्लोरोसेन्ट लैम्प को उसकी सहायक सामग्रियों के साथ कनेक्शन/फिट करना
- H.P.M.V लैम्प को जोड़ना, स्टार्ट करना तथा जाँच करना
- H.P.S.V बल्ब को उनके सहायक सामग्रियों के साथ कनेक्शन स्टार्ट करना एवं जाँच करना
- L.P.S.V लैम्प को जोड़ना, स्टार्ट करना तथा जाँच करना
- मेटल हैलाईड लैम्प को उनके सहायक सामग्री के साथ जोड़ना स्टार्ट करना एवं जाँच करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र

- इंसुलेटेड कॉम्पीनेशन प्लायर - 150 mm
- इंसुलेटेड स्कू ड्राईवर - 200 mm x 4mm
- इंसुलेटेड कनेक्टर स्कू ड्राईवर - 100 mm
- लांग नोज़ प्लायर (राउण्ड) - 150 mm
- डबल ब्लॉड इलेक्ट्रिशियन चाकू 100 mm
- परीक्षण बल्ब 100 W, 250 V

सामग्री

- प्रदीप्ति लैम्प 1200 mm - सिंगल पट्टी सहित
- चोक 40w, 250v

- ट्यूब लाईट स्टार्टर - 40W,250V

- 1 No.

- ट्यूब लाईट होल्डर प्लेन

- 2 Nos.

- स्टार्टर का होल्डर

- 2 Nos.

- MV लैम्प होल्डर 240W हेतू, 250 V लैम्प

- 2 Nos.

(गोलियथ स्कू प्रकार)

- 1 No.

सिंगल पट्टी

- 1 No.

- MV लैम्प चोक - 240watts, 250v

- 1 No.

संधारित्र 4 MFD / 380v

- 1 No.

- L.P.M.V बल्ब 40 W, 250 V

- 1 No.

- MV बल्ब 240W, 250V

- 1 No.

प्रक्रिया (PROCEDURE)


कार्य - 1 : फ्लोरोसेन्ट लैंप (LPMV) को उसकी सहायक सामग्रियों के साथ संयोजित करना

1 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार परीक्षण लैंप के साथ चोक को उनके लघुपथित तथा खुले के लिए जाँच करें तथा परिणामों को अभिलेखित करें।

यहाँ पर टिक (✓) के चिन्हांकन से परिणाम को सेकेत करें।

लैंप दीप्ति की स्थिति	चोक की स्थिति
a सामान्य दीप्ति	आंतरिक लघुपथित
b मंद	अच्छी कार्यान्वयन की स्थिति
c सम्बंधन तथा लीड की जाँच करने के पश्चात भी दीप्ति नहीं	चोक में खुला परिपथ

Fig 1



TEST CIRCUIT


संभव परिणाम

चोक का परीक्षण

EN2488-H1

2 Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार श्रेणी परीक्षण लैंप से प्रवर्तक की जाँच करें। लैंप टिमटिमाहट को देखें, जो प्रवर्तन की अच्छी स्थिति को संकेत करता है।


Fig 2



3 आधार की फिटिंग में निम्नलिखित प्रतिदीप्ति नलिका उपसाधनों को समुच्चय करें। आरेख को देखें। (Fig 3)


- 1) नलिका के लिए धारक
- 2) प्रवर्तक-धारक
- 3) चोक

Fig 3




4 Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार उपसाधनों को जोड़ें। (एकल नलिका प्रकाश)
परीक्षण किये गये प्रवर्तक को भी अधिष्ठापित करें।

Fig 4



5 Fig 5 में दर्शाये गये अनुसार प्रतिदीप्ति नलिका के दोनों साइडों पर तंतु को उनकी अविच्छिन्नता के लिए परीक्षण करें। किसी भी साइड में खुला या फ्यूज तंतु की प्रतिदीप्ति नलिका को अलग करें।

Fig 5



कार्य 2 : ट्यूबलाईट की फिटिंग का अधिष्ठापन।

1 तार स्थापन के प्रकार पर निर्भर करते हुए अनुशासित विधि तथा प्रक्रिया को अनुपालित करें।


6 बल्ब को धारक में स्थिर करें।

पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि धारक के आन्तरिक भाग में खांचा, को उचित स्थिति पर घुमाया गया है।

7 फिर नलिका के दोनों साइड पर फिटिंग के धारक में दोनों सिरों (पिनों) को निवेश करें।

एक सिरे को Fig 6 में दर्शाया गया है। साकेट पिनों को फिटिंग में सभी तरह से धकेले जब तक कि आप, यह आभास न करने लगे कि आप, साकेट में नलिका को घुमा सकते हैं।

Fig 6



8 नलिका को दोनों सिरों पर किसी एक दिशा में एक चौथाई चक्कर घुमायें। जब आप यह आभास करें कि पिन, स्थिति में चले गये हैं तब रुक जाएं।

ध्यान रखें कि नलिका के किसी भी सिरे पर पिन न मुड़ें।

9 प्रतिदीप्ति समुच्चय का उसके कार्यान्वयन के लिए परीक्षण करें।

दीवार, छत या नलिका को स्तंभ पर ट्यूब को स्थित करने का कार्य, फिटिंग के भार को टेकने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए।

परछाई के टिमटिमाहट प्रभाव को रोकने के लिए अधिक्षिपित फिटिंग को सिलिंग पंखे के तल के नीचे होना चाहिए।


2 प्रतिदीनि फिटिंग को सीलिंग रोज से जोड़ें।

सीलिंग रोज पर आपूर्ति की जाँच करें। कोई भी सम्बंधन करने के पूर्व आपूर्ति को ऑफ करें।

कार्य 3 : तात्कालिक प्रवर्तन लैंप जोड़ना व परीक्षण करने में

- 1 तात्कालिक प्रवर्तन प्रतिदीनि नलिका के लिए उपसाधनों को पहचानें।
- 2 उपसाधनों को समुच्चय करें तथा (Fig 7) में परिपथ के अनुसार जोड़ें।

Fig 7



ELN248817


बैलस को विद्युत रोधन के लिए तथा टर्मिनलों की पुष्टि के लिए परीक्षण करें।

3 मुख्य सप्लाई को ऑन करें तथा नलिका को देखें।

कार्य 4 : शीघ्र प्रवर्तन लैंप

- 1 शीघ्र प्रवर्तन प्रतिदीनि लैंप के लिए प्रकार्य 1 के पद 1 से 3 को दोहराए। (Fig 9)

Fig 9



ELN248819


3 प्रतिदीनि लैम्प को फिटिंग में स्थिर करें।

जब आप सीढ़ी पर कार्य कर रहे हो तो एक स्थिर सीढ़ी का उपयोग करें तथा सहायक द्वारा सीढ़ी को पकड़े रहना चाहिए।

- 4 आपूर्ति को ऑन करें तथा नलिका की दीप्ति को देखें। यदि नलिका, दीप्ति न हो रही हो तो नलिका तथा प्रवर्तक के उचित आवासन के लिए जाँच करें।

- 4 तात्कालिक प्रवर्तन नलिका प्रकारा परिपथ के समानान्तर में एकल प्रतिदीनि नलिका को पूर्वतक के साथ जोड़ें। (Fig 8)

Fig 8




ELN248818

- 5 सप्लाई को 'आन' करें तथा दोनों नलिकाओं के आरंभन को देखें। इसे पर्याप्त बार दोहराए।

- 6 किसी भी प्रकाश नलिका के निष्पादन पर अपने प्रेक्षण को लिखें।

- 2 शीघ्र प्रवर्तन मलिका परिपथ के साथ समानान्तर में ताप क्षणिक प्रवर्तन प्रतिदीनि नलिका परिपथ को जोड़ें। (Fig 10)

Fig 10




ELN24881A


- 3 सप्लाई को ऑन करें तथा दोनों नलिकाओं के आरंभन को देखें।
- 4 दोनों नलिकाओं के निष्पादन पर अपने प्रेक्षण को अभिलेखित करें।

कार्य 5 : H.P.M.V (उच्च दबाव मर्करी लैंप) लैंप को उनके सहायक सामग्रियों सहित लगाना और परीक्षण करना

- 1 पारा वाष्प लैंप तथा चोक के विविरण को चिन्हांकनों से पढ़े। (Fig 11)



- 2 H.P.M.V. लैंप को 60 W 230 V बल्ब के साथ श्रेणी में जोड़े तथा 230V AC आपूर्ति में परीक्षण करें। यह जॉच करें कि क्या श्रेणी परीक्षण लैंप प्रदीपन होता है।
- 3 चोक को उसकी कार्यान्वयन स्थिति के लिए परीक्षण करें।
- 4 निर्माता के विविरण का अनुपालन करते हुए, फिटिंग में उपसाधनों (चोक, धारक तथा सुधारित्र) को समुच्चय करें।
- 5 अनुशंसित प्रकार के अन्तक का प्रयोग करते हुए, परिपथ आरेख Fig 12 के अनुसार उपसाधनों को जोड़े। (चित्रीय आरेख Fig 13)




निर्धारण आपूर्ति प्रणाली की वोल्टता के अनुरूप चोक के टेपिंग का चयन करें।

- 6 बल्ब को धारक में लगाये तथा लैंप के कार्यान्वयन को आपूर्ति वोल्टता के साथ परीक्षण करें।

यह सुनिश्चित करें कि परीक्षण के पूर्व, उपलब्ध कराये गये, भू सम्पर्क टर्मिनल पर फिटिंग, उचित रूप से भू संपर्कित हो।

Fig 13



ELN2488HD

- 7 ऊपर वर्णन किये गये अनुसार अन्तः निर्मित प्रतिरोधक के साथ आधुनिक MV लैंप में जोड़ने के लिए कोई बाहरी उपसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। उसे हम उद्दीप्ति लैंप की तरह ही जोड़ सकते हैं।

MV लैंप फिटिंग का अधिष्ठापन

- 8 MV लैंप फिटिंग को उसके कार्यान्वयन के लिए मेज पर समुच्चय करें। जोड़े तथा परीक्षण करें। फिर बल्ब तथा आवरण को हटायें।

यथास्थान आरेहित करें

- 9 अधिष्ठापन पुस्तिका में निर्माता द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा अनुशंसित विधि का प्रेक्षण करें।

निर्माता द्वारा अनुशंसित विविरण को परिवर्तन न करें क्योंकि उसे, फिटिंग के भार को टेकने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए।

- 10 MV लैंप फिटिंग को आपूर्ति से जोड़े। विधि, तार स्थापन की पद्धति, फिटिंग के स्थान इत्यादि पर निर्भर करती है।

सम्बन्धन करने के पूर्व, यह सुनिश्चित करें कि आपूर्ति लाइन सजीव (live) नहीं है।

- 11 बल्ब को धारक में मजबूती से स्थिर करें तथा आवरण को पुनः लगायें।

- 12 आपूर्ति को ऑन करें तथा उच्च दबाव पारा वाष्प लैंप को उसके पूर्ण चमक के साथ प्रदीपन होने तक प्रतीक्षा करें। फिर आपूर्ति बंद करें।


कार्य 6 : हाई प्रेशर सोडियम लैम्प (H.P.S.V.) और LPSV लैम्प का सहसाधनों के साथ परिस्थापन और परीक्षण करना ।

- क्षरण ट्रांसफार्मर, चोक तथा बल्ब पर चिन्हकंनों से विनिर्देश को पढ़ें।
- ट्रांसफार्मर तथा चोक को परीक्षण लैंप से लघुपथित खुले के लिए जाँच करें।
- फिटिंग में उपसाधनों (चोक, क्षरण ट्रांसफार्मर तथा लैंप धारक) को समुच्चय करें।

निर्माता के अनुदेशों को कड़ाई से पालन करें।

- Fig 14 में दर्शाये गये आरेख के अनुसार सम्बंधन करें।

Fig 14



HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMP

केवल अनुशंसित प्रकार के अन्तक का ही उपयोग करें।


- आपर्ति वोल्टता के अनुरूप, उपयुक्त वोल्टता टैपिंग का चयन करें। (Fig 14)
- बल्ब को धारक में लगाये।

यह सुनिश्चित करें कि फिटिंग, उचित रूप से भू संपर्कित है।

- समुच्चय फिटिंग को मुख्य से जोड़ते हुए उसके कार्यान्वन का परीक्षण करें।
- बल्ब के पूर्ण प्रदीप्ति देने के लिए, लिए गये समय को नोट करें।
- उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप के लिए उपरोक्त पदों को दोहरायें।

Fig 15 में दर्शाये गये आरेख के अनुसार जोड़ें।

Fig 15




ELN2488-HF

कार्य 7 : हाई प्रेशर मैडल हालिडे लैम्प का परीक्षण करना

- Fig 16 में दिए हालिडे लैम्प की स्पेसिफिकेशन को पढ़ें। जरूरी सामग्री को इकट्ठा करें।

Fig 16



करें कि सीरीज टेस्ट लैम्प जला या नहीं। यदि टेस्ट लैम्प जल जाता है तो इसका मतलब है कि HPMH लैम्प अच्छी स्थिति में है।

- सर्किट डायाग्राम के अनुसार कनेक्ट करें तथा 240V सप्लाई के साथ टेस्ट करें।
- करंट को मापना और 240V के साथ टेस्ट करना।
- करंट और वोल्टेज को मापें। पावर की गणना करें तथा इसे रेटिड मान के साथ सत्यापित करें।

वोल्टेज : _____ वोल्ट

करंट : _____ एम्पीयर

पावर : _____ वाट

- HPMH लैम्प को Fig 16 में दिखाए अनुसार इनकैन्डेसेंट लैम्प 60W, 250V की सीरीज में जोड़ें और 240V AC सप्लाई के साथ जोड़ें चैक

ड्रम कुंजियों के उपयोग से सजावटी लैंप परिपथों को तैयार करना (Prepare decorative lamp circuits using drum switches)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- सजावटी प्रदीप्ति के लिए ड्रम कुंजियों का उपयोग करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- इलेक्ट्रीशियन का चाकू 100 mm
- 150 mm कटिंग प्लायर
- भारी कार्य पेंचकस 200mm
- सम्बंधन पेंचकस 100 mm
- हथौड़े (बालपेन) $\frac{1}{2}$ kg

उपकरण/मशीन

- फ्रेक्शनल HP मोटर कपलड
- ड्रम स्वीच के साथ


सामग्री

- | | | |
|---------|------------------------------|-----------|
| - 1 No. | • T.W. बोर्ड 600 x 1200 x 25 | - 1 No. |
| - 1 No. | • बैटन-धारक 250V/6A | - 25 Nos |
| - 1 No. | • B.C. लैंप 40W /25V | - 25 Nos |
| - 1 No. | • ट्यूब लाइड होल्डर प्लेन | - 2 Nos. |
| - 1 No. | • PVCA 1/18 P.V.C. तांबा तार | - 25 Mtr. |
| - 1 No. | • PVCA 3/20 P.V.C. तांबा तार | - 25 Mtr. |
| - 1 No. | • I.C.D.P 250V / 16A | - 1 No. |

- 1 सेट

- 1 60cm x 120cm बोर्ड पर Fig 1 के अनुसार I.T.I. अक्षर के लिए बल्बों के विन्यास को अंकित करें।

Fig 1




- 2 केवल प्रवेश करने के लिए आर-पार छिद्रों के चिन्हांकित के पश्चात् बोर्ड पर लैंप धारकों (बैटन) को स्थिर करें।
- 3 उदासीन से सम्बंधन करने के लिए केवल के साथ प्रत्येक लैंप धारक के एक टर्मिनल को लूप (पाश) करें तथा केवल को पृथक्कारी कुंजी तक खींचें।

- 4 ड्रम कुंजी से सम्बंधन के लिए उचित लम्बाई (आंकित) के लैंप धारक के अन्य शेष टर्मिनल से अलग-अलग केबल्स को जोड़ें।

- 5 Fig 2 में दर्शाये अनुसार फिंगर स्ट्रीप के सिक्वेंस से प्रत्येक लैम्प में फेज संयोजित करें।

- 6 शॉफ्ट पर चलित मोटर की पुल्ली चालक मोटर पर आवश्यक तनाव को ध्यान में रखकर चढ़ाएँ। उचित स्टार्टिंग गीयर से मोटर को संयोजित कर मोटर को स्टार्ट करें। उसके पश्चात ड्रम स्वीच के सहज कार्यप्रणाली की जाँच करें। (Fig 2)

Fig 2



घूर्णन प्रकाश / चाल प्रकाश के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए एक सजावटी लैंप परिपथ तैयार करना (Prepare a decorative lamp circuit to produce rotating light effect/ running light effect)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- प्रकाश सजावट के लिए लैंप / अनुक्रमीय नियंत्रण का चयन करना
- चाल प्रकाश के लिए प्रकाशीय विन्यास को डिजाइन करना
- घूर्णन प्रकाश के लिए विन्यास को डिजाइन करना
- 3- बिन्दु चाल प्रकाश के लिए मोटर को जोड़ना। (अनुक्रमिक नियंत्रण मोटर)
- लैंप परिपथों को इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रमिक नियंत्रण में जोड़ना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

आवश्यकताएँ	सामग्री
• बहुमापी	- 1 No. • केम्स - 3 Nos.
उपकरण/मशीन	
• एकल कला मोटर FHP, न्यूनकारी गियर के साथ	- 1 No. • ब्रश्स - 3 Nos.
• 240V चलित, आऊट पुट लोड 5 से 10 A गति और प्रबलता नियंत्रण के साथ	- 2 Nos. • सम्बंधन लीड नम्बर - आवश्यकतानुसार
	• केम चालित व्यवस्था शॉफ्ट के साथ - 1 No.
	• लैम्पों 240V, 15W, BC - 54 Nos.
	• बैटन लैम्प होल्डर 6A, 250 V - 54 Nos.
	• DPST नाइफ कुंजी 16A 250V - 2 Nos.
	• इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रमिक नियंत्रण - 1 No.


प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : घूर्णन प्रकाश प्रभाव तैयार करना

- 1 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार लैम्पों, कुंजियों तथा फ्लैशर मोटर को जोड़े।
- 2 D.P.S.T. कुंजियों S_1 तथा S_2 को खुला रखे।
- 3 D.P.S.T. कुंजी S_1 को बन्द करें तथा फ्लैशर मोटर को चालू करें। (अनुक्रमिक प्रकाश नियंत्रक)
- 4 D.P.S.T. कुंजी S_1 को बंद करें तथा संपर्क तथा विच्छेद संपर्क 1, 2, 3 तथा 3 लैंप बैंकों के 'ON' 'OFF' प्रचालनों का प्रेक्षण करें।

सजीव तारों का स्पर्श न करें।


- 6 D.P.S.T. कुंजी S_1 तथा S_2 को खोले।



कार्य 2 : घूर्णन प्रभाव प्रकाश तैयार करना।

- 1 Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार प्रकाशीय डिजाइन को तैयार करें।
- 2 D.P.S.T. कुंजी S_1 को बंद करें तथा प्रकाश का प्रेक्षण करें।
- 3 गति नियंत्रक को प्रचालित करते हुए प्रचालन की गति को बढ़ाये।
- 4 विद्युतीय अनुक्रमिक नियंत्रक पर नाव को समायोजित करते हुए प्रकाश की तीव्रता को समायोजित करें।
- 5 प्रकाशीय प्रणाली को गति तथा तीव्रता को कम करें।
- 6 D.P.S.T. कुंजी S_1 को खोलें।

Fig 2



ELN2490H2

शोकेस बत्तियों के लिए लाईट-फिटिंग स्थापित करना (Install light fitting for show case lighting)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- टाई रैक के लिए खिड़की लाईटिंग तार स्थापित करना
- वस्त्र प्रदर्शन के लिए शो केस खिड़की में प्रकाश के लिए वायर स्थापित करना ।


आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्जार/मापीयंत्र	सामग्री
• रोधन कटिंग प्लायर 150 mm	- 1 No.
• 5 पेचकस का सेट	- 1 Set
• लाईन परीक्षक 500V	- 1 No.
• विद्युत हस्त ड्रिलिंग मशीन 6 mm क्षमता	- 1 No.
	• सरक्लाईन दीप्ति तलिका पूर्ण सेट 30 cm 32 watts 240V 50 Hz उपयुक्त शेड तथा स्टैड सहित - 1 No.
	• 1200 mm प्रति दीप्ति लैप, फिटिंग का पूर्ण सेट 40 watts 240V 50 Hz - 4 Nos.
	• तार स्थापन सामग्री - आवश्यकतानुसार

प्रक्रिया (PROCEDURE)**कार्य 1 : टाई रैक के लिए खिड़की लाईटिंग तार स्थापन करें**

- 1 अंतर को (स्पेयरस) के साथ खिड़की के आधार में उपयुक्त साइज को प्लाई बोर्ड में रखें ।
- 2 शो केस में उपयुक्त स्थिति में सरक्लाईन ट्यूब फिटिंग, स्टैड सहित, लगाए जिससे कि पूरा स्टैड खिड़की में दिखाई दें । (Fig 1 को देखें)
- 3 इस प्रकार तार स्थापन करें जिससे कि 3 पिन 5 amps साकेट खिड़की के अन्दर लग जाये ।
- 4 स्टैड आधार की स्थिति अंकित करें तथा सरक्लाईन ट्यूब केवल गुजारने के लिए एक छिद्र बनाए ।
- 5 छिद्र में से केवल को गुजारे तथा केविल सिरों पर एक 3 पिन प्लग लगाए ।
- 6 सम्बन्धन की जाँच करें तथा सॉकेट के साथ प्लग को जोड़े ।

Fig 1



SHOWCASE WINDOW LIGHTING FOR TIE RACK

ELN2491H1


- 7 आपूर्ति (सप्लाई) दे तथा टाई रैक के लिए प्रकाश व्यवस्था की जाँच करें ।

कार्य 2 : पुतले (वस्त्र प्रदर्शन के लिए एक आवृति) के लिए शो केस खिड़की में प्रकाश हेतु तार स्थापन करना

शो केस के लिए समान्तर में लगाई 4 ट्यूब लाईट फिटिंग (400mm) की आवश्यकता होती हैं तथा ट्यूब, फ्रेम के पीछे छिपी होती है । (Fig 2) को देखे सम्बन्धन आरेख बनाए गुप्त तार स्थापन में प्रदीप्ति ट्यूबों की तार स्थापन करें ।

- 1 चार ट्यूब लाईट फिटिंग के लिए योग्य फ्रेम बनाए गे जिसमें फ्रेम के पीछे छिपी होती है (Fig 2) के अनुसार ।
- 2 सम्बन्धन आरेख बनाए गे और चार ट्यूबलाइटों को समान्तर में संयोजन करेंगे ।
- 3 वस्त्र प्रदर्शन के लिए मध्य में पुतले (डमी) को रखेंगे ।
- 4 सप्लाई देंगे और प्रणाली की जाँच करेंगे ।

Fig 2

1,2,3 AND 4 TUBELIGHTS
TUBES AND WIRING ARE CONCEALED IN THE FRAME
INDIRECT LIGHTING OF SHOWCASE WINDOW

ELN2491H2

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - मापक यंत्र

अभ्यास 2.5.92

विभिन्न एनालाग एवं डीजिटल उपकरणों का अभ्यास करना (Practice on various analog and digital measuring instruments)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- विभिन्न प्रकार मापन यंत्र को लगाना और विद्युत मानदण्डों को जानना
 - विभिन्न प्रकार आंकिक मापन यंत्र को लगाना और विद्युत मानदण्डों को जानना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)


आपैज्ञार/मापीयंत्र	उपकरण/मशीन
• MI वोल्टमीटर 0 - 500V (analog)	- 1 No.
• Digital वोल्टमीटर 0 - 500V	- 1 No.
• MI एमीटर 0 - 30A (analog)	- 1 No.
• डीजिटल एमीटर 0 - 30A	- 1 No.
• पावर फैक्टर मीटर 0.5 लैग - 1 - 0.5 लीड (एनालाग)	- 1 No.
• डीजिटल पावर फैक्टर मीटर	- 1 No.
• एनालाग वाटमीटर 0-1500W	- 1 No.
• डीजिटल वाटमीटर 0-1500W	- 1 No.
• एनालाग फ्रीक्वेन्सी मीटर 45-55HZ	- 1 No.
• डीजिटल फ्रीक्वेन्सी मीटर 45-55HZ	- 1 No.
	• कक्षवैरल केज इंडक्शन मीटर 3 फेस, 440V, 5 HP - 1 No.
	सामग्री
	• कनेक्टिंग लीड - आवश्यकतानुसार - 1 No.
	• TPIC स्वीच 16A, 500V

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : सर्किट में एनालाग भीटरों का प्रयोग करते हुए कर्णट वोल्टेज पावर फैक्टर पावर और फ्रीक्वेंसी के मान का मापन करना ।

- 1 Fig Nos. 3 से 13 में दिए गए इनालाग प्रकार के वोल्टमीटर अमीटर वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर की पहचान करें।
 - 2 इनालाग वोल्टमीटर, अमीटर, पावर फैक्टर मीटर वाटमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर की परास का जाँच करें।
 - 3 Fig 1 में दर्शाए अनुसार स्वीच, फ्युज इनालाग मीटर्स तथा लोड के साथ पावर सप्लाई कनेक्ट करें।
 - 4 स्वीच को बंद करें।

Fig 1



5 यंत्र में प्रवाहित मानों को मापा तथा उनके मानों को टेबल 1 में रिकार्ड करें ।

6 पावर सप्लाई (टेबल 1 के) को बन्द किया तथा कनेक्शन को विच्छेद करें ।

टेबल 1

क्र. सं.	मीटर	रीडिंग
1	वोल्टमीटर	
2	अमीटर	
3	वाटमीटर	
4	पावर फैक्टर मीटर	
5	फ्रीक्वेंसी मीटर	

कार्य 2 : परिपथ में डिजिटल मीटर का उपयोग करते हुए करंट वोल्टेज पावर फैक्टर, पावर और फ्रीक्वेंसी के मान का मापन करना ।

1 Fig nos. 3 से 13 में दिए गए डिजिटल प्रकार के वोल्टमीटर अमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर की पहचान करें ।

2 डिजिटल वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर के परास की जाँच करें ।


3 Fig 2 में दर्शाए अनुसार स्वीच, फ्लूज, डिजिटल मीटर्स तथा लोड के साथ पावर सप्लाई कनेक्ट करें ।

4 स्वीच को बन्द करें ।

5 यंत्र में प्रवाहित मानों की मापा तथा उनके मानों को टेबल - 2 में रिकार्ड करें ।

6 टेबल 2 के पावर सप्लाई को बन्द किया तथा कनेक्शन को अलगा करें ।

Fig 2




ELN2592H2

टेबल 2

क्र. सं.	मीटर	रीडिंग
1	वोल्टमीटर	
2	अमीटर	
3	वाटमीटर	
4	पावर फैक्टर मीटर	
5	फ्रीक्वेंसी मीटर	


Fig 3



ANALOG VOLT METER

ELN2592H3


Fig 4



DIGITAL VOLT METER

ELN2592H4


Fig 5



ANALOG AMMETER

ELN2592H5


Fig 7



ANALOG WATT METER

ELN2592H7


Fig 8



DIGITAL WATT METER

ELN2592H8


Fig 6



DIGITAL AMMETER

ELN2592H6


Fig 9



ANALOG POWER FACTOR METER


ELN2592H9

Fig 10




ELN2592HA

Fig 12




ELN2592HC

Fig 11



ELN2592HB

Fig 13



ELN2592HD

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - मापक यंत्र

अभ्यास 2.5.93

एकल फेज एवं थ्री फेज परिपथ में मापक यंत्रों को संयोजित करने का अभ्यास करना उदा. - मल्टीमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, फेज सिक्वेंस मीटर और फ्रेक्वेंसी मीटर इत्यादि (Practice on measuring instrument in single and three phase circuit eg. multimeter, wattmeter, energy meter, phase sequence and frequency meter etc.)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- सिंगल फेज परिपथ लोड के साथ वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर को संयोजित करना
- तीन फेज संतुलित लोड के साथ वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, फ्रेक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फेज सिक्वेंस इंडीकेटर को संयोजित करना
- दिये परिपथ में वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और पावर फैक्टर मापने में और उसका रिकार्ड संधारण करना
- फेज सिक्वेंस मीटर को कनेक्शन कर फेज सिक्वेंस जानना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र

- इलेक्ट्रिशियन औज्ञार किट
- MI वोल्टमीटर 0 - 300 V
- MI अमीटर 0 - 5 A
- वाटमीटर AC 0 - 1500 W
- एनर्जी मीटर 3φ 4 15V
- पावर फैक्टर मीटर 0 - 5 लेग-1
- फ्रिक्वेंसी मीटर 0 - 50 Hz लेड

सामग्री

- | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| - 1 Set | • फ्लूज कैरियर - 5A | - 1 No. |
| - 1 No. | • DPIC स्विच 16A, 250v | - 1 No. |
| - 1 No. | • कॉपर वायर 14 SWG | - 0.5 kg. |
| - 1 No. | • इंसुलेशन टेप 25 mm, 5 m की | - 1 roll |
| - 1 No. | • PVC कॉपर वायर 1.5 mm ² | - 5 m |
| - 1 No. | • TPIC स्विच 16A | - 1 No. |

उपकरण/मशीन

- लैम्प लोड 1000W

- 1 No.

प्रक्रिया (PROCEDURE)


कार्य 1 : एकल परिपथ में वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, 1φ एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर संयोजित करना

1 आवश्यक सामग्री एवं लोड लीजिए ।

2 परिपथ के अनुसार मीटर और लोड को संयोजित करें । (Fig 1)

वाटमीटर, एनर्जीमीटर और पावर फैक्टर मीटर का करंट क्वायल लोड के सीरीज में आवश्यक रूप से संयोजित होना चाहिए ।

Fig 1



- 3 परिपथ को अनुदेशक से जाँच कराएँ ।
- 4 पावर/स्रोत के स्विच ऑन करके सभी मीटरों के विक्षेप को निरीक्षण/परीक्षण करें ।

यदि वाटमीटर विपरीत दिशा में विक्षेपित होता है तो करंट क्वायल के कनेक्शन को पहले से विपरीत बदल दें ।

टेबल 1						
क्र. सं.	एमीटर रीडिंग (Amps)	वोल्टमीटर रीडिंग (volts)	वाटमीटर रीडिंग (watts)	फ्रीक्वेंसी मीटर (Hz)	पावर फैक्टर मीटर ($\text{Cos}\phi$)	एनर्जी मीटर (kwh)

— — — — —

कार्य 2 : 3φ परिपथ में वोटमीटर, अमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, फ्रेक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर और फेज सिक्वेंस मीटर का संयोजन


- 1 आवश्यक सामग्रियाँ, मीटर्स एवं लोड लें ।
- 2 Fig - 2 में दिये परिपथ के अनुसार आवश्यक कनेक्शन तैयार करते हैं ।

वाटमीटर, एनर्जी मीटर और पावर फैक्टर मीटर के करंट क्वायल लोड के साथ सीरीज में संयोजित होना आवश्यक है ।
फ्यूज कैरियर में 5 amps का फ्यूज वायर लगाएँ ।

- 3 उसके पश्चात परिपथ को अपने अनुदेशक से जाँच कराएँ ।

टेबल 2						
क्र. सं.	एमीटर रीडिंग (Amps)	वोल्टमीटर रीडिंग (volts)	वाटमीटर रीडिंग (watts)	फ्रीक्वेंसी मीटर (Hz)	पावर फैक्टर ($\text{Cos}\phi$)	एनर्जी मीटर (kwh)

Fig 2



EN2503-H2

दो वाटमीटर विधियों से 3-फेज परिपथ में पावर मापना (Measure the power in 3-phase circuit using two wattmeter methods)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- दो वाटमीटर को एक सर्किट में दिए गए डायग्राम के अनुसार संयोजित करना
- सर्किट को मापना और पावर फैक्टर की गणना करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र

- वोल्टमापी 500V/5A, 3 KW
- M.I. वोल्टमापी 0-500 V
- M.I. अमीटर 0-5A

उपकरण/मशीन

- 3-कला, 415V AC प्रेरण मोटर
3 HP

सामग्री

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • 200W, 250V लैंप | - 3 Nos. |
| • 100W, 250 लैंप | - 3 Nos. |
| • सम्बंधन लीड | - आवश्यकतानुसार |
| • पैन्डेन्ट-धारक 6A 250V | - 6 Nos. |

- 1 No.


प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : दो वाटमीटर विधि से 3 फेज परिपथ में पावर मापना एवं पावर फैक्टर की गणना

1 दिये गये परिपथ आरेख के अनुसार परिपथ को बनायें। (Fig 1)

दिये गये भार के लिए उपयुक्त, उचित परास के मापी को जोड़ें।

Fig 1



2 3-कला आपूर्ति की कुंजी को ऑन करें तथा वॉट मापियों के उचित विक्षेप के लिए प्रेक्षण करें। यदि दोनों वॉट मापी उचित रूप से विक्षेप हो तो पद 4 पर जायें अन्यथा पद 3 से लगातार करें।

3 आपूर्ति की कुंजी को ऑफ करें, यदि कोई एक वॉटमापी विपरीत दिशा में विक्षेप दे तो विपरीत विक्षेप वॉटमापी के विभव कुण्डल के सम्बंधन को बदलें। पद 5 पर जाए।

4 वॉटमापी W_1 तथा W_2 को पढ़े तथा टेबल 2 में दर्ज करें, पाठ्यांक W_1 तथा W_2 को जोड़े तथा कुल शक्ति को अभिलेखित करें, पद 6 पर जाए।

5 आपूर्ति की कुंजी को ऑन करें तथा वॉटमापी W_1 तथा W_2 को पढ़े। मानों को टेबल में अभिलेखित करें। बदली गई विभव 1 2 कुण्डल के ऋणात्मक मात्रा मानते हुए, वॉटमापी के पाठ्यांकों को अभिलेखित करें।

6 नीचे निर्दिष्ट विभिन्न भार की स्थितियों के लिये 3-कला शक्ति को मापें :

a $L_1 = 300 \text{ W}$ बल्ब

$L_2 = 300 \text{ W}$ बल्ब

$L_3 = 300 \text{ W}$ बल्ब

b L_1, L_2, L_3 यहाँ वाटर लोड अधिकतम 3 amps करें लेगा।

c शून्य भार पर 3 HP प्रेरण मोटर

d इण्डक्शन मोटर 3-HP भार के साथ

अनुदेशक को तीन-कला मोटर को उचित रूप से चलने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से मोटर को जोड़ना चाहिए।

7 उपर्युक्त सभी स्थितियों में शक्तिगुणक का परिकलन करें तथा उसे टेबल 1 में दर्ज करें।

8 किये गये कार्य अनुदेशक से जाँच कराएँ।

टेबल 1

भार का प्रकार	वॉटमापी W_1	वॉटमापी W_2	योग $W_1 + W_2$	परिकलित शक्ति गुणक $\cos \theta$	
				$\tan \theta = \sqrt{3} \left[\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \right]$	$\cos \theta$
1					
2					
3					
4					
5					

निष्कर्ष : _____

3-फेज परिपथ में शक्तिगुणक मापना और वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर रीडिंग से उसे सत्यापित करना (Measure power factor in three phase circuit by using power factor meter and verify the same with voltmeter, ammeter, wattmeter readings)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- 3-फेज संतुलित लोड में एकल फेज पीएफ मीटर जोड़ना और शक्तिगुणक पढ़ना
- वोल्टमीटर, एमीटर और वाटमीटर रीडिंग द्वारा P.F. द्वारा सत्यापित करना और त्रुटि निर्धारित करना
- 3-फेज परिपथ में संधारित्र बैंक जोड़ना और P.F. मापना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- एकल फेज P.F. मीटर 250V/ 500V; 5A/ 10A - 1 Set
- वाटमीटर 250/500V, 5A/10A 1500W - 1 Nos.
- M.I एमीटर 0-5 A/ 10A - 1 No.
- M.I वोल्टमीटर 0-300V/ 600V - 1 No.
- विधुतरोधित/बहुक्रिय संयोजित प्लास 200mm - 1 No.
- विधुतरोधित पेचकश 200mm - 1 No.

उपकरण/मशीन

- 3-फेज प्रेरण मोटर 415V 2.25 KW (भारण व्यवस्था सहित) - 1 No.
 - संधारित्र बैंक एकल फेज 250V, 50 Hz 1kvar - 1 Set
 - 3-फेज लैम्प लोड 3 KW 415 V 50 Hz - 1 No.
- सामग्री**
- PVC विधुतरोधित तास्र केबिल 2.5 sq. mm 650 V - ग्रेड - 20 m
 - T.P.I.C. स्विच 16A, 500V - 2 Nos.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

1 मीटर और 3-फेज लैम्प (3-Phase lamp load) लोड प्राप्त करें।


तीनों फेजों में लैम्प लोड समान वाटेज का हो।

वाटमीटर और पीएफ मीटर की धारा कुंडलियों को लोड के साथ श्रेणी में योजित करें।

2 Fig 1 परिपथ आरेख के अनुसार मीटर और लोड के आवश्यक संबंधन बनाएं।

3 अनुदेशक द्वारा परिपथ का अनुमोदन कराएं।

Fig 1



4 पावर सप्लाई पलभर के लिए चालू करें और सब मीटरों का विक्षेप देखें। यदि कोई असामान्यता नहीं है तो स्विच बन्द करें।

5 सब तीन फ़ेजों को समान रूप से भारित करें और मीटर रीडिंग नोट करें और तालिका 1 में दर्ज करें।

6 पावर सप्लाई बन्द करें।

टेबल 1

लोड स्थिति	ऐमीटर एम्प में (I_{ph})	वोल्टमीटर रीडिंग वोल्ट in Volts (E_{ph})	आभासी पावर वाट में in watts $3 \times E_{ph} \times I_{ph}$	3-फ़ेज वाटमीटर वाट में W	3-फ़ेज पावर W x 3	P.F. का परिकलित $P.F. = \frac{W \times 3}{3 \times E_{ph} \times I_{ph}}$	P.F. का मान	अभ्युक्ति मापन मूल्य
प्रतिरोधक लोड								
मोटर बिना लोड								
मोटर बिना लोड								
लोड सहित मोटर								
लोड और संधारित्र								

यदि P.F. मीटर प्रेरणिक लोड के लिए अग्रगामी पीएफ दिखता है तो सप्लाई बन्द करें और P.F. मीटर के कुंडली संबंधनों की अदला बदली करें।

7 सूत्र के प्रयोगों द्वारा शक्तिगुणक निर्धारित करें

$$P.F. = \frac{W \times 3}{3 \times E_{ph} \times I_{ph}}$$

जहां W = वाटमीटर रीडिंग (एक फ़ेज में पावर)

E_{ph} - फ़ेज वोल्टता

I_{ph} - फ़ेज धारा (लाइन धारा के बराबर भी)

8 परिकलित शक्तिगुणक और शक्तिगुणक रीडिंग की तुलना करें और प्रेक्षण लिखें।


प्रेक्षण

9 अपने अनुदेशक को रीडिंग्स अनुमोदनार्थ दिखाएं।

10 लैम्प लोड वियोजित करें और Fig 2 में दिखाए पीएफ सुधारक संधारित्र के साथ 3-फ़ेज प्रेरण मोटर जोड़ें।

11 सुनिश्चित करें कि वाटमीटर और पीएफ मीटर में धारा कुंडली का परास योजित लोड की लोड धारा से पर्याप्त ऊचा है।

Fig 2



12 संघारित्र स्थिति बंद स्थिति में रखें। पावर सप्लाई चालू करें और मीटर का प्रक्षेप देखें।

13 टेबल में दिखाई लोड स्थितियों के लिए मीटर रीडिंग टेबल 1 में दर्ज करें।

14 पावर सप्लाई बन्द करें।

15 प्रत्येक मामले में शक्तिगुणक परिकलित करें और परिमिति P.F. से तुलना करें।

वाटमीटर के गुणन-कारक पर विचार करें जो धारा और वोल्टता परासों और चुने सीसी और पीसी परास के संबंध में वाटमीटर के परास पर आश्रित होता है। वास्तविक पावर प्राप्त करने के लिए वाटमीटर की रीडिंग को गुणनकारक के साथ गणें करें।

16 प्रत्येक लोड स्थिति में P.F. देखें और अपने प्रेक्षण लिखें।

प्रेक्षण

17 रीडिंग और प्रेक्षण अनुदेशक को अनुमोदनार्थ दिखाएं।

इलेक्ट्रिकल (Electrical)

इलेक्ट्रीशियन (Electrician) - मापक यंत्र

अभ्यास 2.5.96

थ्री फेज सर्किट में टॉना टेस्टर का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिकल मानदण्ड मापना (Measure electrical parameters using tong tester in three phase circuit)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- विभिन्न इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के मापन में टॉना टेस्टर के उचित रेंज का चयन करना
- AC वोल्ट, DC वोल्ट तथा फ्रीक्वेंसी का मापन करना
- AC व DC करंट का मापन करना
- AC परिपथ में kW, KVA, PF तथा फेज एंगल का मापन करना
- प्रतिरोध मापन करना
- कैपेसिटेंस मापन करना
- AC और DC माइक्रो एम्पीयर का मापन करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ज्ञार/मापीयंत्र

- टांग-टेस्टर

- 1 No.

उपकरण/मशीन

- सिंगल फेज लैम्प लोड - 1 सेट
- बेल्डिंग ट्रांसफार्मर - 1 No.
- 3 φ इंडक्शन मोटर 3 HP
1440V, with suitable load - 1 सेट

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : AC और DC वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी का मापन करना

टंग टेस्टर के लिये प्रचालन निर्देश नीचे दिए गए हैं । कुछ अन्य टांग टेस्टर के मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका प्रचालन निर्देशानुसार करना चाहिए ।

- रोटरी स्विच को 'V' स्थिति पर सेट करें ।
- इनपुट जैक में टेस्ट लीड को लगाएँ (काला को कॉमन तथा लाल को V)

- टेस्ट लीड को मापी जानेवाली परिपथ के समांतर में कनेक्ट करें ।
- मीटर ऑटोमेटिक ACV या DCV प्रदर्शित करें ।
- मीटर ऑटोमेटिक उचित रेंज चयन करें ।
- LCD पर प्रदर्शित वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी के मान को पढ़ा तथा टेबल में नोट करें ।

— — — — —

कार्य 2 : AC परिपथ में धारा का मापन करना

- रोटरी स्विच को 'A' स्थिति पर सेट करें ।
- जॉ को खोलने के लिए ट्रिगर को दबाया और तथा जिस चालक में मापन करना है, उसको पूर्ण रूप से जॉ के अंदर रखें ।

- क्लैम्प ऑटोमेटिक उचित रेंज चयन करें ।
- LCD पर प्रदर्शित करंट को पढ़ा तथा टेबल में नोट करें ।

दोनों जबड़ों के मध्य दूरी नहीं होनी चाहिए ।

— — — — —

कार्य 3 : AC में kW, KVA, PF और ϕ (phase angle) का मापन करना

- रोटरी स्विच को KW / KVA स्थिति पर सेट करें ।
- इनपुट जैक में टेस्ट लीड को लगायें । (काला को कॉमन तथा लाल को V में)

- काला लीड COM को न्यूट्रल लाइन में कनेक्ट करें ।
- लाल लीड 'V' को सप्लाई लाइन से संयोजित किया और उसी कंडक्टर को क्लैम्प किया जहाँ V (लाल) टर्मिनल जुड़ा हुआ है ।

- 5 पावर क्लैम्प ऑटोमेटिक उचित रेंज चयन करें ।
- 6 LCD पर प्रदर्शित वाट और HP के मानों को पढ़ा तथा नीचे टेबल में नोट करें ।
- 7 आवश्यक पैरामीटर्स के प्रदर्शन के लिये रेंज बटन को दबायें ।

$$PF = \frac{KW}{KVA} = \cos\theta$$

- 8 3φ, 3 वायर संतुलित लोड प्रणाली "COM" के लिये "V" स्वोत लेने हेतु तीन क्रोकोडायल एडाप्टर का प्रयोग करना चाहिए । (R, Y और B)
- 3 फेज पावर = $3 \times \text{मीटर सूचांक}$

— — — — —

कार्य 4 : प्रतिरोध का मापन

- 1 प्रतिरोध का मापन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि - परिपथ में सप्लाई तो नहीं है या कौई चार्ज संधारित्र परिपथ में उपस्थित है ।
- 2 रोटरी स्विच को Ω या $M\Omega$ रेंज पर सेट करें ।
- 3 इनपुट जैक में टेस्ट लीड को लगाएँ (काला को कामन तथा लाल को Ω)

- 4 परिपथ में मापन के लिये टेस्ट लीड को कनेक्ट किया तथा प्रदर्शित मान को पढ़े ।
- 5 टेबल में पाठ्यांक को नोट करें ।

— — — — —

कार्य 5 : कैपेसिटेन्स का मापन करना

- 1 इनपुट जैक में टेस्ट लीड को लगाएँ । (काले को COM से और लाल को)
- 2 रोटरी स्विच को “||” स्थिति पर सेट करें ।

- 3 टेस्ट लीड के लाल टर्मिनल को मापी जानेवाली कैपेसिटर के एनोड साइड तथा काला टर्मिनल को कैथोड साइड कनेक्ट करें ।
- 4 LCD में कैपेसिटेंस मान को पढ़ा तथा टेबल में नोट करें ।

— — — — —

कार्य 6 : AC + DC माइक्रो एम्पीयर का मापन करना

- 1 रोटरी स्विच के स्थिति को “ $\equiv \mu A$ ” पर सेट करें ।
- 2 इनपुट जैक में टेस्ट लीड को लगाएँ । (काला को कॉमन एवं लाल को μA में) (Fig 1)


- 3 मापी जानेवाली परिपथ के श्रेणी में मीटर को कनेक्ट किया तथा प्रदर्शित मान को पढ़ा एवं टेबल में पाठ्यांक नोट करें ।

टेबल

क्र. सं.	मापन	पाठ्यांक 1	पाठ्यांक 2
1	AC वोल्टेज		
2	DC वोल्टेज		
3	फ्रीक्वेंसी		
4	KW		
5	KVA		
6	PF		
7	फेज एंगल		
8	प्रतिरोध		
9	कैपेसिटेंस		
10	AC माइक्रो एम्पीयर		
11	DC माइक्रो एम्पीयर		

— — — — —

Fig 1



ELN2596H1

विभिन्न मापक यंत्रों का सत्यापन एवं सीमा विस्तार/बढ़ाने का अभ्यास (Practice for range extension and calibration of various measuring instruments)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- MC 0-15V वोल्टमीटर की सीमा MC 0-30V वोल्टमीटर तक बढ़ाना
- M.C 500 मिली एमीटर मी की सीमा MC 2.5 एम्पियर मी तक बढ़ाना
- M.C. 500 मिली एमीटर मी की सीमा MC5 एम्पियर मी तक बढ़ाना
- M.C 100 मिली एमीटर मी की सीमा MC1 एम्पियर मी तक बढ़ाना
- MC 0-50V वोल्टमीटर को सत्यापन करना
- MI 0-300V वोल्टमीटर को सत्यापन करना
- M.C. 0-500 मिली एमीटर मीटर को सत्यापित करना
- MI 0-1 A एमीटर मीटर को सत्यापन करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

आवश्यकताएँ	उपकरण/मशीन	
• Electrician's Tool Kit	- 1 Set	• परिवर्ती DC शक्ति आपूर्ति 0-50V - 1 No.
• संयुक्त प्लायर 150mm	- 1 No.	• गुणकों के लिए मानक प्रतिरोध (दशक
• तार विलगक 150 mm	- 1 No.	(प्रतिरोध बाक्स 5 दशकों में
• विद्युत सोल्डरन इस्ट्री 230V 35W	- 1 No.	1, 10, 100, 1000, 10000) OR - 3 Nos.
• MC मिली वोल्टमापी 0-50mV	- 2 Nos.	या परिवर्ती नलीदार कुण्डलित प्रतिरोधक
• MC मिली अमीटर 0-10mA	- 1 No.	• बैटरी 12V 100 AH - 1 No.
• M C वोल्टमापी 0-15V	- 1 No.	• Variac 0-300V/5A - 1 No.
• MC Ammeter 0-500 m.A	- 1 No.	
• MC वोल्टमापी 0-100 m V	- 1 No.	सामग्री
• MC वोल्टमापी 0-1V	- 1 No.	• विभवमापी 10k 2W - 1 No.
• ओह्ममापी (या) बहुमापी	- 1 No.	• प्रतिरोधक 1K 2W - 1 No.
• MC वोल्टमापी 0-50V	- 1 No.	• रैजिन कोर सोल्डर - आवश्यकतानुसार
• Digital Voltmeter	- 1 No.	• सम्बंधन लीड - आवश्यकतानुसार
• M.I. वोल्टमापी 0-300V	- 1 No.	• कॉपर वायर 18 SWG - आवश्यकतानुसार
• M I अमीटर 0-1A	- 1 No.	• नाइक्रोम वायर 18 SWG - 1/2 m
• Rheostat 100Ω/5W	- 1 No.	

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : MC 0-15V वोल्टमीटर की परास को बढ़ाकर MC 0-30V वोल्टमीटर तक करना


- 1 MC 0-15 V वोल्टमापी के आवरण को हटाये, श्रेणी प्रतिरोध, यदि कोई हो तो जाँच करें तथा विक्षेप करें।
- 2 चल कुण्डल सिरों को मापी टर्मिनलों से जोड़ें तथा आवरण को बन्द करें।

- 3 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनायें।

कुँजी को खुला तथा परिवर्ती DC आपूर्ति को न्यूनतम तल पर रखें।

- 4 कुँजी को बन्द करें; M_1 में पूर्व पैमाना विक्षेप प्राप्त होने तक DC वोल्टता को ऋमिक रूप¹ से बढ़ायें। (परीक्षण हो रहे वोल्टमापी)
- 5 M_1 के पाठ्यांक को तथा फिर M_1 के आरपार वोल्टता पतन को पूर्व पैमाने विक्षेप पर टेवल 1 में अभिलेखित करें।

Fig 1



- 6 कुंजी को खोले तथा परिपथ को विक्षेप करें।
- 7 ओह्म के नियम का उपयोग करते हुए M_1 के MC प्रतिरोध की गणना करें तथा टेबल 1 में दर्ज करें।

टेबल 1

M_1 के f.s.d. पर M_2 का पाठ्यांक	f.s.d. पर M_1 के आरपार वोल्टता ¹ पतन	M_1 का MC का प्रतिरोध
1	2	3

- 8 सूत्र का उपयोग करते हुए प्रस्तावित परास (माना 0-30 V) के लिए गुणक के प्रतिरोध की गणना करें।

$$\text{गुणक प्रतिरोध} =$$

वोल्टता का वोल्टता पतन – FSD पर MC के आरपार प्रस्तावित परास


FSD पर MC धारा

- 9 सूत्र से गुणक घटक (M.F.) की गणना करें।

$$M.F. = \frac{\text{प्रस्तावित वोल्टता परास}}{\text{FSD पर MC के आरपार वोल्टता पतन}}$$

- 10 पद 8 में गणना किये गये गुणक प्रतिरोध के मान के लिए उचित मानकीय प्रतिरोध का चयन करें तथा उन सभी को मापी M_1 के साथ श्रेणी में जोड़ें।

- 11 कुंजी को खुला रखते हुए Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनायें।



परिवर्तित DC आपूर्ति को न्यनतम स्तर पर रखें।

- 12 कुंजी को बन्द करें तथा मानकीय वोल्टमापी M_1 में ठीक विभाग मिलाने के लिए वोल्टता को क्रमिक रूप से बढ़ायें।³

- 13 प्रत्येक सेटिंग (M_1 में) के लिए टेबल 2 में M_1 तथा M_1 के पाठ्यांकों को अभिलेखित करें, जब तक कि M_1 पूर्ण पैमाना विक्षेप प्राप्त न करते।

- 14 कुंजी को खोले तथा परिपथ को विच्छेद करें।

- 15 जुड़े हुए गुणक के गुणन खंड तथा M_1 पाठ्यांक का उपयोग करते हुए वास्तविक वोल्टता की गणना करें।

- 16 नीचे दिये गये सूत्र का उपयोग करते हुए बैटरी की गणना करें तथा टेबल 2 में अभिलेखित करें।

त्रुटि = मानक मापी पाठ्यांक - M_1 के पाठ्यांक से परिकलित वोल्टता।

गुणक प्रतिरोध को बनाने के लिए उपयुक्त वोल्टता के विभिन्न मापों के तार कुण्डलित प्रतिरोधकों की अनउपलब्धता की स्थिति में आप प्रयोगशाला के उपयोग के लिए तार कुण्डलित नलिकाकार परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करे सकते हैं तथा विस्तारित परास में से मापी यंत्रों के कार्य की जाँच कर सकते हैं।

व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग करते हुए गुणक प्रतिरोध के ठीक बराबर परिवर्ति तार कुण्डलित प्रतिरोध के मान को सेट करें।

टेबल 2

क्रम संख्या	M_3 का पाठ्यांक M_3	M_1 का पाठ्यांक M_1	गुणन खंड, M.F.	वोल्टेज $= M_1 \times MF$	त्रुटि (कालम 2) - (कालम 5)
1	2	3	4	5	6

कार्य 2 : M.C 500 मिली अमीटर की परास बढ़ाकर MC 2.5 एम्पियर्स तक करना

- 1 Fig 3 में दर्शाये गये अनुसार 0-500 mA परास मिली मीटर को परिपथित DC आपूर्ति के साथ जोड़े। यदि चर DC आपूर्ति उपलब्ध न हो तो परिपथ (Fig 4) में दर्शाये गये अनुसार बैटरी से सम्बंधन बनाये।

Fig 3





Fig 4



- 2 परिपथ को निर्गत वोल्टता न्यूनतम पर सेट करें तथा S को बंद करें।
 3 मिली अमीटर को पूर्ण पैमाने विक्षेप पढ़ने तक वोल्टता को धीरे-धीरे बढ़ाये।
 4 वोल्टमापी तथा अमीटर के पाठ्यांक का अवलोकन करें तथा टेबल 1 में दर्ज करें। मापन घटक, पूर्ण पैमाना विक्षेप निम्नानुसार संकेत करता है।
 $V_i = \text{_____} V$
 $I_i = \text{_____} A.$

टेबल 3

वोल्टमापी पाठ्यांक (वोल्ट में)	अमीटर पाठ्यांक (एम्पियर्स में)

- 5 कुंजी S को बंद करें तथा परिपथ घटकों को विच्छेदित करें।

- 6 शंट प्रतिरोध R_{sh} की गणना करें।


$$R_{sh} = \frac{V_i}{I_{sh}}$$

फिर शंट प्रतिरोध के आरपार वोल्टता V के बराबर होगी। शंट प्रतिरोध में धारा I_{sh} मापन परास $I = 2.5 A$ के सिरे माने तथा मापन घटक I में धारा के बीच का अंतर है।

$$\text{अर्थात् } I_{sh} = I - I_i$$

- 7 ओह्म मापी का उपयोग करते हुए नाइक्रोम तार की ठीक लम्बाई को मापे, जिसका प्रतिरोध R के बराबर है जैसा कि Fig 5 में दर्शाया गया है तथा पद 9 पर जायें। यदि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग हो रहा हो तो पद 8 पर जाए।


Fig 5



ELN2597H5

- 8 अनुपात भुजा को तथा चर प्रतिरोध को ऐसे मान पर सेट करें, जिसके कारण सेतु संतुलित होता है, जब अन्नात प्रतिरोध मान R के बराबर होता है। मापी यंत्र की एक लीड को तार के एक सिरे से जोड़े तथा दूसरे लीड से संर्प्श करें तथा चले जिससे शून्य विक्षेप उत्पन्न हो। विन्दु जिस पर अन्य विक्षेप उत्पन्न होता है, वह तार की लम्बाई को संकेत करता है।
 9 तार को मापी गयी लम्बाई से 1 cm अधिक काटें।
 10 दोनों सिरों पर नेत्र बनाते हुए तार को कुण्डलित करें। यह ध्यान रखें कि 1cm की अतिरिक्त लम्बाई सिरों पर नेत्र बनाने के लिए उपयोग हो रहा है। (Fig 6)

Fig 6




ELN2597H6

- 11 मिलीअमीटर के टर्मिनलों के आरपार कुण्डलित तार को शंट की तरह जोड़े।

- 12 परिपथ आरेख (Fig 7) के अनुसार परिपथों को स्थापित करें।

Fig 7



ELN2597H7

- 13 चल भार प्रतिरोध R_L को 4 ओह्म पर समायोजित करें।

- 14 शक्ति की कुंजी को ऑन करें तथा परिपथ में निर्गम वोल्टता को 10 V के बराबर समायोजित करें। अमीटर विक्षेप का अवलोकन करें।

- 15 धारा I के मान को पढ़ें।

- 16 श्रेणी में 5A अमीटर को जोड़ते हुए एम्पियर में दर्शाये गये पाठ्यांकों को सत्यापित करें।

कार्य 3 : 500 mA अमीटर परास का 5A तक विस्तार करना

- 1 कार्य 1 के पद 6 में अनुदेश को अनुपालित करते हुए शॉट प्रतिरोध R_{sh} की गणना करें।
-

कार्य 4 : 100 mA अमीटर परास को 1A तक विस्तार करना

- 1 100 mA अमीटर को उसके परास को 1 A तक बढ़ाने के लिए प्रकार्य 1 में पद 1 से 15 को अनुपालित करें।
-
- 2 100 mA अमीटर पर विचार करें जिसके परास, एकल मापी यंत्र की बाहरी शॉट से 1.0A से विस्तार है।
-

कार्य 5 : 0-50V MC प्रकार के वोल्टमीटर का सत्यापन


- 1 जाँच करनेवाले मीटर के पाइन्टर को जीरो पोजिशन में सेट करें।
- 2 Fig 8 में दर्शाए अनुसार सत्यापन करनेवाले मीटर (0-50V) वोल्टमीटर, मानक डीजिटल वोल्टमीटर तथा DC पावर सप्लाई को जोड़िए।
- 

Fig 8

V₁ = METER TO BE CALIBRATED
V₂ = STANDARD VOLTMETER

CONNECTION DIAGRAM OF VOLTMETER CALIBRATION

EN25971-98
- 3 DC पावर सप्लाई यूनिट के आउटपुट को जीरो पोजिशन पर सेट करिए, अपने अनुदेशक से कनेक्शन की जाँच कराइए।
- 4 DC पावर सप्लाई यूनिट के आउटपुट को इतना बढ़ाना है, जब तक मानक मीटर में 5V की रीडिंग न आ जाए। (सत्यापन हेतु के लिए गए मीटर का 1/10th का भाग)।
- 5 सत्यापित करनेवाले मीटर के अनुसार मानक मीटर के वोल्टेज को रिकार्ड टेबल 4 में करना चाहिए।
- 6 मानक मीटर में दिखाए गए रीडिंग और कैलिब्रेशन करने वाले मीटर में दिखाए रीडिंग में त्रुटि का प्रतिशत टेबल 4 के अनुसार निकालें।
- 7 स्टेप 4,5 और 6 को फिर से दोहराए और विभिन्न स्थितियों में प्रतिशत त्रुटि निकाले टेबल 4 के अनुसार।
- 8 विभिन्न स्थितियों से प्राप्त प्रतिशत त्रुटि गणना करें तथा सत्यापित करनेवाले मीटर की औसत प्रतिशत त्रुटि निकालें।
- 9 अपने कार्य को अनुदेशक के द्वारा जाँच कराइए।

टेबल 4

टाइप आफ मीटर :


सीमा :

क्र.सं.	PSU आउटपुट वोल्टस	वोल्टमीटर रीडिंग वोल्ट में		त्रुटि (V ₂ - V ₁)	त्रुटि % $\frac{V_2 - V_1}{V_2} \times 100$
		मानक V ₂	सत्यापन योग्य V		
1	5	5			
2	10	10			
3	15	15			
4	20	20			
5	25	25			
6	30	30			
7	35	35			
8	40	40			
9	45	45			
10	50	50			

$$\text{औसत त्रुटि} = \frac{\text{पूर्ण \% त्रुटि}}{\text{रीडिंग की संख्या}}$$

कार्य 6 : 0 - 300V MI वोल्टमीटर का सत्यापन ।

- सत्यापन करने वाले मीटर का पाइंटर जीरो पोजिशन पर सेट करिए। (mechanical zero setting).
- दिए गए 0-300V MI टाइप AC मीटर जिसका सत्यापन करना है, तथा मानक मीटर को 0-300 आउटपुट वाले वेरियक के साथ रिहोस्टेर लगाते हुए Fig 9 के अनुसार जोड़ें।



अच्छी तरह से इन्सुलेटेड वायर कनेक्शन के लिए उपयोग करना चाहिए। सभी खुले कान्टेक्ट एवं पाइंट को इंसुलेट करें, मेन सर्किट में जोड़ने से पहले। आपके अनुदेशक द्वारा देखे बिना वेरियक की मेन सप्लाई टर्मिनल के साथ, तथा वायरिंग पूर्ण और जाँच किए बिना नहीं जोड़ें। रीडिंग लेते समय अपने आप को अच्छी तरह इंसुलेट करें।

- वेरियक के आऊटपुट को जीरो में रखकर 240V, 50Hz मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करें अपने अनुदेशक से कनेक्शन की जाँच करवाए।
- वेरियक का मेन सप्लाई आन करिए तथा आउटपुट वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाए जब तक मानक मीटर (V₂) में 30V रीडिंग न आ जाए (जो सत्यापन में लिए गए मीटर का 1/10 भाग)
- टेबल 5 में सत्यापन में संबंधित मीटर की पाठ्यांक को नोट करें।
- मानक मीटर के पाठ्यांक से और सत्यापन करनेवाले मीटर का पाठ्यांक का प्रतिशत का सत्यापन फार्मला टेबल 5 में दिया गया है।
- स्टेप 4,5 और 6 को दोहराए सत्यापित किए जाने वाले मीटर का पाठ्यांक विभिन्न स्थितियों में टेबल 5 में दिया गया है।
- प्रतिशत त्रुटि विभिन्न पाठ्यांकों पर प्राप्त करें रिकार्ड की गणना करें तथा मीटर का औसत त्रुटि प्रतिशत का सत्यापन फार्मला का प्रयोग टेबल 5 में दिया गया है।
- अपने कार्य को अनुदेशक से जाँच कराएँ।
- सत्यापित मीटर त्रुटि का प्रतिशत एवं सत्यापन दिनांक का स्लिप मीटर पर चस्पा करें।

टेबल 5

टाइप आफ मीटर :

सीमा :


क्र.सं.	PSU आऊटपुट वोल्टस	वोल्टमीटर रीडिंग वोल्ट में		त्रुटि (V ₂ - V ₁)	त्रुटि % $\frac{V_2 - V_1}{V_2} \times 100$
		मानक V ₂	सत्यापन योग्य V		
1	30	30			
2	100V	100			
3	150V	150			
4	250V	200			
5	250V	250			
6	300V	300			

$$\text{औसत त्रुटि} = \frac{\text{पूर्ण \% त्रुटि}}{\text{रीडिंग की संख्या}}$$

कार्य 7 : 0-500mA MC टाइप मीटर का सत्यापन

- सत्यापन करने वाले मीटर का पाइंटर जीरो पोजिशन पर सेट करियें।
- दिए गए 0-500mA मीटर जिसका सत्यापन करना है, तथा मानक डिजिटल DC मीटर की रिहोस्टेर लगाते हुए Fig 10 के अनुसार DC पावर सप्लाई से जोड़िए।

- रिहोस्टेर को उसके आधे प्रतिरोध स्थिति में सेट करिए तथा DC पावर सप्लाई यूनिट की जीरो वोल्ट पर रखें। तथा अपने सर्किट की अनुदेशक से जाँच करवाएँ।
- PSU के आउटपुट को धीरे-धीरे तब जब बढ़ाते हैं, जब तक कि अमीटर (A2) पाठ्यांक 500 mA न हो जाय (अमीटर A1 के सत्यापन में अमीटर के पूर्ण पैमान मान का)।



EL-N597-HA

- 5 रिहोस्टेट को मानक अमीटर (A2) के 450mA मान तक समायोजित करें। (करंट में कमी सत्यापन में लिये गए अमीटर का 1/10 भाग के बराबर होता है)।
- 6 अमीटर (A1) के समरूप सत्यापन करनेवाले अमीटर का पाठ्यांक टेबल 6 में रिकार्ड करें।

टेबल 6


क्र.सं.	एमीटर रीडिंग mA में		वृद्धि (I ₂ - I ₁)	वृद्धि % $\frac{ I_2 - I_1 }{I_2} \times 100$
	मानक I ₂	सत्यापन योग्य I ₁		
1	50			
2	150			
3	250			
4	350			
5	450			
6	500			

पूर्ण % वृद्धि
औसत वृद्धि = $\frac{\text{रीडिंग की संख्या}}{\text{रीडिंग की संख्या}}$

— — — — —

कार्य 8 : 0 - 1A MI टाइप मीटर का सत्यापन

- 1 सत्यापित करने वाले मीटर के प्वाइंटर (संकेतक) को शून्य पर सेट किया एवं जाँच करें। (यांत्रिक जीरो सेटिंग)।
- 2 Fig 11 में परिपथ बनाया गया है। Fig 10 में दिये गये परिपथ की तरह Fig 11 का परिपथ है, सिर्फ परिवर्ती DC सप्लाई के स्थान पर AC करंट बदला गया है। वायरिंग किये परिपथ को अनुदेशक से जाँच कराएँ।



परिपथ को सप्लाई से जोड़ने के पूर्व खुले संपर्कों एवं टर्मिनलों पर अच्छे इंसुलेटेड वायर का प्रयोग करनेक्षण में करना चाहिए। वायरिंग के पूर्ण होने एवं अनुदेशक से जाँच बिना कराये वैरिएक को सप्लाई टर्मीनल से नहीं जोड़ना चाहिए। कार्य करते एवं पाठ्यांक लेते समय स्वयं को इंसुलेट करें।

- 3 दिये गए MI अमीटर के सत्यापन के प्रक्रिया की तुलनात्मक विधि पिछले अभ्यास 7 में MC अमीटर के सत्यापन के समान है। सिर्फ आपूर्ति स्रोत एवं करंट का मान में भिन्नता है। अपने किये गये अवलोकन को टेबल 7 में रिकार्ड करें।
- 4 अपने किये गये कार्य को अनुदेशक से जाँच कराएँ।

टेबल 7

क्र.सं.	औसत मानक रीडिंग I_2 (mA)	वृद्धि की सत्यापन योग्य I_1	वृद्धि % $\frac{I_2 - I_1}{I_2} \times 100$
1	900		
2	800		
3	500		
4	300		
5	100		

$$\text{औसत वृद्धि} = \frac{\text{पूर्ण \% वृद्धि}}{\text{रीडिंग की संख्या}}$$

— — — — —

वोल्टेज ड्राप विधि से प्रतिरोध मापन में त्रुटियों का निर्धारण (Determine errors in resistance measurement by voltage drop method)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- वोल्टता पतन विधि से मापे जाने वाले प्रतिरोध के मान पर आधारित, परिपथ के लिए उचित अमीटर का चयन करना
- मापन त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए वोल्टमापी तथा अमीटर को उचित रूप से जोड़ना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्जार/मापीयंत्र

- रोधित कटिंग प्लायर 150 mm
- पेंचकस 150 mm
- कनेक्टर पेंचकस 100 mm
- 0-30V mC पैनल प्रकार वोल्टमापी
- बहुमापी
- 0-5 ऐम्पियर अमीटर P.M.M.C. प्रकार
- ओहमापी लघु (Shunt) प्रकार 0-100 ओह्म

सामग्री


- DPST चाकू कुंजी 16 A - 1 No.
 - SPDT चाकू कुंजी 16A - 1 No.
 - 5A फ्यूजतार - 1 No.
 - P.V.C. केबल 48/0.2mm - 10 m
 - ग्लास कैटेराइज फ्यूज धारक
 - के साथ 100 mA
- आवश्यकतानुसार

उपकरण/मशीन

- 24V DC शक्ति आपूर्ति इकाई - 1 No.
- रिहोटेट 10 ओह्म, 20 ओह्म
तथा 50 ओह्म 4A क्षमता प्रयोक्ता - 1 No.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

- 1 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनायें। (केवल उच्च सुग्राहि वोल्टमापी का उपयोग करें)



- 2 प्रतिरोधक R के मान को मापें तथा मापें गये मानों को टेबल 1 दर्ज करें।
- 3 केवल प्रतिरोध के आरपार कुंजी S₁ को स्थिति 1 पर रखते हुए आपूर्ति की कुंजी को ऑन करें। वोल्टमापी तथा अमीटर को पढ़े तथा

पाठ्यांकों को टेबल 1 में अभिलेखित करें। परिपथ की कुंजी को ऑफ करें।

- 4 सूत्र $R = V / I$ का उपयोग करते हुए मापी गयी मात्राओं से प्रतिरोध के मान की गणना करें, तथा मानों को टेबल 1 में दर्ज करें।
- 5 अमीटर तथा प्रतिरोध के आरपार, कुंजी S₂ को स्थिति 2 पर बदलें। वोल्टता तथा धारा को पढ़े तथा अभिलेखित करें।
- 6 इन मानों के लिए पद 4 को दोहरायें।
- 7 सूत्र % त्रुटि = $\frac{(R_{2\text{cal}} - R_{2\text{mes}})}{R_{2\text{mes}}} \times 100$. का उपयोग करते हुए प्रतिरोध को मापने में कोई हुई त्रुटि की गणना करें तथा दर्ज करें।
- 8 टेबल 1 में दिये गये अनुसार R के विभिन्न मानों के लिए इसी प्रक्रिया को दोहरायें।

टेबल 1

प्रतिरोध का मान			निम्नलिखित के आर- पार योजित वोल्टमापी	वोल्टता	धारा	प्रतिरोध $R = V/I$ का परिकलित मान	$\% \text{ त्रुटि} =$ $\frac{(R_{2\text{cal}} - R_{2\text{mes}}) \times 100}{R_{2\text{mes}}}$
क्रं. सं.	अंकित R_{Mar}	मापा गया R_{Mes} ओह्म					
1	10		केवल R				
			R तथा A				
2	20		केवल R				
			R तथा A				
3	50		केवल R				
			R तथा A				

— — — — — — — —

एकल कला ऊर्जा मापी में त्रुटी के लिए परीक्षण (Test single phase energy meter for its errors)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- ऊर्जा मापी में मंद विस्तृपण को पहचानना
- ऊर्जा मापी का प्रवर्तन धारा त्रुटि के लिए परीक्षण करना
- ऊर्जा मापियों में त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए उचित भारित व्यवस्थाओं का चयन करना
- ऊर्जा मापी में प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

आवश्यकताएँ	उपकरण/मशीन
• इलेक्ट्रीशियन टूल किट	- 1 No.
• एकल कला ऊर्जामापी 5A 250 V 50Hz	- 1 No.
• वोल्टमापी MI 0 - 300V	- 1 No.
• अमीटर MI 0 - 5 A	- 1 No.
• शक्ति गुणक मापी 240 V 5 A 50 Hz	- 1 No.
• अमीटर MI 0 - 50mA	- 1 No.
	उपकरण/मशीन
	• एकल कला संधारित्र ब्रेक भार 240V 50Hz AC $\frac{1}{2}$ KW के साथ
	- 1 No.
	• लैप भार एकल कला 240V 50Hz AC 1.25kW
	- 1 No.
	• स्व ट्रांसफार्मर 0 स 270V 8A 50 Hz
	- 1 No.
	सामग्री
	• विद्युत बल्ब 5 W 240 V धारक के साथ
	- 1 No.
	• PVC रोधित केबल 1.5 वर्ग mm 250V ग्रेड
	- 10 m


प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य ऊर्जामापी के अंदर त्रुटियों का समायोजन, इस पाठ्यक्रम के क्षेत्र के बाहर है चूंकि उसमें धूर्णी उप-मानकीय मापी इत्यादि जैसे मंहगे उपकरण की आवश्यकता होती है। अतः त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए केवल सरलीकृत विधि का ही यहाँ पर समावेश किया गया है।

कार्य 1 : ऊर्जामापी की शून्य भार पर जाँच करना। (मंद विस्तृपण त्रुटि को ज्ञात करने के लिए)

- 1 ऊर्जा मापी को Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार एक स्व-ट्रांसफार्मर के द्वारा सम्बन्धन करें।
- 2 ऊर्जा मापी की निर्धारण वोल्टता के 80% तथा 110% के बीच ऊर्जामापी की निवेशी वोल्टता को परिवर्तित करें।

Fig 1



240 V वोल्ट के निर्धारण के ऊर्जामापी के लिए निवेशी वोल्टता 192 V से 264 V के बीच होती है। प्रेक्षण करें कि क्या मापी चक्की धूमती है या नहीं। प्रेक्षण के समय, भार कुंजी को ऑफ करना चाहिए या भार को सम्बन्धन नहीं होना चाहिए।

- 3 IS 722 में दी गई अनुशंसा के साथ उपरोक्त प्रयोग से अपने परिणाम को सह सम्बन्धन करते हुए अपने प्रेक्षण को लिखिए।


प्रेक्षण

प्रेक्षण IS 722 (भाग I) 1977 के अनुसार मापी को, संदर्भित वोल्टता की 80% तथा 110% के बीच किसी भी वोल्टता पर एक पूर्ण चक्रण नहीं करना चाहिए।

कार्य 2 : ऊर्जामापी में आरंभन धारा त्रुटि के लिए परीक्षण

1 Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार कम भार (5W) को सम्बंधन करें

Fig 2



2 भार की कुंजी को ऑन करें तथा मापी के घूर्णन का प्रेक्षण करें।

3 IS 722 (भाग III) में दिये गये अनुशंसा के साथ उपरोक्त प्रयोग से अपने परिणाम को सह सम्बन्धन करते हुए, अपने प्रेक्षण को लिखें।


प्रेक्षण

IS 722 (भाग II) 1977 के अनुसार डॉयल तथा संकेतक प्रकार पंजीयन के लिए $\cos \phi = 1$ पर निर्धारण मूल धारा के 0.5% हो सकती है। आरंभन धारा, जबकि इम प्रकार के पंजीयन के लिए वह 0.75 % होगी। परिवर्त्य स्टाप के साथ उपलब्ध मापियों के लिए मान क्रमशः 1% तथा 1.5% होगी।

कार्य 3 : एकल कला ऊर्जामापी में प्रतिशत त्रुटि के लिए परीक्षण

1 लैंप भार के साथ Fig 3 में दर्शाये गये अनुसार सम्बंधनों को बनाये

Fig 3



2 लैंपों की कुंजी को ऑन करें जिससे कि परिपथ में ऊर्जामापी की निर्धारण धारा की 25% प्रवाह हो।

3 टेबल 1 में वोल्टमापी, अमीटर तथा P.F. मीटर के पांठयाकों को टेबलबद्ध करें।

4 भार को स्थिर रखते हुए, 2 मिनट (120 सेकेन्ड) के लिए ऊर्जामापी चकती के चक्करों की संख्या को ज्ञात करें तथा उसी को टेबल 1 में दर्ज करें।

5 निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए वास्तविक ऊर्जा की गणना करें।

$$\text{वास्तविक ऊर्जा} = \frac{E \times I \times \cos \phi \times t}{1000 \times 3600} \text{ kWh}$$

जहाँ 't' समय सेकेन्ड में है।

6 निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए मापी से पंजीयकृत (अभिलेखित) ऊर्जा की गणना करें।

अभिलेखित ऊर्जा

$$\text{Recorded energy} = \frac{\text{No.of revolutions}}{\text{Meter constant}} \text{ kWh} = \frac{N}{K} \text{ kWh}$$

7 निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए त्रुटि को ज्ञात करें।

त्रुटि = अभिलेखित ऊर्जा - वास्तविक ऊर्जा।

8 निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए प्रतिशत त्रुटि की गणना करें।

$$\text{प्रतिशत त्रुटि} = \frac{R - A}{A} \times 100$$

जहाँ R = मापी से पंजीकृत ऊर्जा हैं।

A = वास्तविक ऊर्जा हैं।

टेबल 1


क्रं. सं.	भार पाठ्यांक	वोल्टमापी पाठ्यांक	अमीटर पाठ्यांक	P.F. मापी पाठ्यांक	समय सेकेन्ड में	वास्तविक ऊर्जा = $\frac{E \times I \times \cos \phi \times t}{1000 \times 3600} \text{ kWh}$	गणिन नियंताक N	मापी नियंताक K	पंजीकृत ऊर्जा NK	त्रुटि का %
1	प्रतिरोधकता									
2	25%									
3	50%									
4	75%									
4	100%									
	प्रेरणिक									
1	25%									
2	50%									
3	75%									
4	100%									

50%, 75%, 100% प्रतिरोधी तथा प्रेरणिक भार के लिए कार्यकारी पद 2 से 8 तक पुनरावृत्त करें तथा टेबल 1 में लिखें।

प्रेरणिक भार के लिए Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार सम्बंधन को बनाये।

ऊर्जामापी के उचित पंजीयन को जाँच करने के लिए, ऊर्जामापी में अभिलेखित, आरंभिक तथा अंतिम पाठ्यांक के अन्तर के द्वारा पाठ्यांकों को सत्यापित करें। I.S. 722 (भाग III) 1977 के अनुसार, इकाई शक्ति गुणक पर तथा 0.5 पश्चगामी दोनों पर % त्रुटि को $\pm 2\%$ से अधिक नहीं होना चाहिए।

Fig 4




यदि उपरोक्त त्रुटिया, I.S. में निर्धारित सीमा से अधिक हो तो, विद्युतीय बोर्ड से सम्बंधित मापी तथा रिले परीक्षण विभाग पर ऊर्जामापी के अंशांकन के लिए कदम उठाये।

कार्य 4 : त्रुटि ग्राफ को आलेखित करना

- टेबल वृद्ध पाठ्यांकों से, इकाई P.F. के लिए तथा पश्चगामी P.F. के लिए Fig 5 में अलग-अलग % भार बनाम % त्रुटि के ग्राफ को आलेखित करें।
- त्रुटि ग्राफ को अपने अनुदेशक को दिखाये तथा उनसे विद्युतीय बोर्ड के द्वारा मापी अंशांकन से सम्बंधित व्याख्या करें।

Fig 5



विधुत उपकरण जैसे -कुकिंग रेंज, गीजर, वाशिंग मशीन और पम्प सेट के विभिन्न भागों को अलग करना एंव जोड़ना(Dismantle and assemble electrical parts of various electrical appliance e.g cooking range, geyser, washing machine and pump set)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- कुकिंग रेंज गीजर वाशिंग मशीन और पम्प सेट के भागों को अलग करना
- विधुत उपकरणों के अलग किये भागों को जोड़ना
- उनके कार्य की जाँच करना
- दोष हुए भागों को बदलना एंव जहाँ आवश्यक हो नया लगाना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- इलेक्ट्रीशियन टूल किट
- स्वैनर सेट 6 से 22 mm (6 Nos)
- मैगर 500 V
- मल्टीमीटर
- टेस्ट लैम्प 60 w / 240 V
- पुल्ली पुलर 3 लेग 150 mm

उपकरण/मशीन

- कुकिंग रेंज 1500 W / 240 V
- गीजर 1500W/240 V - 15 liters

- वाशिंग मशीन साधारण या सेमी ऑटोमेटिक टाइप

- 1 No.

- पम्प सेट 1φ मोटर के साथ कपल्ड हुआ
240V/50Hz

- 1 No.

सामग्री

- सर्विस मैनुअल
- क्लीनिंग ब्रश - 2.5 cm बास
- कॉटन वेस्ट
- मिट्टी तेल
- ग्रीस

- 1 No.

- 1 No.

- आवश्यकतानुसार


- आवश्यकतानुसार

- 200 gms

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : कुकिंग रेंज को पृथक करना एंव जोड़ना


- 1 टेबल 1 में विधुत कुकिंग रेंज के नेम प्लेट विवरण को नोट करें।
- 2 कुकिंग रेंज को पावर सप्लाई से प्रथक करें।
- 3 टर्मिनल कनेक्शन बाक्स को खोला (देखें Fig 1)




- 4 सेलेक्टर स्विच इंडीकेटर लैम्प रेंज टाइमर तथा थोस्टेट के स्क्रु को ठचित कसाव ले लिये जाँच किया।

- 5 कुकिंग रेंज को बोला एंव इसके तल पर लगे हीटिंग एलीमेंट का एक-एक करके कंटीन्यूटी जाँच किया।

- 6 एलीमेट के सही आकार वॉटेज एंव वोल्टेज को चेक किया। (देखें Fig 2)




- 7 कुकिंग रेंज के नीचे लगे पार्सलेन एंड पैनल के अंत सिरे को खोला।
- 8 ऊपर के रैक्स स्थिति की जाँच किया। (Fig 1)
- 9 कुकिंग रेंज के बॉडी तथा सभी टर्मिनलों के मध्य इंसुलेशन रेजिटेंस का मान मापना।
- 10 कुकिंग रेंज के सभी भागों को जोड़ा एंव सप्लाई से जोड़ा। (Fig 3)



कार्य 2 : गीजर को खोलना तथा लगाना


- 1 एक टेबल 1 में गीजर के नेम प्लेट का वर्णन लगाना।
- 2 गीजर को सप्लाई से अलग करें।
- 3 बाहरी कवर खोलें तथा पर्मीस्टेट से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अलग करें। (देखें Fig 4)
- 4 सभी टर्मीनल के स्क्रु को बराबर कस दें। बर्मोस्टेट पाइलट लैम्प तथा हीटिंग एलीमेंट की भी जाँच करें।
- 5 पावर कार्ड पिन टर्मीनल का बाहरी जाँच करे तथा उपकरण से जोड़े।
- 6 लीड और अर्प के बीच इंसुलेशन जाँच करें। तथा अलग से तालिका में नोट करें।
- 7 एलीमेंट तथा बाढ़ी के मध्य इंसुलेशन रैजिस्टैंस का मापन करें। तथा अलग से तालिका में नोट करें।
- 8 सभी भागों को जोड़े तथा गीजर को स्लाई कनेक्ट करें।



कार्य 3 : वाशिंग मशीन को खोलना तथा फीट करना

- 1 वाशिंग मशीन का लेम प्लेट का टेबल में वर्णन करें। (Fig 5)
- 2 वाशिंग मशीन को सप्लाई से अलग करें।
- 3 टर्मीनल कनेक्शन पेनल को खोले तथा स्क्रु का बराबर टाइट करें।
- 4 वाशिंग मशीन ड्रम को मशीन से अलग करें।
- 5 इनेलेट तथा आउटलेट पाइप की जाँच करें।
- 6 आउटगोइंग वाल्व की जाँच करें।
- 7 शाफ्ट पुली तथा ड्रम बेल्ट की कसावट जाँच करें।
- 8 मैकेनिकल वाइब्रेशन को सहने वाले रवट ब्रश की जाँच करें।
- 9 मैगर की सहायता से मोटर का इंसुलेशन टेस्ट करें।

Fig 5



WASHING MACHINE

ELN2610016


10 यदि सब ठीक हैं, इसंपेक्षन कवर को बंद करें ड्रम को जगह पर रखें।

11 मशीन को कार्य करने हेतु सप्लाई से कनेक्ट करें।

कार्य 4 : पम्प सेट को लगाना और खोलना



- 1 एक टेबल में नेम प्लेट का वर्णन करें।
- 2 पम्पसेट को सप्लाई से अलग करें।
- 3 पम्पसेट को अलग करें। (Fig 6)
- 4 मोटर की शाफ्ट कार्बन सील मोटर एडाप्टर ड्राश कालट इंपीरीयल गैसकेट बेरिंग आदि की जाँच करें। (refer Fig 6)
- 5 अगर सब सही लगे तो पैपसेट को जोड़ दें।
- 6 और अंत में पम्पसेट को सप्लाई से कनेक्ट करें। ताकि वह कार्य कर सकें। (Fig 7)

Fig 7



ELN2610017

Fig 6



ELN2610016

टेबल 1

उपकरण का नाम	:	सरल सं.	:
वोल्टेज	:	धारा	:
सप्लाई	:	वाट्स	:
क्षमता	:	मेक	:
तार का इंसुलेशन	लाइन के मध्य	लाइन के मध्य/बॉडी	सर्विंग की तारीख/देखभाल
 मेगा ओह्म मेगाओह्म	
एलिमेंट की इंसुलेशन	बॉडी और टर्मिनल के मध्य/थर्मोस्टेट		रिप्लेशमेंट या मरम्मत का सुक्षाव यदि हो तो
	ठंडा		
	गरम		

बेल / बजर की देखभाल और मरम्मत (Service and repair of bell / buzzer)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- कालिंग बेल के दोष तथा उसकी मरम्मत करने हेतु जाँच करना
- बजर में दोष की जाँच कर उसकी मरम्मत करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- प्रशिक्षणार्थी औजार किट
- वायर स्ट्रीपर 150 mm
- D.E.E चाकू 100mm
- मीनी स्कू ड्रायवर सेट
- इन्सुलेटेड नोस प्लेयर 150mm
- मल्टीमीटर
- मेग्मर 500V
- नायलोन मेलेट 125 gm

उपकरण/मशीन

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • इलेक्ट्रिकल बेल -12V/24V | - 1 No. |
| • बजर - 12V/24V | - 1 No. |
| सामग्री | |
| • कनेक्टिंग वायर | - आवश्यकतानुसार |
| • इन्सुलेशन टेप 20mm P.V.C | - 1 रोल |
| • स्पेयर भाग | - आवश्यकतानुसार |

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य - 1 : विद्युत घंटी की जाँच कर उसे सुधारना

यदि घंटी कार्य नहीं कर रही है, तो घंटी परिपथ के पुश बटन से घंटी के बीच या घंटी में दोष हो सकता है ।

बटन में भागों की फिटिंग में तथा बेल परिपथ वायरिंग में दोष है क्या यह देखियें ।

i पुश बटन में दोष (Fault in push button)

1 फिक्सिंग स्कू को निकालिये तथा संयोजित वायर बिना निकाले, बटन को बाहर खींच लें ।

2 टर्मिनल में वायर ढीले तो नहीं खींच कर देख लें ।

3 दोनों वायरों के नगों (bare) तारों को साथ-साथ खींचों ।

यदि घंटी आवाज नहीं करती तब बटन में दोष है । बटन को निकालकर दूसरा बटन लगा दें ।

4 नया बटन लगाइयें ।

5 अच्छे कार्य स्थिति में हो जाँच करके देख लें ।


ii बेल या उसकी फिटिंग में दोष (Fault in bell / assembly)

1 कार्य के अनुरूप बेल को जोड़कर तथा उसकी जाँच करें ।

यदि घंटी नहीं बजती है तो बेल की फिटिंग वायरिंग या बेल ट्रॉफार्मर में खराबी होगी ।

2 घंटी का ढक्कन ऊपर खींचकर बाहर निकालें ।

Fig 1



ELN26101H

वायरों की संख्या को देखे, आवाजों की संख्या पर निर्भर करता है कि दो या दो से अधिक वायर हो सकते हैं । परन्तु मानक बेल या बजर में दो ही वायर होते हैं ।

3 टर्मिनल स्कू ढीले करके वायरों को अलग करें ।

4 बेल को 12V- के परिपथ टेस्टर या 12V के कार लेम्ब बल्ब के साथ जोड़ियें ।

यदि जाँच की गई बेल का आवाज हल्का हो तो इसका मतलब है कि दूसरी बेल लगा दी जावें ।

5 नई घंटी की स्थापना करें तथा टेस्ट करें ।

विधुत छंटी के महत्वपूर्ण भाग :

- 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट (विधुत चुम्बक)
- 2 आर्मेचर
- 3 स्प्रिंग
- 4 आर्मेचर रॉड
- 5 हैमर (हथौड़ा)
- 6 गेंग (घंटा)

कार्य 2 : बजर के दोष ढूँढ़कर उनका मरम्मत करना

1 Fig 2 के अनुसार बजर के अवयव्य को संयोजित करें।

2 स्विच को ऑन करें।

बजर जोर को आवाज देता है - यदि आवाज नहीं देती है तो इसका मतलब परिपथ बैंट्री या सोलोनॉइड क्वायल में दोष हो सकता है।

यदि सेल/बैट्री में दोष है।


3 परिपथ में अन्य सेल/ बैट्री बदलकर लगाकर जाँच करें। यदि बीप की आवाज देती है, तब बैट्री बदलकर जाँच करें।

यदि सोलोनॉइट क्वायल में दोष है।

4 नये बैट्री या सेल के साथ नये बजर को संयोजित कर परिपथ की स्विच ऑन करें।

यदि आवाज नहीं देती हैं तब कनेक्शन में दोष है या तो स्विच में दोष विद्मान है।

Fig 2



EI.N26.101H2

5 परिपथ में ढीले कनेक्शन की जाँच करें और ठीक करें।

यदि स्विच के कॉटेक्ट्स में कार्बन आ गया है तो उसे साफ करें या बदल दें।

घरेलू उपकरण जैसे - विद्युत आयरन, विद्युत केतली, कुकिंग रेंज और गीजर की सर्विसिंग और मरम्मत (Service and repair of electric iron, electric kettle, cooking range and geyser)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- आटोमेटिक विद्युत आयरन को सप्लाई लाईन से संयोजित कर उसकी कार्य प्रणलि की जाँच करना
- विद्युत आयरन को खोलना और जोड़ना
- विद्युत आयरन के दोष खोजना एंव चिह्नित करना
- दोषी भाग या को बदलकर ठीक करना
- विद्युत केतली के एलीमेंट की जाँच कर पहचान करना
- पुराने भाग के स्थान पर नया लगाना
- केटली को जोड़ने (Assemble) और उसकी कार्यविधि का परीक्षण करना
- कुकिंग रेंज के संदेहात्मक हिस्से को खोलना
- हीटिंग एलीमेंट की निररता का परीक्षण करने में
- जले हुए हीटिंग एलीमेंट और धीसे हुए सिलेक्टर स्वीट्च को बदलना
- कुकिंग रेंज को जोड़ना एंव उसकी जाँच करना
- लाइन वायर की निरंतरता जाँचनी
- गीजर को खोलना
- गीजर के दोषों को पहचानना एंव चिन्हांकित करना
- दोषी हिस्स स्थान पर नया लगाना
- गीजर को जोड़ना और जाँच करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र	सामग्री
स्कू ड्राईवर 150mm	- 1 No.
स्पैनर सेट 6 से 22mm (6 Nos)	- 1 Set
मैगर 500 V	- 1 No.
बहुमापी	- 1 No.
इलेक्ट्रीशियन टूल किट	- 1 सेट
कटिंग प्लायर 150mm	- 1 No.
टेस्टर 500 V	- 1 No.
नोस प्लायर 150 mm	- 1 No.
केटली एलीमेंट 500W/250V	- 1 No.
एस्वेस्टस शीट और फाइवर वाशर	- आवश्यकतानुसार
टेस्ट लैम्प 100W/240V	- 1 No.
कुकिंग रेंज हेतु उचित हीटिंग एलीमेंट 1500W, 250V	- 1 No.
गीजर हीटर एलीमेंट 1500W, 240V	- 1 No.
गीजर धर्मोस्टेट	- 1 No.
3- कोर फ्लेक्सिबल वायर (48/0.2 15A के साथ 3 पिन प्लग)	- 1 No.
विद्युत आयरन के लिए इंसुलेटिंग सामाग्री जैसे- एस्वेस्टस और माइका शीट	- आवश्यकतानुसार
आटोमेटिक विद्युत आयरन बॉक्स 750W 250 V	- 1 No.
केटली (चटनी के बर्तन जैस) 500W/ 250V	- 1 No.
इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज 1500W/250 V	- 1 No.
गीजर 1500W 250V 25 लीटर	- 1 No.
मैगर 500 V	- 1 No.

कार्य 1 : इलेक्ट्रिक आयरन की सर्विसिंग और मरम्मत


- 1 प्रेस के नेम प्लेट सहित पावर कार्ड तथा प्लग (plug) को देखें ।
- 2 प्रेस की प्रारम्भिक जाँच करें । जैसे
 - कॉर्ड (cord), लघु परिपथ, निरन्तरता एवं
 - प्रेस में भूमि दोष
 - प्रेस में दोष पूर्ण तन्तु परिपथ ।
- 3 यदि आवश्यक हो तो (cord) को बदल दें ।

- 4 प्रेस के टर्मिनल तथा बॉडी के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध की जांच कर टेबल - 1 एक में अंकित करें। (Fig 1)

टेबल 1

टर्मिनल्स	मान मेगा ओह्म में
L & बॉडी	
N & बॉडी	
E & बॉडी	
प्लग पिन L & बॉडी	
प्लग पिन N & बॉडी	
प्लग पिन E & बॉडी	

Fig 1



MEASUREMENT OF INSULATION RESISTANCE BETWEEN THE BODY AND THE TERMINALS

लघु एवं खुला परिपथ तथा IR के पूर्व यदि कोई इन्डीकेटर बल्ब हो तो जांच के पूर्व उसे परिपथ से अलग कर दें।

जब मेगर द्वारा प्रेस की जांच की जाती है उस समय तब प्रेस को विद्युत आपूर्ति से अलग कर दें।

- 5 न्यूट्रल संयोजक एवं अर्थ के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध की जांच करें।

- 6 प्रेस को आपूर्ति से तथा इसके कार्य की जांच करें।

- 7 सफ्लाई चेकर बॉडी एवं अर्थ के बीच वोल्टमीटर द्वारा वोल्टेज अथवा डेस्टर द्वारा जांच करें।

यदि भू सम्पर्क में दोष हो तो (In case of earth fault)

- 8 प्रेस को आपूर्ति से अलग करें। तथा प्रेस को खोल दें। बाहरी तौर पर द्वारा बायरो तथा बॉडी के बीच जांच करें।


- इन्सुलेशन खराब हो सकता है।
- भाग टूट गये हों
- थर्मोस्टेट एवं उप्पीय तन्तु की निरन्तरता की जांच करें।
- गति प्रदान करनेवाला स्विच
- थर्मोस्टेट एवं उप्पीय तन्तु की निरन्तरता की जांच करें।

- 9 खराब भागों को बदलकर सभी दोष ठीक करें जैसा कि Fig 2 (A & B)


यदि तन्तु परिपथ में खुला भाग हो तो, (In case of open in element circuit)

- 10 कवर खोलकर थर्मोस्टेट, इन्डीकेटर बल्ब तथा तन्तु परिपथ की जांच करें।

Fig 2



(A) TESTING THE THERMOSTAT FOR CONTINUITY




(B) TESTING THE HEATING ELEMENT FOR CONTINUITY

ELN26102H2

- तन्तु परिपथ केसिरिज टेस्ट लैम्प से जांच के स्थ थर्मोस्टेट यदि शार्ट है तो लैम्प तेज रोशनी देगा अर्थात् थर्मोस्टर खराब है। (Fig 3)
- इसी प्रकार सिरिज टेस्ट लैम्प द्वारा जांच करते समय टेस्ट लैम्प तेजरोशनी दे, तो इन्डीकेटर बल्ब खराब है। (Fig 3)
- इसी प्रकार element की जांच के समय लैम्प तेज रोशनी दे तब (element) खराब है। (Fig 3)

Fig 3



ELN26102H2

तापमान निश्चित नियन्त्रक का कार्य न करना (Failure of temperature setting controller)

- 11 शॉफ्ट की सही स्थिति के लिए समायोजक नाव की जांच करें। (Fig 4)


- 12 बाहरी पर थर्मोस्टेट खोले एवं उसे देखें।

- 13 संयोजकों (Contacts) को साफ करें यदि जल कर काले हो गये हों।

- 14 नियन्त्रक का वास्तविक यांत्रि कीय की जांच करें।

- 15 प्रेस को जोड़े (Assemble) तथा उसके अच्छे कार्य को परीक्षण करें।

Fig 4



कार्य 2 : केतली का हीटिंग एलिमेन्ट बदलना

1 केतली पर लगे नाम पट्टिका (name-plate) से सभी विवरण ।

नाम पट्टिका का विवरण

2 पावर कार्ड को अलग करके उसकी जाँच करो । केवल की निरन्तरता, टर्मिनल कनेक्शन तथा लाइन, न्यूट्रल तथा अर्थ वायर के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध की जांच करें ।

यदि कार्ड खराब हो तो उसे ठीक करले अथवा उसे बदल दें ।

3 केटली को खोले बिना टेस्ट लैम्प अथवा मेगर की सहायता से हीटिंग एलिमेन्ट की निरन्तरता, तथा लिकेज़ जांच करें ।

यदि एलिमेन्ट में निरन्तरता न हो तो यह माना जावे कि इसमें ओपन दोष है तथा इसे बदल दें ।

4 उपकरण सॉकेट टर्मिनल तथा केतली बॉडी के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध जांच करें ।


यदि इन्सुलेशन प्रतिरोध एक मेधा ओम्ह से कम तब एलिमेन्ट को बदल दें ।

5 निर्माता द्वारा दी गई अनुदेश किताब में दिये गये भागों को जोड़ने वाले चित्र के अनुसार केतली के भागों को क्रमानुसार अलग करें ।

6 चित्र (Fig 5) में दिखाये अनुसार केतली के भागों को अलग-अलग करें तथा उन्हें देखें ।

- बॉटम कवर (Bottom cover)
- प्रेशर प्लेट (Pressure plate)

Fig 5




- एस्वेस्टास इंसुलेशन के साथ सोल-प्लेट
- एलीमेन्ट
- 7 सही आकार बोल्टेज, बोल्टेज एवं आवश्यक माइका तथा एस्वेस्टास शीट जो कि समान प्रकार एवं समान गुणवत्ता की व्यवस्था करें ।

- एलीमेंट की continuity एवं उसकी ओहिक मान (ohmic value) की जांच करें।
- नये एलिमेन्ट को पुराने के स्थान पर लगायें।
- सही क्रम में भागों को जोड़े तथा उसके संयोजन करें।

सोल प्लेट हाइड्रिसिंग में एसबेस्टस शीट को लगाते समय ध्वनि दें कि वह खराब न हो सके।

कार्य 3 : कुकिंग रेंज की सर्विसिंग और मरम्मत

- बिजली कुकिंग रेंज के नाम-पट्ट ब्योरे नोट करें।
- उपकरण से पावर सप्लाई वियोजित करें।
- विनिर्माता द्वारा दिए संबंधन आरेख का अध्ययन करें या कुकिंग रेंज से संबंधनों का पता लगाएं। (Fig 6).



- एक करके पृष्ठ युनिट एलिमेन्ट की अविच्छिन्नता चैक करें।
- Fig 7 में दिखाए अनुसार दुध पृष्ठ युनिट एलिमेन्ट बदलें।

कुंडली बदलने से पहले एलिमेन्ट की सही आकृति, वाटेज और वोल्टता चैक करें। जो पुर्जे सदोष घोषित नहीं किए गए उन्हें खोलने का प्रयास न करें।

कार्य 4 : कुकिंग रेंज का धीसा हुआ चयन स्विच (Selector switch) बदलना।

- सदोष स्विच का ढक्कन खोलें, संबंधनों का पता लगाएं और केविलों की स्थिति और कालम दर्ज करें।
- स्विचों के संबंधन टर्मिनलों से खोलें।
- वरकस्विच के निवेश और निगर्म की अविच्छिन्नता चैक करें।
- यदि विसा-पिटा हो तो संपर्क की स्थिति की पुष्टि करें और तब उपकरण से स्विच हटाएं (Fig 8)


चयन स्विच के पूर्ण आवेशन पर पेच, वाशरें ध्यानपूर्वक लगाएं।

- पावर कार्ड कनेक्शन के पूर्व तथा बाद में उपकरण बॉडी तथा, टर्मिनल के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध की जांच करें।

पानी भरने के बाद 'स्वीच' ऑन करें।

- कार्यानुसार इसका परिक्षण करें।

Fig 7




- बिजली कुकिंग रेंज को समन्वयोजित और योजित करें।
- सब स्विचों के टर्मिनलों और विभिन्न स्थितियों में उपकरण की काय के बीच विद्युतरोधित मान मापें।

विद्युतरोध प्रतिरोध मान एक मैगाओम से अधिक होना चाहिए।

- उपकरण की कार्य हालत के लिए सप्लाई के साथ उसे चैक करें।

Fig 8



ELN2610218

कार्य 1 : जल हीटर की सेवाई

1 उपकरणों के ब्योरे टेबल 2 में दर्ज करें 1 जल हीटर का पावर प्लग वियोजित करें।

2 विद्युत टर्मिनल संबंधन और जल हीटर में तापस्थापी स्थापन के लिए Fig 9 में दिखाया निरीक्षण कवर खोलें

पावर प्लग को हटाने के पूर्व यह जांच कर लें। निश्चत हो जाएँ कि स्विच ऑफ है या नहीं।

3 नज़री निरीक्षण करें i) पावर डोरी का ii) प्लगपिन अन्तक और iii) उपकरण पर अन्तक का। ब्योरा तालिका 1 में दर्ज करें।

4 अन्तकों पर उचित कसाव और अच्छे विद्युत संपर्क के लिए चैक करें। यदि पिन गर्तयुक्त है तो बदल दें।

5 लीड्स के बीच और लीड और भू के बीच डोरी पर विद्युतरोध परीक्षण करें और परिणाम टेबल 1 में दर्ज करें।

6 एलिमेन्ट और भू/काय के बीच विद्युतरोध प्रतिरोध मापें और टेबल 1 में दर्ज करें। विद्युतरोध-प्रतिरोध का न्यूनतम मान एक मेगओम होना चाहिए। यदि यह 1 मेगओम से कम है तो जलहीटर को मरम्मत और दृष्टिकरण के लिए भेजें।

7 सप्लाई के साथ जल हीटर जोड़ें और वैद्युत संबंधनों के निरीक्षण/ तल आवरण को खुला रखते हुए उपकरण को आन करें।


जल कर्टेनर में पानी हो तो तब ही जल हीटर चालू करें।

8 देखें कि क्या तापस्थायी के संचालन द्वारा तापन प्रक्रम काटा हुआ है। (जल-हीटर की क्षमता और तापस्थापी अवस्थापन पर समय निर्भर होता है।)


9 सप्लाई बन्द करें। प्लग हटाएं। जब तप्त हो तो प्लग टर्मिनलों और हीटर की काय के बीच विद्युतरोध-प्रतिरोध मान मापें और टेबल 1 में दर्ज करें।

10 यदि विद्युतरोधन मान 1.0 मेगओम से कम है तो तापस्थापी (Thermostat) यूनिट बदल दें।

Fig 9



(a) GEYSER



(b) SCHEMATIC DIAGRAM OF A GEYSER

ELN2610219

11 निरीक्षण ढक्कन को पुनः लगाएं। यदि विद्युतरोधन मान सामान्य है (1 मेगओम से ऊपर है) तो निरीक्षण ढक्कन लगाने से पहले पेचों पर ग्रीज लगाएं।

टेबल 2

उपकरण के नाम : वोल्टता : सप्लाई : क्षमता :	क्रम सं : धारा : वाटेज : मेक :		
डोरी विद्युत रोधन	लाइनों के बीच मेगाओह्म	लाइन और काय के बीच मेगाओह्म	सेवाई की तारिख
एलीमेंट इंसुलेशन	टर्मिनल और काय के बीच बॉडी / थर्मोस्टेट		मरम्मत/किए बदलाव का विवरण
	ठंडा		
	गरम		

शिकायतों

उपभोक्ता की शिकायत सुनें और नोट करें। और दोष की प्रकृति की निम्नानुसार निर्धारित करें।

दोष का स्वरूप (Nature of fault)

1 गरम पानी नहीं (No hot water) : दत्त अनुक्रम में निम्नलिखित कारणों के लिए चैक करें।

- a) कोई पावर नहीं
- b) सदोष तापस्थापी
- c) तापस्थापी अंश
- d) सदोष हीटर एलिमेन्ट

i) कोई पावर नहीं (No power)

परिपथ का प्ल्यूज चैक करें और यदि उड़ा हुआ है तो बदल दें।

टेस्ट लैम्प का प्रयोग करते हुए साकेट निगर्म पर पावर की उपलब्धता चैक करें।

डोरी की अविच्छिन्नता चैक करने के लिए निरीक्षण ढक्कन खोलें। यदि ज़रूरी हो डोरी बदल दें।

सप्लाई बन्द करें और ढक्कन खोलनें से पहले प्लग हटाएं।

ii) सदोष तापस्थापी (Defective thermostat) : विभिन्न अवस्थापनों पर टर्मिनलों के बीच अविच्छिन्नता के लिए तापस्थापी चैक करें।

सदोष तापस्थापी को बदल दें। तापस्थापी के टर्मिनलों के बीच अविच्छिन्नता न होने से इसके सदोष होने का संकेत मिलता है।

iii) Thermostat cut off calibration : तापस्थापी को उच्च अवस्थापन के लिए समायोजित करें। यदि तापस्थापी ठीक पाया जाता है तो सप्लाई चालू करें और ताप देखें।

iv) सदोष एलिमेन्ट (Defective element) : एलिमेन्ट की अविच्छिन्नता और एलीमेन्ट की काम और टर्मिनल के बीच विद्युरोधन मान के लिए जांच करें।

सदोष हीटिंग एलीमेन्ट को अच्छे एलिमेन्ट में बदलें। सप्लाई चालू करें और देखें।

2 पानी अत्यधिक गरम (Water too hot)

निम्नलिखित कारणों के लिए चैक करें।

- a) तापस्थापी सेट बहुत ऊंचा है
- b) सदोष तापस्थापी

i) तापस्थापी का अवस्थापन चैक करें और इसे निम्नतर मान पर समायोजित करें। जलहीटर चालू करें। जब सामान्य समय के भीतर जल अपेक्षित तापमान प्राप्त करता है तो तापस्थापी के सप्लाई काटनें की प्रतीक्षा करें। पानी तापमान चैक करने के लिए अन्तर्गम खोलें। निकास पानी एकत्र करें और गरम जल तापमान मारें।

ii) यदि तापस्थापी के सेट मान से जल तापमान बहुत ऊंचा है, तो तापस्थापी को बदल दें। यदि गरम पानी का तापमान तापस्थापी की रेज सैटिंग के पास है तो यह बताता है कि सदोष सैटिंग ही एकमात्र कारण है।

3 पानी पर्याप्त गरम न हो (Water not hot enough)

निम्नलिखित कारणों के लिए चैक करें।

- a) तापस्थापी सेट बहुत नीचे हैं
- b) गलत हीटर एलिमेन्ट
- c) टंकी में अत्यधिक तलछट है

- i) तापस्थापी अवस्थापन करें और उच्चतर मान पर इसे समायोजित करें। यदि रीसैटिंग के साथ जल हीटर गरम पानी देता है तब पहला अवस्थापन शुल्त था।
- ii) हीटिंग की वाटेज टेस्ट करें। यदि यह निम्नतर मान दिखाती है, तो इसे उच्चतर वाटेज एलिमेन्ट से बदल दें (ऐसा होता है जब किसी अन्य द्वारा जल हीटर पहले मरम्मत किया गया है)
- iii) हीटिंग एलिमेन्ट हटाए। एलिमेन्ट का और ताम्र पात्र के भीतरी भाग का निरीक्षण करें कि अत्याधिक चूना लेपन तो

नहीं है। यदि आप सुनिश्चित करते हैं कि हीटिंग एलिमेन्ट सही वाटेज का है और तापस्थापी सही सेट है तो चूना लेपन (तलच्छट रचना) ही पानी के कम तापमान का एकमात्र कारण है।

एलिमेन्ट हटाने से पहले जलहीटर के कन्टेनर से पानी पूरी तरह निकाल दें।

— — — — —

इंडक्शन हीटर और ओवन की सर्विसिंग एंव मरम्मत करना (Service and repair of induction heater and oven)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- इंडक्शन हीटर को खोलना और इसके दोषों का पहचानना या दर्शाना
- दोषयुक्त भाग को नये भाग से बदलना
- ओवन को खोलना और दोष को पहचानना या दर्शाना
- दोषयुक्त भाग को नये भाग से बदलना
- इंडक्शन हीटर और ओवन को जोड़ना और इसके कार्य की जाँच करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्जार/मापीयंत्र

- इलेक्ट्रिशियन टूल किट
- पेंचकस 250 mm
- संयोजन पेंचकस 150mm
- इलेक्ट्रिशियन चाकू 150 mm
- धात्विक ब्रश
- सोल्डरिंग आयरन 60W, 230V
- टाइल कटर
- मल्टीमीटर

औज्जार/उपकरण

- | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| - 1 Set | • इंडक्शन हीटर 1 kW, 250V | - 1 No. |
| - 1 No. | • इलेक्ट्रिक ओवन 1 kW, 250V | - 1 No. |
| सामग्री | | |
| - 1 No. | • काटन वेस्ट | - आवश्यकतानुसार |
| - 1 No. | • थिनर | - आवश्यकतानुसार |
| - 1 No. | • रेजिन युक्त सोल्डर | - आवश्यकतानुसार |

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : इंडक्शन हीटर की सेवा और मरम्मत करना

1 इंडक्शन हीटर का नेम प्लेट विवरण पढ़े और सारणी में नोट करें।

नेम प्लेट विवरण	
क्र. सं. _____	पावर _____ KW
मेक _____	1φ / 3φ
वोल्टेज _____ V	
धारा _____ A	

2 इंडक्शन हीटर को सप्लाई से अलग करें।

3 पावर सप्लाई तार के निरंतरता (continuity) की जाँच करें।

यदि खराब पाया जाए तो पावर सप्लाई तार को बदल दें।

4 इंडक्शन हीटर को खोलें।


5 PCB और अन्य भागों की सफाई करें।

6 देखकर जाँच करने तथा समस्या निराकरण के लिए मैं बोर्ड को निकालें।

7 जाँच करें कि PCB वर्णिश से ढका हुआ है।

8 थिनर लगाकर धात्विक ब्रश से रगड़े और चाकू से खुरचकर सोल्डर के सूखे हुए विंडुओं को निकालें। (Fig 1)

Fig 1



DRY SOLDERING

9 सभी बिंदुओं को पुनः सोल्डर (नया सोल्डरिंग) करें।

10 जाँच करें कि क्या PCB (Fig 2) को कोई कैपेसीटर फटा हुआ है। यदि ऐसा है तो टाइल कटर की सहायता से इसे निकाल लें (Fig 4)

Fig 2




Fig 3



11 PCB पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसीटर की जाँच करें और यदि इसका बाहर आ गया हो तो दसे नये कैपेसीटर से बदल दें।

12 नियंत्रण बोर्ड के स्विच को दबायें और यदि ये प्रतिरोध दर्शाते हैं तो यह ठीक से संपर्क नहीं होने की स्थिति को दर्शाता है

13 इस प्रकार के सभी स्विचों को बदल दें।

यदि नये स्विच की लंबाई बोर्ड पर लगे स्विच से थोड़ा सा बड़ा हो तो टाइल कटर की सहायता से काटकर ठीक करें।

14 खराब स्विच नीचे चित्र में दिखाया गया है। (Fig 5)

15 कार्य पूर्ण कर PCB और अन्य भागों को कैबीनेट में लगायें। (Fig 3 & Fig 6) ये चित्र इसके अवयवों और इंडक्शन हीटर पकाने वाले भाग को दिखाता है।

16 उपकरण को इसकी कार्य स्थिति देखने के लिए सप्लाई दें।

Fig 4




Fig 5





Fig 6




कार्य 2 : ओवन की सर्विसिंग और मरम्मत करना

1 ओवन का माडल नम्बर और इसके अवयवी भागों के नम्बर की पहचान करना।


नए अवयवों का पैकेज निर्माता द्वारा माडल नम्बर के अनुसार सूची बद्ध में रहता है जिसे बदला जाता है। (Fig 8b)

Fig 7



- 2 ओवन के ब्रेकट बाक्स का सप्लाई आफ करें और ओवन को निकालें।
- 3 एलीमेंट को सुरक्षित करने वाले स्क्रू को निकालें।
- 4 एलीमेंट को ओवन के पिछली दीवार से 10 से 12.5 cm दूर खीचें। (Fig 7)
- 5 एलीमेंट के तारों को पकड़ने वाले स्क्रू को निकालें।
- 6 नया एलीमेंट को स्थापित करें और तारों को जोड़ें जैसे कि पूर्व में था।
- 7 एलीमेंट को ओवन के विछले दीवार में सुरक्षित रखें। (Fig 8a) एलीमेंट को दिखाता है।
- 8 ओवन के पिछले भाग को जोड़ें और ब्रेकर बाक्स को पुनः स्थिति पर लायें।
- 9 ओवन को सप्लाई पर इसके कार्य के लिए जाँच करें।

Fig 8



जब नया एलीमेंट गर्म होता है तो थोड़ा सा धुआँ हो सकता है जो कि उस पर फैक्ट्री में किए गए कोटिंग के जलने के कारण होता है।

मिश्रक तथा ग्राइन्डर की सर्विस तथा मरम्मत करना (Service and repair of mixer and grinder)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- दिए गए मिश्रक का विवरण पढ़ना तथा उसकी व्याख्या करना
- नेत्र जाँच तथा परीक्षणों द्वारा मिश्रक में समस्या के क्षेत्र को पहचानना
- मिश्रक को खोलना
- मिश्रक में दोष का पता लगाना, पहचानना तथा उसका स्थान निर्धारण करना
- दोषयुक्त पुर्जों को बदलना
- बैयरिंगों को साफ तथा स्नेहित करना
- खाद्य मिश्रक को संयोजित करना तथा उसके कार्य का परीक्षण करना
- वेट ग्राइन्डर का आंकड़ा पढ़ना तथा व्याख्या करना
- लाईन डोरी की अविच्छिन्नता का परीक्षण करना
- टर्मिनलों के बीच रोधन प्रतिरोध को मापना
- वेट ग्राइन्डर में दोषों को अनुरेखित करना पहचानना तथा पता लगाना
- दोषयुक्त भागों को नये भागों से बदलना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र	उपकरण/मशीन
• Electrician Tool kit	- 1 Set
• परीक्षण लैंप 100 W, 240 V	- 1 No.
• D.E. स्पैनर छ: का सेट, 6mm से 22mm	- 1 Set
• जार पेंच खोलने के लिए प्लास्टिक स्पैनर	- 1 No.
• 6 mm से 22mm का बाक्स स्पैनर सैट	- 1 No.
• बहुमापी	- 1 No.
• मेगर 500 V	- 1 No.
• फिलिप्स पेंचकस 4 मिमी ब्लेड ब्यास	- 1 No.
• पुल्ली पुलर 3 पाद (leg) 200 mm	- 1 No.
सामग्री	
• ग्रीज / स्नेहक तेल	
• मिट्टी का तेल	
• सफाई ब्रश	
• रेगमाल नरम	
• सोल्डरन सीसा, 60:40, सोल्डरन फ्लक्स	
• सोल्डरन सीसा, 60:40, सोल्डरन फ्लक्स (यदि उपलब्ध हो तो)	
- 1 No. - 1 No.	
- आवश्यकतानुसार - आवश्यकतानुसार - 1 No. - आवश्यकतानुसार - आवश्यकतानुसार - आवश्यकतानुसार - आवश्यकतानुसार - आवश्यकतानुसार - आवश्यकतानुसार - 1 No.	

प्रक्रिया (PROCEDURE)**कार्य 1 : मिश्रक की सर्विस करना (Service a mixer)**

- 1 अनुरक्षण कार्ड में नाम पट्टी विवरणों को दर्ज करें। (टेबल 1)
- 2 अनुरक्षण कार्ड में ग्राहक से शिकायत का विवरण दर्ज करें।
- 3 मिश्रक की कुंजी को 'आन' करें और इसके कार्य की जाँच करें।
- 4 आपूर्ति से मिश्रक को वियोजित करें।
- 5 तल आवरण को खोले तथा निम्नलिखित के लिए दृष्टीय निरीक्षण करें :

- आपूर्ति डोरी में क्षतियों तथा ढीले टर्मिनल सम्बंधन

- कुंजीयों की अच्छी स्थिति

- मोटर का उचित आरोहण

जाँच करें कि क्या जार तथा मोटर के नायलान/रवर युग्मन अचित रूप से बैठे हैं, यदि नहीं तो पुनः बदलें।

कभी-कभी धारक स्लिंग तथा वाशर खराब हो सकते हैं तथा उन्हे बदलने की आवश्यकता हो सकती है ।

टेबल 1

अनुरक्षण कार्ड


ग्राहक का नाम _____	पता _____		
उपकरण का नाम _____	क्रम सं _____		
वॉटता _____	धारा _____		
आपूर्ति _____	चाप _____		
सर्विस दिनांक	उपभोक्ता की शिकायत	दृष्टीय निरीक्षण से देखे गये दोष	मरम्मत तथा बदलाव का विवरण

विवरणों को अनुरक्षण कार्ड में दर्ज करें। (टेबल 1)

6 मोटर का विद्युतरोधन परीक्षण करें तथा अनुरक्षण कार्ड में दर्ज करें।

(टेबल 2) मिश्रक परिषय का योजनाबद्ध आरेख Fig 1 में दिया गया है।

Fig 1



विद्युतरोधन प्रतिरोध के मान को एक मेगा ओह्म से कम नहीं होना चाहिये।

7 यदि विद्युतरोधन मान 1 मेगा ओह्म से कम हो तो, तापन या वार्निंग द्वारा विद्युतरोधन मान में सुधार करें, तथा परीक्षण परिणाम को अनुरक्षण कार्ड में दर्ज करें। (टेबल 2)

8 यदि वार्निंग के लिए मोटर को खोली जाती है तो स्टैटर, आर्मेंचर तथा ब्रुश बेयरिंग को पूर्ण रूप से साफ करें। (Fig 2)


9 वार्निंग के बाद विद्युतरोधन परीक्षण करें तथा परिणामों को अनुरक्षण कार्ड में दर्ज करें। (टेबल 2)

याद रखें कि अधिकांश मिश्रकों में ब्लेडों के नट तथा केन्द्र शॉफ्ट धारक नटों का दक्षिणावर्त गति से ढ़ीला करना तथा वामावर्त गति से करना है।

10 समुच्चय के पूर्व निर्माता की संतुति के अनुसार बेयरिंग को स्नेहित करें।

अधिकांश बेयरिंग को स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि अपेक्षित हो तो 3 में 1 तेल जैसे हल्के तेल की एक बूंद डाली जा सकती है।

Fig 2



11 दिक्परिवर्तक पृष्ठ साफ को करें। काला कार्बन निक्षेप को CTC द्वारा हटाया जा सकता है। दिक्परिवर्तक के ऊपर ब्रुशों को उचित रूप से बैठायें। स्थिंग दाब सहन करने के लिए ब्रुशों की पर्याप्त लम्बाई की जाँच करें।

यदि ब्रुश लम्बाई अपनी मूल लम्बाई के 1/3 से कम है तो अच्छा होगा कि उसी ग्रेड और आमाप के ब्रुश से उसे बदला जाए। नए ब्रुश को दिक्परिवर्तक में उचित रूप से बैठाया जाना चाहिए।

12 मोटर को समुच्चय करें तथा टर्मिनल पेंचों को कस दें।

13 तल पर जार तथा नायलॉन युग्मक के साथ ब्लेड को समुच्चय करें।

14 मोटर को आपूर्ति के साथ जोड़े तथा मिश्रक को चालू करें।

15 मसृण (smooth) चालन के लिए मिश्रक के कार्य का अवलोकन करें।

टेबल 2

सेवाई का दिनांक	वार्निंग / तापन के पूर्व विद्युत रोधन प्रतिरोध		वार्निंग / तापन के बाद विद्युतरोधन प्रतिरोध		मरम्मत तथा बदलाव के लिए विवरण
	टर्मिनलों के बीच	आर्मेचर तथा क्षेत्र के बीच	टर्मिनल तथा काय के बीच	आर्मेचर तथा क्षेत्र के बीच	

— — — — —

कार्य 2 : मिश्रक की मरम्मत करना

1 ग्राहक / उपभोक्ता की शिकायते सुने तथा अनुरक्षण कार्ड (टेबल 1) में दर्ज करें।

आम शिकायतों का विवरण दोपनिवारण चार्ट में संभावित कारण तथा की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाई के साथ दिया गया है।

— — — — —

कार्य 3 : ग्राईन्डर की सर्विस

1 चक्की की कुंजी को ऑन करें तथा इसके कार्य करने की जांच करें।

2 चक्की को आपूर्ति से पृथक करें।

3 निरीक्षण आवरण को खोलें। नाम-पट्टी विवरण को टेबल 3 में नोट करें।

टेबल 3

उपकरण का नाम _____	r.p.m _____
क्रं. सं. _____	वोल्ट _____
क्षमता H.P _____	धारा _____
कला _____	आवृत्ति _____


4 दृष्टिय निरीक्षण करें :

- आपूर्ति डोरी के लिए
- कुंजियों की अच्छी स्थिति के लिए
- मोटर तथा चालन संरेखण के उचित आरोहण के लिए। (Fig 3)

5 मोटर का रोधन परीक्षण करें तथा टेबल 4 में अभिलेखित करें। यदि रोधन का मान 1 मेगा ओह्म से अधिक हो तो चक्की को ऑन करें तथा उसके कार्य का प्रेक्षण करें।

6 यदि रोधन प्रतिरोध, 0.5 मेगा ओह्म से कम हो तो, तापन या वार्निंग से रोधन मान को सुधारें, यदि मोटर वार्निंश करने के लिए खुली हो।

Fig 3



EL-N26104-H3

टेबल 4

रोधन प्रतिरोध	टर्मिनलों तथा काय के बीच	लपेटन के बीच
सर्विस का दिनांक		
अनुशंसित सुधार		
यदि कुछ बदला गया हो तो		

7 मोटर तथा चक्की की वियरिंग की पूर्ण सफाई करें।

8 समुच्चय के पूर्व, निर्माता द्वारा अनुशंसित अनुसार वियरिंग को स्लेहित करें।

9 मोटर का समुच्चय करें तथा टर्मिनल पैंचों, पुल्ली पैंचों, फ्लाई व्हील नट, मोटर को स्थिर करने वाले बोल्ट इत्यादि को करें। (बेल्ट के तनाव को समायोजित करने के पश्चात्)

10 मोटर को आपूर्ति से सम्बंधन करें तथा चक्की (ग्राइन्डर) को चालू करें। मोटर के कार्य करने तथा चक्की के सुगमता से चलने के लिए प्रेक्षण करें।


कार्य 4 : ग्राइन्डर की सुधार करना

- 1 ग्राहक / उपभोक्ता की शिकायते सुने जो निम्नलिखित हो सकती है :
 - i) चक्की काम नहीं करती
 - ii) चालू नहीं होता लेकिन हाथ से चलाने पर किसी भी दिशा में चलती है।
 - iii) चालू होता है लेकिन शीघ्र गर्म हो जाता है।
 - iv) गति में कमी, मोटर बहुत तत्प होती है।
 - v) चक्की शोर करती है।
 - vi) चक्की झटका देती है।

ग्राइन्डर का कार्य न करना

जाँच करें कि क्या लाइन में सम्बंधन खुला है। यदि प्रेक्षण होता है तो दोष को सुधारें।

मोटर लपेटन में किसी भी खुला परिपथ के लिए जाँच करें। (प्रवर्तन तथा चालित लपेटन) यदि खुला परिपथ हो तो उसे सुधार के लिए भेजें। (Fig 4)



बेल्ट के कसाव की जाँच करें। निर्माता की अनुशंसा के अनुसार बेल्ट को उचित तनाव के लिए जाँच करें। (Fig 3)

जाँच करें कि क्या वह कसी हुई बेल्ट वियरिंग के कारण है। शॉफ्ट को हाथ से धुमाते हुए परीक्षण करें। यदि स्नेहक मदद नहीं करता हो तो वियरिंग को प्रतिस्थापित करें।


आरंभ होने में विफल लेकिन हाथ से आरंभ करने पर किसी भी दिशा में चलती है।

अपकेन्द्रीय कुंजी के संपर्क की जाँच करें। यदि अपकेन्द्रीय कुंजी का संपर्क बंद न हो तो, उसे सुधारें या उसे प्रतिस्थापित करें। (Fig 5)

संधारित्र की जाँच करें, यदि वह दोषयुक्त हो तो उसे प्रतिस्थापित करें।

चालू होता है लेकिन शीघ्र गर्म हो जाता है।

Fig 5



THE CENTRIFUGAL SPEED-CONTROL MECHANISM USED ON SOME ELECTRIC MOTORS.

ELN2010415

अपकेन्द्रीय कुंजी की जाँच करें। यदि वह खुल न रही हो तो, सुधारे या बदलें।

गति में कमी - मोटर अधिक गर्म हो जाती है।

लपेटन को लघुपथित तथा भू संपर्कन के लिए जाँच करें।

वियरिंग को यह जानने के लिए जाँच करें कि क्या वह चिपचिपा है।

यदि दोषयुक्त पाया जाता है तो, सुधारे या बदलें।

ग्राइन्डर शोर करता है (Grinder is noisy)

घिसी हुई वियरिंग के लिए जाँच करें वियरिंग को प्रतिस्थापित करें तथा शॉफ्ट को अवक्षारण (scoring) के लिए निरीक्षण करें।

सिरे अंतराल की जाँच करें, यदि अंतराल बहुत अधिक हो तो अतिरिक्त निवारण वाशर को जोड़।

ढीले भागों की जाँच करें। (अर्थात् ढीले धारक डाउन बोल्ट, ढीला पंखा, पुल्ली इत्यादि) उन्हें कसें।

जाँच करें कि क्या असंरेखण है। पुल्ली को ठीक तरह से संरखित करें। (Fig 3)

बेल्ट की जाँच करें। यदि वह घिसा हुआ हो तो उसे बदलें। (Fig 3)

मोटर के शाफ्ट की जाँच करें। यदि वह मुड़ा हुआ पाया जाता है तो प्रतिस्थापित करें या मोटर को सुधारने के लिए भेजें।

ग्राइन्डर झटका देता है (Grinder gives shock)


निरीक्षण आवरण को खोले तथा धात्विक काय के साथ किसी भी लाइन संपर्क की जाँच करें। उचित भू संपर्कन को भी सुनिश्चित करें।

आकस्मिक संपर्क को सुधारें, यदि कोई हो तो तथा उसे उचित रूप से रोधित करें।

कार्य 5 : AC छित के पंखे की देखभाल

- 1 फेन का स्वीच ऑन करो तथा रेगुलेटर की विभिन्न स्थिति पर स्मृथ कार्य के लिए उसकी जाँच करो ।
- 2 फेन को विद्युत आपूर्ति से अलग करो
 - परिपथ कट आउट को निकालकर
 - मेन स्वीच ऑफ करके तथा फ्लूज यूनिट निकालकर
- 3 बाहर से निरीक्षण करे
 - स्वीच की अच्छी स्थिति के लिए
 - रेगुलेटर की उपयुक्त माउंटिंग तथा नॉब की फिटिंग के लिए ।
- 4 स्वीच कवर को खोलो हेयर ब्रश के उपयोग से अंदर लगी धूल को हटाओ ।
- 5 टर्मिनेशन के दृढ़ता की जाँच करो । रेगुलेटर को खोलो तथा ब्रश से उसके अंदर की सफाई करो । Fig 6 के अनुसार कॉटकट टर्मिनेशन की जाँच करो तथा समायोजित करो ।


Fig 6



ELN26104-16

- 6 रेगुलेटर के आउटगोइंग टर्मिनल के बीच इंसूलेशन रजिस्टेंस को मापो । तालिका 1 में (Fig 7) के अनुसार मापे गये मान को लिखो ।


Fig 7



ELN26104-17


- 7 सिलिंग फेन को उसके स्थान पर लगाने के लिए सीढ़ी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था करो । (सीढ़ी, टेबल इत्यादि का उपयोग करते समय सुरक्षा अतिआवश्यक है । जैसा कि (Fig 8) में दिखाया गया है ।
- 8 यदि कोई बाहर से दिखने वाला चिन्ह फेन पर हो तथा नाम पट्टीका में दिए गये सभी विवरण टेबल 5 में भरे जावें ।
- 9 सक्सेशन में फेन ब्लेड को अलग करो । तथा फेन के बॉडी में स्कू व स्प्रिंग वाशर को उनके स्थान में पुनः फिट करें ।
- 10 सफाई तथा निरीक्षण के लिए ऊपर तथा नीचे की कैनेपिज को खिसकाओ । जैसे कि (Fig 9) में दिखाया गया है ।

Fig 8



ELN26104-18


Fig 9



ELN26104-19

- 11 सर्पोंटिंग हुक, ग्रोमेट, सेकल सर्पोंटिंग सिस्टम, स्पिलिट पीन आदि का निरीक्षण करो ।
- 12 काटर पीन, चेक नेट और केपेसीटर के कनेक्शन फेन लीड कनेक्टर का निरीक्षण करें (Fig 10) में दिखाये अनुसार ब्रश से धूल की सफाई करें ।

Fig 10



ELN26104-1A

- 13 पहले एक सूखे कपड़े से, बाद में गीले कपड़े से पंखे की सफाई करो ।
- कैनेपि हटाने के बाद निरीक्षण के दौरान यदि कोई अतिरिक्त नमी या पानी हो तो रॉड सहित पंखे को नीचे लाकर उसकी इंसूलेशन रजिस्टेंस की जाँच करें ।
- 14 यदि नमी के कारण इंसूलेशन कमजोर हो तो 500W या 1000W या ओवन द्वारा बॉडी को अतिरिक्त गरम करके सुखाओ ।
- 15 ब्लेड की पूरी सफाई करो तथा उसे पुनः लगाओ । ब्लेड फिक्सिंग के समय स्कू पर ग्रीस/ऑयल का उपयोग करो ।
- 16 फेन सर्किट को सप्लाई देने के बाद पंखे के स्मृत कार्य के लिए उसका परीक्षण करो ।
- 17 आपके द्वारा देखें गये बिंदुओं को टेबल 6 में सूचिबद्ध करो ।

टेबल 5

उपकरण का नाम	
सरल क्रमांक	वोल्टेज
स्वीप	मेक
सप्लाई	करंट/धारा
वाट्स	विशेष चिह्नांकन
बॉडी और टर्मिनल्स के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध	मेगाओह्म
देखभाल/सेवाई की तारीख	
मरम्मत की सुझाव/ रिप्लेसमेंट यदि कोई हो तो	

टेबल 6

क्र.सं.	निरक्षण करने योग्य विन्तु	परिस्थिति	
		सामान्य	असामान्य
1	गति		
2	आवाज़		
3	ऊष्णता (10 मिनट चलने पर)		
4	कंपन		
5	सभी स्थितियों में रेगुलेटर के कार्य		

— — — — —

कार्य 6 : छत पंखे की मरम्मत

उपयोगकर्ता द्वारा शिक्षयत हो सकती है -

- पंखा नहीं चल रहा है ।
- पंखा आवाज कर रहा है ।
- पंखे का हिलना ।
- पंखा चलते समय गर्म हो रहा है ।

पंखा नहीं चल रहा है (Fan is not running)

- 1 संवंधित शाखा परिपथ के फ्यूज की जाँच करो । तथा फेन सर्किट में आपूर्ति उपलब्ध है या नहीं सुनिश्चित करो ।
- 2 रेगुलेटर से फेन तक आउटगोइंग लीड में आपूर्ति की जाँच करो ।

यदि स्वीच या रेगुलेटर में दोष पाया जाता है तो उसे सुधारें या बदल दें तथा हाथ से घुमाकर यह सुनिश्चित करें कि पंखे की रोटेशन सही है या नहीं ।

- 3 पंखे टर्मिनलों पर आपूर्ति की जाँच करो । (या तो सिलिंग रोज पर या पंखे टर्मिनल पर)
- 4 तत्काल जाँच के लिए अस्थाई कनेक्शन करो यदि सिलिंग रोज पर आपूर्ति नहीं है ।

5 यदि पंख स्थिर हो तब स्वीच ऑफ करने के बाद कैपेसिटर में लूज कनेक्शन की जाँच करो ।

6 आपूर्ति का स्विच चालू करो ।

7 यदि पंखा नहीं चल रहा हो तो एक अच्छा कैपेसिटर से बदल दो ।

8 यदि कैपेसिटर बदलने के बाद पंख नहीं चल रहा हो तो पंखे को नीचे ले आए । यदि आवश्यक हो तो वाइंडिंग की जाँच करो तथा उसे ठीक करने के लिए आवश्यक सुधार करो ।

पंखा आवाज कर रहा हो (Fan is noisy)

1 उपयोगकर्ता से पंखे की पूर्व जानकारी व आवाज के लिए उसके स्वभाव की जानकारी प्राप्त करे ।

2 मोटर को चलाओ तथा उसकी आवाज का अवलोकन करो ।


3 पहचान करो कि क्या नि. लि. आवाज में से एक के कारण आवाज है अथवा मिलीजुली आवाज है । (भागों को Fig 11 में दिखाया गया है)

a स्लेक कैनोपी का बॉडी को छूना

b सेकल का घिसना या आंशिक रूप से घिस जाना

c पंखे के ब्लेडों का ढीला होना

Fig 11



- d स्कू का खो जाना या ढीला हो जाना
- e कैपेसिटर हाउसिंग का ढीला होना
- f ऊपर तथा नीचे की स्लीट पीन का धीसना या टूट जाना
- g लूब्रिकेशन की कमी या बेयरिंग का सूखा जाना
- h ब्लेडों का टेढ़ा होना व्या टूट जाना
- i ब्लेडों का टेढ़ा होना व्या टूट जाना
- j ब्लेड का एलाइंमेंट (संरेखण)

पंखे का हिलना (Fan wobbles excessively)

- 1 मोटर हब से फेन ब्लेड फ्लैंग स्टैच स्कू अच्छे तरह से टाइट है या नहीं ये सुनिश्चित करें।
- 2 जाँच करो और यह सुनिश्चित करो कि फेन ब्लेड फ्लैंग सीट मोटर हब से दृढ़ता से एवं समान रूप से अटैच है या नहीं।
यदि फ्लैंगस सही तरह से नहीं लगा है तो फ्लैंग स्कू को थोड़ा ढीला करके पुनः टाइट करें।
- 3 हैंगर बास्केट स्कू को जंक्शन बॉक्स सेक्योर हुक से टाइट करो।
- 4 पास-पास की ब्लेडों को आपस में बदलें।
यदि फेन ब्लेड संतुलन से बाहर हो तो, सही कार्य के लिए भार को पुनः वितरण करें।

पंखे चलते समय गर्म हो रहा हो (Motor runs hot)

- 1 वाइंडिंग में आंशिक लघु परिपथ की जाँच करो। यदि खराब है तो पुनः वाइंडिंग के लिए भेज दो।
- 2 बेयरिंग टाइट होने की जाँच करो यदि खराब हो तो अच्छा बेयरिंग लाकर बदल दो।

उपरोक्त विधि को 3 अलग-अलग निर्माता के उत्पादों के लिए अपनाएँ।

कार्य 7 : पंखे को स्थापित करना (Installation of ceiling fan)

- 1 डाउन रॉड के लम्बाई इस प्रकार के चयन करो कि पंखे के ब्लेड फर्श से 2.4 से 2.7 m मीटर से अधिक रो।


एक पंखे की ब्लेड दूसरे पंखे के ब्लेड से मिक्स ना करें।

- 2 डाउन रॉड से कैनोपिस को एक के बाद एक डालो तथा उसमें कनेक्शन वायर डालो। जैसे कि (Fig 11) में बताया गया है।
- 3 स्पाइडल पर डाउन रॉड को डालो तथा बोल्ट और नट के साथ अलग-अलग टाइट करो। जैसा कि (Fig 11) में दिखाया गया है।
- 4 हैंगर असेम्बली से नट बोल्ट को हटाओ। जैसा कि (Fig 12) में दिखाया गया है।
- 5 हैंगर क्लेम्स में डाउन रॉड के ऊपरी सिरे को डालो तथा नट बोल्ट से टाइट करो।

फेन को गिरने से बचाने के लिए डॉउन रॉड के दोनों छोर पर स्लीट पीन व कॉटर पीन लगाए।

- 6 निर्माता के निर्देशानुसार टर्मिनल ब्लॉक से वायरों को जोड़ें।
- 7 हैंगर क्लेम्स फिटिंग में रबर सेकल के साथ नट बोल्ट को पुनः फीट करें।
- 8 Fig 13 में दिखाए अनुसार पाइप या रॉड को सेकल से लटकाओ।

Fig 12




- 9 सही दिशा में स्थथ रनिंग के लिए पंखे को निर्धारित आपूर्ति से जोड़ो।

- 10 फेन को सीलिंग हुक/सपोर्टिंग हुक में लगाओ।

सुनिश्चित करें कि बोल्ट तथा बेंट या लॉक नट में स्लीट पीन लगा है या नहीं।

- 11 सिलिंग रोज से वायर को जोड़ो। स्पाइडल टर्मिनल ब्लॉक तथा कैपेसिटर के लिए नीचे की कैनोपी तथा ऊपर के हुक को कवर करने के लिए ऊपर की कैनोपी को खीस़द़ा कर टाइट करें।

Fig 13



यह सुनिश्चित करें की कैनोपी पर्याप्त दूरी पर लगी है ।

- 12 सुनिश्चित करो की दोनों कैनोपी पर्याप्त दूरी पर लगी है ।
- 13 सीलिंग रोज तथा फेन स्वीच के बीच रेगुलेटर को फीट करो तथा जोड़ो ।
- 14 आपूर्ति से जोड़कर पंखे के कार्य का परीक्षण करो ।
- 15 इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर के द्वारा फेन की स्पीड को कम ज्यादा कर के देखें ।

यदि इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में दोष/खराबी पाई जाती है तो इसे सुधारने के बजाय इसे नये रेगुलेटर से बदल दें ।

कपड़े धोने की मशीन की सर्विस तथा मरम्मत (Service and repair of washing machine)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- कपड़ा धोने की मशीन के नाम-पट्टी विवरणों को अभिलेखित करना
- ग्राहक की शिकायत को सुनने में तथा दोष के प्रकार को पहचानना
- कपड़ा धोने की मशीन के दोषों को सुधारना
- नेत्र निरीक्षण तथा सामान्य जाँच के द्वारा कपड़े धोने की मशीन की सर्विस करना
- कपड़ा धोने की मशीन पर रोधन प्रतिरोध का परीक्षण करना
- सेवा कार्ड में अनुरक्षण के विवरणों को अभिलेखित करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)**औज्ञार/मापीयंत्र**

- मैगर 500 V
- परीक्षण तैप 60W, 240V
- संयुक्त प्लायर 150 mm
- D.E. स्पेनर सेट 6 से 22 mm 8 का सेट
- फिलिप्स पेंचकस 150 mm
- ग्रीस गन 1.2 लीटर क्षमता
- तेल केन $\frac{1}{2}$ लीटर क्षमता
- गियर पुल्ली पुलर 3 टांग 150 mm
- बहुमापी

उपकरण / मशीन

- | | | |
|---------|--|-----------------|
| - 1 No. | • कपड़े धोने की मशीन साधारण या अच्छे स्वचल प्रकार 240V, 50Hz | - 1 No. |
| - 1 No. | सामग्री | |
| - 1 Set | • कपड़ा धोने की मशीन अतिरिक्त पुर्जे | - आवश्यकतानुसार |
| - 1 Set | • तेल / ग्रीस | - आवश्यकतानुसार |
| - 1 No. | • तेल / ग्रीस | - आवश्यकतानुसार |
| - 1 No. | • जल रोधी किट | - 1 No. |
| - 1 No. | • टेफ्लोन टेप / 'm' सील | - आवश्यकतानुसार |
| - 1 No. | | |

प्रक्रिया (PROCEDURE)**कार्य 1 : कपड़े धोने की मशीन की मरम्मत**

- 1 कपड़े धोने की मशीन के विवरणों को टेबल 1 में अभिलेखित करें।
(Fig 1)

टेबल 1

नाम-पट्टी विवरण

Fig 1



WASHING MACHINE

EL26105-H1

- 2 ग्राहक / उपभोक्ता की शिकायतों को सुनें। शिकायत, टेबल 2 के बाये साइड के कॉलम की सूची में से कोई भी हो सकती है। कारण तथा उपचार, टेबल 2 के दाये साइड के कॉलम में दिये गये हैं।

निर्माता

क्र.सं. _____ फेस _____

क्षमता _____ R.P.M _____

H.P/K.W _____ वोल्टता _____ Hz

वस्त्रों का अधिकतम भार _____ धारा _____

इम की क्षमता _____

टेबल 2

वाशिंग मशीन के लिए दोष निवारण चार्ट

क्रं. सं.	शिकायत	कारण तथा निवारण
1	मशीन 'आन' नहीं होती	<ul style="list-style-type: none"> I खुले सम्बंधन के लिए जांच करें तथा सुधारे। II आगमी आपूर्ति की जांच करें। III मशीन पर फ्यूज की जांच करें। IV मोटर कुंडल की तथा छोटी मरम्मते जो की जा सकती है, की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो आंतरिक खुले परिपथ की मरम्मत / पुनः लपेटन के लिए भेजे। V गति नियंत्रक प्रवर्तन कुंजी की जांच करें, मरम्मत करें या नए से बदलें।
2	वाश-इम में पानी नहीं भरता	<ul style="list-style-type: none"> I प्रवेशी पाइप अवरुद्ध है। प्रवेशी वाल्व खोलें, साफ करें तथा जल रोधी टेफ्लान टेप का प्रयोग करके, इसे पुनः जोड़े। II प्रवेशी जल आपूर्ति की जांच करें।
3	पानी, वॉश इम से बाहर नहीं निकलता	<ul style="list-style-type: none"> I निकास वाल्व की जांच तथा साफ करें तथा उचित जल रोधी के साथ पुनर्योजित करें। II अवरोध के लिए निकास पाइप की जांच करें - मरम्मत करें या बदल दें।
4	टाईमर पर पूर्व निर्धारित समय सेट करने के बाद मशीन 'आफ' नहीं होती	<ul style="list-style-type: none"> I समय नियंत्रक के कार्य की जांच करें। समय नियंत्रक यंत्रावली बन्द या अवरुद्ध हो सकती है। संभव हो तो मरम्मत करें अन्यथा समय नियंत्रक को नये से बदल दें। II समय नियंत्रक ठीक हैं, लेकिन कुंजी खराब हो सकती है, कुंजी को बदल दें।
5	मशीन थोड़ी देर 'आन' होती है तथा आफ हो जाती है	<ul style="list-style-type: none"> I समय नियंत्रक की सेटिंग गलत हो सकती है। समय नियंत्रक को ठीक सेट करें। II गति नियंत्रण कुंजी खराब हो सकती है, मोटर विखंडित करें तथा मरम्मत करें। संभव हो तो प्रवर्तन चाल नियंत्रण कुंजी यंत्रावली को बदले। III खुले परिपथ तथा विद्युतरोधन दोष के कारण चलित कुंडल प्रतिबाधा बढ़ गई होगी। चलित कुंडल प्रतिबाधा की जांच करें तथा आवश्यक हो तो मोटर को पुनः लपेटे।
6	मशीन शोर करती है।	<ul style="list-style-type: none"> I इम के सन्तुलन की जांच करें तथा यदि असन्तुलित पाया जाए तो उसे ठीक करें। II मोटर शॉफ्ट पुल्ली / इम चालित पुल्ली ढीली हो सकती उसे कस दें। III मशीन चालन का पट्टा ढीला होगा, इसलिए लहर देता है। IV मोटर के बेयरिंग की जांच करें, यदि घिसे हो तो, उसे बदले या अनुशंसित ग्रीस दें। V सभी रबड़ बुशिंग की जांच करें जिसका प्रयोग मशीन में यांत्रिक कम्पन अवशोषण केलिए किया जाता है। यदि खराब या गुम हो तो बदल दें।
7	मशीन प्रघात देती है।	<ul style="list-style-type: none"> I मशीन को आपूर्ति से अलग करें तथा मैगर से परीक्षण करें। II यदि प्लग में विद्युतरोधन भंग हो तो मशीन की मोटर को अलग करें तथा काय प्रतिरोध के साथ कुंडल की जांच करें। III यदि कुंडलन विद्युतरोधन भंग का पता चलता है तो, मोटर को पुनः लपेटन के लिए भेजे

क्रं. सं.	शिकायत	कारण तथा उपचार
		<p>IV यदि विद्युतरोधन भंग का पता चलता है अन्यथा तो मशीन की सम्पूर्ण आंतरिक लपेटन को देखें तथा सदोष या संक्षारक विद्युतरोधन क्षेत्र का पता लगाए।</p> <p>V दोषयुक्त पाई गई, सभी तारों को बदले।</p> <p>VI विद्युत तार स्थापन क्षेत्र में क्षरण / रिसन की जांचे करें तथा ऐसा पाया जाता है तो ऐसे सभी क्षेत्रों को जल रोधी करें।</p> <p>VII मशीन काय की जांच करें। यदि यह भू-संपर्कित है तो भू सम्पर्क प्लग अन्यथा उचित भूसंपर्कन उपलब्ध कराकर इसे ठीक करें।</p>
8	जब पावर 'आन' की जाती है	<p>I जांच करें कि क्या मोटर शैफ्ट घूमती है; तो मोटर गूंज सुनाई देती है लेकिन मोटर शैफ्ट की पुली ढीली हो सकती है उसे क्से। एजीटेटर नहीं घूमता</p> <p>II पट्टा तनन की जांच करें। यदि पट्टा ढीला हो तो तनन समायोजिक द्वारा उसे क्से या पट्टे के नए से बदल दें।</p> <p>III जांच करें कि क्या मशीन का एजीटेटर काफी ढीला है, अर्थात बेयरिंग मुक्त है, क्सा नहीं है। यदि आवश्यक हो तो बेयरिंग को स्नेहित करें।</p>
9	जब मशीन नियंत्रण स्विच 'आन' किया जाता है तो फ्लूज उड़ जाता है।	<p>I आपूर्ति से मशीन को अलग करें, मोटर टर्मिनल को अलग करें, तथा जांच करें कि मशीन का तार स्थापन या मोटर में विद्युत रोधन असफल लघुपथ है।</p> <p>II यदि मोटर में लघुपथ / विद्युतरोधन विफल है तो मोटर को पुनः लपेटे।</p> <p>III यदि शेष मशीन में लघुपथ / विद्युतरोधन विफल है तो उसका पता लगाएं और लघुपथ हटाएं।</p>

कार्य 2 : वाशिंग मशीन की देखभाल


- वाशिंग मशीन की अनुदेश पुस्तिका को पढ़ें।
- आपूर्ति से मशीन बोर्ड और मशीन को चरणों में 'आन' करें, जैसा प्रचालन / अनुदेश पुस्तिका में संकेत किया गया है।
- मशीन के अन्तर्गम्भ जल प्रवाह की जांच करें। यदि गलत पाया जाए तो अन्तर्गम्भ को साफ करें तथा उचित जल रोधी विधि का प्रयोग करते हुए जल सफाई को पुनः योजित करें। यदि मशीन तथा जल पाइप के बीच योजी बिन्दु पर रिसन होती है तो तीक रोकने के लिए युग्मकों की ढूँढ़ियों के बीच के टेफ्लान टेप का प्रयोग करें।
- निकास पर जल-प्रवाह की जांच करें तथा जांच करें कि वाश-इम से पूर्ण जल निकल जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो आपूर्ति से मशीन को नियोजित करें-फिर फर्श पर मशीन को समतल रखें, तथा पूर्ण जल को निकलने दें।
- मशीन को आपूर्ति से अलग करें। मशीन के निरीक्षण आवरण को खोलें तथा निम्नलिखित का दृष्टीय निरीक्षण करें:
 - आपूर्ति डोरी तथा उसके अन्तर्क अर्थात प्लग तथा मशीन के अन्तर्कों के बीच
 - मोटर पुल्ली-पट्टे तथा चालन संरक्षण की स्थिति

- नियंत्रण-चैनल तथा मशीन मोटरों, समय नियंत्रक तथा कुंजीयों के बीच सभी आंतरिक सम्बंधन। Fig 2 में दर्शाया गया
- 6 मोटर के बियरिंगों को निर्माता द्वारा संस्तुत ग्रीस से स्नेहित करें।
- 7 जहाँ आवश्यक हो तो सभी नट, बोल्ट, पेंच को क्स दें तथा विशेषतः जहाँ पर मशीन का अधिकतम कम्पन आभास किया जाता है, ढूँढ़ियों में ग्रीस या तेल के डाट (dot) का प्रयोग करें।
- 8 500 V मैगर का प्रयोग करते हुए मोटर का विद्युतरोधन परीक्षण करें तथा टेबल 3 में इसे दर्ज करें; विद्युतरोधन प्रतिरोध लगभग 1 मेगा ओह्म होना चाहिए। यदि कम पाया जाए तो नमी तथा निर्बल विद्युरोधन के लिए तार स्थापन, आंतरिक उपसाधन तथा वैद्युतरूप से विद्युतमय भागों की जांच करें। नमी दूर करें तथा विद्युत भागों के निकट, जल के रिसन को उपयुक्त ढंग से रोकें। विद्युतरोधन परीक्षण पुनः करें।
- 9 निरीक्षण फलक / आवरण को बंद करें तथा मशीन को आपूर्ति से सम्बंधन करें तथा वाशिंग मशीन के सुचारू चलाने के लिए विनिर्माता द्वारा संस्तुत संख्या में कपड़ों से मशीन को भारित करें।

टेबल 3

टर्मिनल तथा काय लपेटनों के बीच विधुत रोधन प्रतिरोध	
सर्विस का दिनांक	
अनुशंसित मरम्मत	
भागों का प्रतिस्थापन	

Fig 2



NOTE: THE COLOUR CODE GIVEN IN THIS FIGURE IS SUBJECT TO CHANGE.

CONNECTION DIAGRAM OF SEMI AUTOMATIC WASHING MACHINE

ELN26105-12

सिंगल फेज ट्रान्सफार्मरों की टर्मिनल्स/अवयव की पहचान करना और ट्रान्सफार्मेशन अनुपात की गणना करना (Verify terminals identify components and calculate transformation ratio of single phase transformers)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- एकल कला ट्रान्सफार्मर के नाम पट्टी विवरण को पढ़ने तथा उसकी व्याख्या करना
- H.T. तथा L.T. लपेटनों को पहचानना
- ट्रान्सफार्मेशन अनुपात (Turns ratio) को ज्ञात करना
 - वोल्टमापी विधि
 - अमीटर विधि ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र

- वोल्टमापी M.I. 0 - 250/300V
- ओह्ममापी (0-500 ओह्म)
- अमीटर M.I. type (0 - 10 Amp)
- अमीटर M.I. 100 mA
- वोल्टमापी M.C. 0-15V

उपकरण/मशीन


- 2 Nos. 12 वोल्ट की D.C. आपूर्ति - 1 No.
 - 1 No. एकल ट्रान्सफार्मर 115 / 230 वोल्ट, 1 KVA
 - 1 No. स्व - ट्रान्सफार्मर (IP-240V) OP 0-270V 5A - 1 No.
- सामग्री**
- चाकू कुंजी DPST 16 A 250 V - 1 No.
 - पुश - बटन 6A 250 V - 1 No.
 - सम्बंधन केबल्स - आवश्यकतानुसार

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : टर्मिनलों की पहचान करना

- अविच्छिन्नता की जाँच करते हुए Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार ओह्ममापी से दो लपेटनों (H.T. तथा L.T.) के संगत टर्मिनलों को ज्ञात करें।

Fig 1



- क्लीट स्टोट सेतु / ओह्ममापी से प्रतिरोध को मापते हुए H.T. तथा L.T. लपेटन को ज्ञात करना।

L.T. लपेटनों का कम प्रतिरोध होगा तदानुसार अंकित करें।


दोनों युग्मों के प्रतिरोध को अभिलेखित करें।

प्रथम युग्म _____ ओह्म। यह H.T. / L.T. लपेटन हैं।

द्वितीय युग्म _____ ओह्म। यह H.T. / L.T. लपेटन हैं।

- पुश-बटन कुंजी के द्वारा H.T. को DC आपूर्ति से जोड़े तथा Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार L.T. को वोल्टमापी से जोड़े।

Fig 2




NOTE:
INSTEAD OF THE BATTERY DC STABILIZED POWER SUPPLY CAN BE USED
CIRCUIT FOR IDENTIFICATION OF POLARITY OF TRANSFORMER

ELN2710612

- H.T. टर्मिनलों को A₁ तथा A₂ की तरह अंकित करें। L.T. टर्मिनलों पर a₁ तथा a₂ की तरह अंकित करें।
- पुश बटन कुंजी को दबाये। वोल्टमापी के संकेतक के विक्षेप को देखें। यदि संकेतक, दांये दिशा में विक्षेप होता है तो, टर्मिनलों पर बने चिन्हाकानों को बनाये रखें।
- यदि विक्षेप परिवर्त्य दिशा में हो तो, L.T. टर्मिनल को बने वोल्टमापी सम्बंधितों को बदले तथा L.T. टर्मिनलों पर बने अंकन को बदलें। अब पुश बटन कुंजी को एक बार पुनः दबाये तथा देखें कि वोल्टमापी, दायें दिशा में प्रक्षेप कर रहा है।

कार्य 2 : ट्रान्सफर्मेशन अनुपात का सत्यापन (वोल्टमापी विधि से)

- 1 Fig 3 में दर्शाये गये अनुसार स्व-ट्रान्सफार्मर को शून्य स्व-ट्रान्सफार्मर तथा वोल्ट मापियों को ट्रान्सफार्मर के साथ सम्बंधन करें। स्व-ट्रान्सफार्मर को शून्य वोल्ट निर्गत स्थिति पर जाँच करें तथा सेट करें।



- 2 S_2 को ऑन करें तथा निर्गत वोल्टता $V = 100$ वोल्ट प्राप्त करने के लिए स्व-ट्रान्सफार्मर को समायोजित करें तथा V_1 को पढ़े तथा टेबल 1 में माने को अभिलेखित करें।

स्व ट्रान्सफार्मर की निर्गत वोल्टता को H.T. साइड के निर्धारण की लगभग 50% पर समायोजित करना चाहिए।

- 3 टेबल 1 में संकेत किये गये मानों के लिए V_2 मान को सेट करें तथा टेबल 1 में V_2 के संगत पाठ्याकों को अभिलेखित करें।

- 4 मापे गये V_1 तथा V_2 के मानों से ट्रान्सफार्मर (परिणमन) अनुपात की गणना करें।

निम्नलिखित सूत्र को प्रयुक्त करें।

$$\text{परिणमन अनुपात} = \frac{V_2}{V_1}$$

टेबल 1

क्र.सं.	V_1	V_2	परिमाणित अनुपात $K = V_2/V_1$
1	100 वोल्ट		
2	125 वोल्ट		
3	150 वोल्ट		
4	200 वोल्ट		
5	225 वोल्ट		


- 5 नाम पट्टी पर परिणमन अनुपात के साथ परिकलित परिणमन अनुपात की तुलना करें।

- 6 परिकलित परिणमन अनुपात माप से =

चिन्हांकन से =

कार्य 3 : ट्रान्सफर्मेशन अनुपात का सत्यापन (अमीटर विधि से)

- 1 Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार लाइन में मिली अमीटर के द्वारा ट्रान्सफार्मर H.T. लपेटन के साथ स्व-ट्रान्सफार्मर निर्गत को सम्बंधन करें।



H.T. लपेटन में धारा को कम रखना चाहिए, लेकिन मिली अमीटर से यथार्थता से मापने के लिए पर्याप्त अधिक होना चाहिए।

- 2 अमीटर के साथ L.T. लपेटन को जोड़ें। अमीटर को L.T. साइड के निर्धारण धारा को वहन करना चाहिए।

यदि द्वितीयक निर्धारण बहुत उच्च हो तो धारा ट्रान्सफार्मर तथा अमीटर का उपयोग करें।

- 3 H.T.लपेटन में आवश्यक धारा देने के लिए वोल्टता को बढ़ायें।

- 4 L.T. धारा को पढ़े। टेबल 2 अभिलेखित करें।

- 5 H.T. धारा को विभिन्न मानों पर परिवर्तित करें तथा संगत L.T. धारा को अभिलेखित करें।

टेबल 2

क्र. सं.	I_1	I_2	परिमाणित अनुपात $K = I_1/I_2$
1			
2			
3			
4			

- 6 नाम पट्टी पर चिन्हांकन के साथ परिणमन अनुपात को सत्यापित करें तथा अपने निष्कर्ष को अभिलेखित करें।

सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर की दक्षता निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का परीक्षण करना (Perform open circuit and short circuit test to determine the efficiency of single phase transformer)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- लौह या कोर हानि निर्धारित करने के लिए खुले सर्किट का परीक्षण करना
- पूर्ण लौह हानि निर्धारित करने के लिए शॉर्ट सर्किट का परीक्षण करना
- विभिन्न लोड पर ट्रान्सफॉर्मर की दक्षता का परीक्षण करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्जार/मापीयंत्र

- वोल्टमापी M.I. 100V
- वोल्टमापी M.I. 150V
- वाटमीटर 250V, 5A - 1250W
- अमीटर M.I. 5A
- अमीटर M.I. 15A
- आवृत्ति मापी 45 से 55Hz.
- पावर फेक्टर मीटर 0.5 लेग - 1-0.5 लीड 250V रेटिंग


उपकरण/मशीन

- | | | |
|--|---------|-----------------|
| • ट्रान्सफार्मर 100/250V 1 kVA 50 Hz | - 1 No. | - 1 No. |
| • स्व-ट्रान्सफार्मर निवेशी 240V 270V निर्गत 0 से, 5A | - 1 No. | - 1 No. |
| सामग्री | | |
| • चाकू कुंजी DPST 16A, 240V | - 1 No. | |
| • सम्बंधक केबल्स | | - आवश्यकतानुसार |

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : लौह या कोर हानि निर्धारित करने के लिए खुले सर्किट परीक्षण

- 1 व्हीट स्टोन सेतु से ट्रान्सफार्मर L.T. और H.T. के प्रतिरोध को मापे।
- 2 स्व-ट्रान्सफार्मर, आवृत्ति मापी, वॉटमीटर, अमीटर, वोल्टमापी तथा ट्रान्सफार्मर को Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार सम्बंधन करें।



- 3 कुंजी 'S' को बंद करें।

L.T. के ट्रान्सफार्मर के निर्धारण मान के (100%) तक, वोल्टता में धीरे-धीरे वृद्धि करें।

- 4 निर्धारण मान पर आपूर्ति आवृत्ति की जांच करें।
- 5 मापी का प्रेक्षण करें तथा पाठ्यांकों को टेबल में लिखें।
- 6 ट्रान्सफार्मर वोल्टता के 110% निर्धारण मान के लिए उपरोक्त पदों को दोहरायें।

टेबल


क्र.सं.	निर्धारण	वोल्टेज V	धारा A	लौह हास (W - तांबा हास)
1	100%			
2	110%			

उपरोक्त आंकड़े से प्रत्येक वोल्टता में शून्य भार हास तथा शून्य भार धारा ज्ञात होती है।

कार्य 2 : ट्रांसफॉर्मर के पूर्ण लोह ताप्र प्रति निर्धारित करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण

लघु पथित परीक्षण (Short circuit test)

- स्व ट्रांसफार्मर, अमीटर, वोल्टमापी तथा वॉटमापी के साथ Fig 2 में दर्शये गये अनुसार परिपथ को बनाये।



यह सुनिश्चित करें कि स्व-ट्रांसफार्मर, आरंभ में शून्य-वोल्ट निर्गत स्थिति पर सेट है।

- कुंजी 'S' को बंद करें।

द्वितीयक, अमीटर से लघु पथित है।

- द्वितीयक से पूर्ण भार धारा को प्राप्त करने के लिए वोल्टता को क्रमिक रूप से वृद्धि करें।
- वॉटमापी का प्रेक्षण करें तथा पाठ्यांक को लिखें।

W = तांबा हास वॉट


कार्य 3 : ट्रांसफॉर्मर या विभिन्न भार (loads) की दक्षता निर्धारित करें

- प्रकार्य में कहे अनुसार परिपथ तैयार करें और अपने अनुदेशक से सत्यपित करायें।
- आवश्यक उपकरण और सामग्री संग्रहीन करें।
- सत्यापित परिपथ के अनुसार परिपथ का संयोजन करें। (Fig 3)

स्विच S_1 और S_2 को खुला रखें। आटोट्रांसफॉर्मर को शून्य आउटपुट वोल्ट पर सेट करें।

- स्विच S_1 को बंद करें और आटोट्रांसफॉर्मर के आउटपुट वोल्टेज को धिरे-धिरे बढ़ाओ जब तक निर्धारित वोल्टेज प्राप्त न हो जाये। सभी स्विचों को लैम्प बैंक में बंद की स्थिति में रखें।
- स्विच S_2 को क्लोज करें और स्विच को ऑन कर इनकैडीसेंट लैम्प को एक के बाद एक जलाये जब तक अमीटर A_2 का पाठ्यांक लोड का 25% न हो जायें।
- आये ट्रांसफॉर्मर Tr_2 को समायोजित करें यदि आवश्यक हो तो प्राथिमिक वोल्टेज को स्थित रखें।

Fig 3



ELN27107H3

- उपकरण के पाठ्यांक को टेबल 1 में लिखें।
- इनकैडीसेंट लैम्प को फुल लोड का 50% 75% 100% बढ़ाकर प्रत्येक स्थिति में उपकरण के पाठ्यांक को लिखें।
- ट्यूब लाइट पर स्विच ऑन कर उक्त पद के अनुसार दोहराये और प्राप्त पावर फैक्टर 0.9, 0.8 और 0.7 उपकरण के पाठ्यांक को सारणी 2 में लिखें।
- आटोट्रांसफॉर्मर को न्यूनतम या शून्य स्थिति में लाने के पश्चात् स्विच को off करें।
- फारमूला की सहायता से दक्षता की गणना करें।

$$\frac{\text{प्रतिशत दक्षता}}{\text{प्रतिशत दक्षता}} \times 100 \text{ OR}$$

$$\text{प्रतिशत दक्षता} = \frac{\text{Output}}{\text{Output} + \text{losses}} \times 100$$

$$= \frac{W}{W + W_1} \times 100$$

यहाँ W_1 = लौहे की हानि + तांबे की हानि

टेबल 1

(इकाई P.F)

क्र. सं.	भार	V_1	A_1	P.F ($\cos \varphi$)	V_2	A_2	W	% दक्षता
1	शून्य भार							$= \frac{W}{V_1 A_1 \cos \varphi} \times 100$
2	1/4th भार							
3	1/2 भार							
4	3/4 भार							
5	Full load							

टेबल 2

(विभिन्न P.Fs)

क्र. सं.	भार	V_1	A_1	P.F ($\cos \varphi$)	V_2	A_2	W	% दक्षता
1	शून्य भार							$= \frac{W}{V_1 A_1 \cos \varphi} \times 100$
2	1/4th भार							
3	1/2 भार							
4	3/4 भार							
5	Full load							

12 दिए गए जॉब को पूरा करें तथा अपने अनुदेशक से सहमती लें तथा सर्किट को खोल दें।

निष्कर्ष (Conclusion)

- 1 एफिशिएंसी और लोड के मध्य संबंध _____
- 2 एफिशिएंसी और पावर फैक्टर के मध्य संबंध _____
- 3 एफिशिएंसी अधिकम होगी जब _____

— — — — —

विभिन्न भार तथा शक्ति गुणकों पर दिये गये एकल कला ट्रान्सफार्मर के नियामन को ज्ञात करना (Determine voltage regulation of single phase transformer at different loads and power factors)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- भार तथा भार के शक्ति गुणक को मापने के लिए उचित मापी यंत्रों के साथ ट्रान्सफार्मर को जोड़ना
- प्राथमिक तथा द्वितीयक साइड में मापी यंत्रों के पाठ्यांकों से एकल कला ट्रान्सफार्मर के नियामन की गणना करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- अमीटर M.I. 0 से 5 A, 0 से 10 A प्रत्येक - 1 No.
- वोल्टमापी M.I. 0 से 300 V, 0 से 150 V - 1 No.
- P.F. मापी 0.5 अग्र -1 - 0.5 पश्च, 250 V निर्धारण - 1 No.

प्रत्येक

- एकल कला ट्रान्सफार्मर 115 / 230V

1 kVA, 50 चक्र वायु शीतलित

- 1 No.

- लैम्प बैंक 5 A, 250V

- 1 No.

उपकरण/मशीन

- प्रेरण मोटर प्रवर्तक तथा भारित व्यवस्था के साथ 240V 50Hz 1 HP - 1 No.
- स्व-ट्रान्सफार्मर निवेशी 240V निर्गत 0-270V, 5A - 1 No.

सामग्री

- सम्बंधन केबल्स
- 40 वाट नलिका लाइट फिटिंग
- DPST कुंजी 250V 16A
- SPT कुंजी 6 A


- आवश्यकतानुसार

- 10 Nos.

- 2 Nos.

- 2 Nos.

प्रक्रिया (PROCEDURE)



1 Fig 1 में दर्शाये गये अनुसार परिपथ को बनाये।

2 ट्रान्सफार्मर के नाम पट्टी विवरण को नोट करें। (टेबल 2)

टेबल 1

क्र. सं.	भार (लैम्प)	द्वितीयक टर्मिनल वोल्टता V_s	वाल्ट का परिवर्तन $V_o - V_s$	नियामन
1	शून्य भार V_o			
2	$1/4 F.L.$			
3	$1/2 F.L.$			
4	$3/4 F.L.$			
5	F.L.			

जाँच करें कि स्व-ट्रान्सफार्मर T_{r2} शून्य वोल्ट निर्गत स्थिति पर सेट है।

3 S_1 को अँन करें तथा ट्रान्सफार्मर के निर्धारण द्वितीयक वोल्टता V_s^1 पर प्राथमिक की वोल्टता को समायोजित करें।

4 भार कुंजी S_2 को बंद करें।

5 टेबल 1 में संकेत किये गये अनुसार लैम्प भार को समायोजित करें तथा प्रत्येक भार पर द्वितीयक वोल्टता को अभिलेखित करें। (V_s)

6 विभिन्न प्रतिरोधी भारों पर % नियामन की गणना करें।

$$\left(\text{% of regulation} = \frac{V_o - V_s}{V_s} \times 100 \right)$$

7 लैम्प बैंक (मिश्रित भार) के साथ प्रेरणिक भार दें, जिससे कि भार शक्ति गुणक पश्च में हो।

टेबल 2

Fig 2

<input type="checkbox"/> PHASE TRANSFORMER	SI.No.	[]
STANDARD	FREQUENCY	Hz []
KVA	TYPE OF COOLING	[]
VOLTS AT NO LOAD	HT []	VECTOR GROUP []
	LT []	MASS OF OIL kg []
AMPERES	HT []	TOTAL MASS kg []
	LT []	VOLUME OF OIL l []
IMPED.VOLT	% []	DATE OF MFG. []
CUSTOMER	[]	
ORDER NUMBER	[]	
	*	[]

— — — — — — —

ELN27108-H2

8 मिश्रित भार को क्रमिक रूप से बढ़ाये तथा टर्मिनल वोल्टता, शक्ति गुणक को मापे तथा टेबल 3 में अभिलेखित करें। विभिन्न भारों तथा शक्ति गुणकों पर % नियामन की गणना करें।

9 जब P.F. परिवर्तित हो तो P.F. तथा % नियामन के बीच सम्बंधन का वर्णन करें। 'S' तथा 'S' कुंजी को बंद करें।

टेबल 3

क्रं. सं.	भार (मिश्रित) A ₂	V _s	PF	वोल्ट का परिवर्तन	नियामन
1					
2					
3					

दो सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर का सीरीज और समान्तर में प्रचालन करना (Perform series and parallel operation of two single phase transformers)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- ट्रान्सफार्मर (R) का ध्रुवता परीक्षण करना
- समान्तर में दो एकल कला ट्रान्सफार्मरों को जोड़ना
- श्रेणी में दो एकल कला ट्रान्सफार्मरों द्वितीयक को जोड़ना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्ञार/मापीयंत्र

- वोल्टमापी MI, 150V
- वोल्टमापी MI, 300V
- 1 No.
- 2 Nos.
- ICDP कुंजी 16 A 250 V
- 4 Nos.
- सम्बंधन केवल्स
- आवश्यकतानुसार


उपकरण/मशीन

- एकल कला ट्रान्सफार्मर 230/115, 1 KVA 50 H1 - 2 Nos.
- DC आपूर्ति 12V / बैटरी 12 V
- 1 No.

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : ट्रान्सफार्मर द्वितीयक का श्रेणी में सम्बंधन

1 आरेख के अनुसार ट्रान्सफार्मर को सम्बंधन करें। (Fig 1)



2 S_1, S_2 तथा S_3 कुंजियों को बंद करें।

3 प्राथमिक वोल्टता V_1 तथा वोल्टता V_2 को मापें तथा टेबल 1 में अभिलेखित करें।

टेबल 1

ट्रान्सफार्मर श्रेणी में		
	प्राथमिक V_1	द्वितीयक V_2
Tr_1		
Tr_2		

4 S_3, S_2 तथा S_1 को खोलते हुए ट्रान्सफार्मर को विच्छेद करें।

टेबल 2

क्र.सं.

कूलिंग का प्रकार

KVA

फ्रिक्वेन्सी

लोड न हो तो वोल्ट

HT

MFG की तारीख

लोड न हो तो करन्ट


LT

HT

LT

कार्य 2 : समान्तर में ट्रांसफार्मरों को सम्बंधित करना

- 1 टेबल 2 के अनुसार दोनों ट्रांसफार्मरों Tr_1 तथा Tr_2 के नाम पट्टी विवरण को पढ़े तथा अभिलेखित करें।
 - 2 दिये गये दो ट्रांसफार्मरों की धृतवता को ज्ञात करें।
 - 3 आरेख के अनुसार कुंजियों, ट्रांसफार्मरों तथा मापियों को सम्बन्धन करें। (Fig 2)



- 4 सभी कुंजियों को खुला रखें।
 - 5 यह सनिश्चित करें कि समांतर सम्बंधनों के लिए ट्रांसफार्मर समरूप है।
 - 6 कुंजी S_1 तथा S_2 को बंद करते हुए बसबार के साथ ट्रांसफार्मर T_r को जोड़ें। प्राथमिक वोल्टता V_1 को मापें तथा टेबल 3 में अभिलेखित करें।

टेबल 3

ट्रांसफार्मर समान्तर में		
	प्राथमिक V_1	द्वितीयक V_2
Tr ₁		
Tr ₂		

- 7 Tr की द्वितीयक वोल्टता की जाँच करें तथा उसे अभिलेखित करें।
(टेबल 2)
 - 8 कुंजी S को बंद करें तथा ट्रांसफार्मर Tr की द्वितीयक वोल्टता की जाँच करें तथा अभिलेखित करें (टेबल 2)।
 - 9 कुंजी S तथा S को बंद करें तथा द्वितीयक वसवार वोल्टता को मापें तथा टेबल 3 में अभिलेखित करें।
 - 10 सभी कंजियों को बंद करें तथा दोनों ट्रांसफार्मरों को विच्छेद करें।

निष्कर्ष

- 11 ट्रांसफार्मरों की द्वितीयक वोल्टता पर प्रभाव, जब वे समांतर में जुड़े हैं

- 12 ट्रांसफार्मरों की द्वितीयक वोल्टता पर प्रभाव वे श्रेणी में जुड़े हैं।

थ्री फेज ट्रान्सफार्मर के HT तथा LT साइड के टर्मीनलों तथा सहायक संसाधनों का सत्यापन करना (Verify the terminals and accessories of three phase transformer HT and LT side)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- थ्री फेज ट्रान्सफार्मर का अध्यन करना नेम प्लेट का विस्तृत वर्णन करना
- HT तथा LT वाइंडिंग के टर्मीनलों की जाँच करना
- थ्री फेज ट्रान्सफार्मर के संसाधनों की पहचान करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्जार/मापीयंत्र

- DE स्पैनर सेट 5mm to 20mm
- इंसुलेटेड कटिंग प्लायर 200mm
- स्कूट ड्राइवर 200mm
- M.I. वोल्टमीटर 0-500 V
- मल्टीमीटर

उपकरण/मशीन

- | | | |
|---------|--|-----------------|
| - 1 Set | • 3 - थ्री फेज ट्रान्सफार्मर 415/240V, 3 KVA | - 1 No. |
| - 1 No. | • 3 - थ्री फेज ट्रान्सफार्मर इनपुट 415 V आउटपुट 0-500 V, 3 kVA | - 1 No. |
| - 1 No. | सामग्री | |
| - 1 No. | • टेस्ट लैम्प 40 W, 230 Volts | - 2 Nos. |
| | • कनेक्टिंग लीड | - आवश्यकतानुसार |

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : थ्री फेज ट्रान्सफार्मर के टर्मीनलों की जाँच करना

- 1 नेम प्लेट विवरण को नोट किया तथा टेबल 1 में अंकित किया।

टेबल 1

नेम प्लेट का विवरण

क्र.सं. : _____
 KVA : _____
 वोल्ट HT : _____
 LT : _____
 एम्पीयर HT : _____
 LT : _____

कुलिंग के प्रकार : _____
 क्वायल का वजन : _____
 कुल वजन : _____
 MFG दिनांक : _____
 क्वायल का आयतन : _____
 आवृत्ति : _____

- 2 दोनों समूहों के टर्मीनलों को प्राप्त करने के लिये मल्टीमीटर की सहायता से कंटीन्यू जाँच करें। (Fig 1)

- 3 स्विच 'S' को ऑन करते हुए U_1 , V_1 तथा W_1 पर 15V 3φ सप्लाई का प्रचालन करें।

- 4 V_2 व W_2 तथा V_2 व U_2 के मध्य वोल्टेज का मापन किया यदि वोल्टमीटर 15 से कम पाठ्यांक दर्शाता है तो वे वाइंडिंग LT वाइंडिंग है यदि वोल्टमीटर 15V से अधिक पाठ्यांक है तो वे वाइंडिंग HT वाइंडिंग है। (Fig 2)






Fig 2



कार्य 2 : 3 ट्रांसफार्मर के सहायक संसाधन का अध्ययन करना।

- 1 निर्धारित अर्थरिटि से 11 KV संसर्फाम सब स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करें।
 - 2 100KVA ट्रांसफार्मर की निम्न सहायक सामग्री का अध्ययन करें। (Fig 3 और 4)
 - a HV & LV बुशिंग
 - b बकोल्ज रिले
- c कनसटवेटर
- d ब्रीदर
- e कूलेंग पाइप
- f एक्सप्लीजन वैंट आइल गेज के साथ
- g अर्पिंग टर्मीनल
- h आइल लेवल इंडीकेटर

Fig 3




7	EARTHING TERMINALS ON BOTH SIDES
6	FILTER VALVE
5	DRAIN VALVE
4	TERMINAL MARKING AND DIAGRAM PLATE
3	BUCHHOLZ RELAY
2	L.V TERMINALS IN BUS DUCT
1	H.V.CABLE BOX
No.	ACCESSORIES

14	L.V. BUSHING
13	FILLING HOLE WITH CAP
12	OIL LEVEL INDICATOR
11	EXPLOSION VENT WITH OIL GAUGE
10	COOLING PIPES
9	DEHYDRATING SILICA-GEL BREATHER
8	OIL CONSERVATOR
No.	ACCESSORIES

ACCESSORIES OF 30 TRANSFORMER

Fig 4



तीन एकल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हुए हेतू (i) डेल्टा-डेल्टा (ii) डेल्टा - स्टार (iii) स्टार - स्टार (iv) स्टार-डेल्टा का 3 फेज प्रचालन करना (Perform 3 phase operation (i) delta - delta (ii) delta - star (iii) star-star (iv) star - delta by use of three single phase transformes)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संबंधन के साथ 3-फेज सप्लाई के साथ तीन एकल-फेज ट्रांसफार्मर योजित करना
- प्रत्येक प्रकार के संबंधन में प्राथमिक और द्वितीयक लाइन वोल्टताएं मापना
- लाइन वोल्टता अनुपात निर्धारित करना और सैद्धांतिक अनुपात मानों से उसकी तुलना करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/मापीयंत्र

- | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|-----------------|
| • इलेक्ट्रिशियन टूल किट | - 1 No. | • योजी केबिलें | - आवश्यकतानुसार |
| • वोल्टमीटर M.I. - 0 to 500V | - 1 No. | • ICP स्विच 500V, 16A, | - 2 Nos. |
| • वोल्टमीटर M.I. - 0 to 300V | - 1 No. | • HRC फ्लूज, 2 Amp | - 3 Nos. |

उपकरण/मशीन

- | | |
|--|----------|
| • एकल फेज ट्रांसफार्मर
1 kVA 415/230 V 50Hz | - 3 Nos. |
|--|----------|

प्रक्रिया (PROCEDURE)

1 तीन एकल फेज ट्रांसफार्मर योजित करें और ध्रुवता परीक्षण और वोल्टता अनुपात परीक्षण करें।

प्रत्येक ट्रांसफार्मर का वोल्टता अनुपात तालिका में नोट करें।

सब तीन ट्रांसफार्मरों की वोल्टता अनुपात और प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टताएं समान होनी चाहिए।

2 प्रत्येक एकल-फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक (HT) और द्वितीयक (LT) के टर्मिनल निम्नानुसार अंकित करें।

मानक के अनुसार टर्मिनल अंकन

टर्मिनल	ट्रांसफार्मर 1	ट्रांसफार्मर 2	ट्रांसफार्मर 3
प्राथमिक (HT)	1U	1V	1W
	आरंभ अंत	आरंभ अंत	आरंभ अंत
	1.1 1.2	1.1 1.2	1.1 1.2
द्वितीयक (LT)	2U	2V	2W
	आरंभ अंत	आरंभ अंत	आरंभ अंत
	2.1 2.2	2.1 2.2	2.1 2.2

— — — — — — —


कार्य 1 : 3-फेज डेल्टा-डेल्टा के रूप में ट्रांसफार्मर योजित करना

1 प्राथमिक के असमान सिरों को जोड़ना यानी (Fig 1)

ट्रां. 1 के 1.1 को ट्रां. 3 के 1.2 से योजित करें और इसे 1U अंकित करें

ट्रां. 1 के 1.2 को ट्रां. 2 के 1.1 से जोड़ें और इसे 1V अंकित करें

ट्रां. 2 के 1.2 को ट्रां. 3 के 1.1 से जोड़ें और इसे 1W अंकित करें



2 द्वितीयक कुंडलन के असमान सिरों को जोड़ें यानी

ट्रां. 1 के 2.1 को ट्रां. 3 के 2.2 से जोड़ें और इसे 2U अंकित करें

ट्रां. 1 के 2.2 को ट्रां. 2 के 2.1 से जोड़ें और इसे 2V अंकित करें

ट्रां. 2 के 2.2 को ट्रां. 3 के 2.1 से जोड़ें और इसे 2W अंकित करें

3 1U, 1V, 1W को ICTP स्विच S_1 से जोड़ें

4 1U और 1V के आर-पार वोल्टमीटर 0-500V जोड़ें

5 2U और 2V के आर-पार वोल्टमीटर 0-300V जोड़ें

6 स्विच S_1 बन्द करें और डेल्टा-डेल्टा संबंधन के अन्तर्गत तालिका कालमों में प्राथमिक लाइन वोल्टता और द्वितीयक लाइन वोल्टता नोट करें

7 द्वितीयक लाइन वोल्टता और प्राथमिक लाइन वोल्टता का अनुपात परिकलित करें और सैद्धांतिक मानों के साथ मानों की तुलना करें।

कार्य 2 : स्टार-स्टार संबंधन में योजित करना


1 प्राथमिक कुंडलन के किन्हीं तीन समान सिरों को एक साथ जोड़ें। जैसे ट्रां. 1 के 1.2 को ट्रां. 2 के 1.2 और ट्रां. 3 के 1.2 को जोड़ें और संधि को 1N अंकित करें। (Fig 2)

2 ट्रां. 1 के 1.1 को 1u, ट्रां. 2 के 1.1 को 1v और ट्रां. 3 के 1.1 को 1w अंकित करें।

3 द्वितीयक कुंडलन के किन्हीं समान सिरों को एक-साथ जोड़ें जैसे ट्रां. 1 के 2.2, ट्रां. 2 के 2.2 और ट्रां. 3 के 2.2 को एक-साथ जोड़ें और संधि को 2N अंकित करें जैसा परिपथ 2 में दिखाया गया है।

4 ट्रां. 1 के 2.1 को 2u, ट्रां. 2 के 2.1 को 2v और ट्रां. 3 के 2.1 को 2w अंकित करें।

5 प्रकार्य 1 के चरण 3, 4, 5, 6, 7 को दोहराएं।



कार्य 3 : स्टार-स्टार संबंधन में योजित करना

1 प्राथमिक कुंडलनों के तीन समान टर्मिनलों को एक साथ योजित करें। जैसे ट्रां. 1 का 1.2, ट्रां. 2 का 1.2 और ट्रां. 3 का 1.2 और Fig. 3 में दिखाए अनुसार संधि को 1N अंकित करें।

2 ट्रां. 1 के 1.1 को 1U, ट्रां. 2 के 1.1 को 1v और ट्रां. 3 के 1.1 को 1w अंकित करें।


3 द्वितीयक कुंडलन के असमान टर्मिनल जोड़ें

ट्रां. 1 के 2.1 को ट्रां. 3 के 2.2 से जोड़ें और इसे 2U अंतिक करें

ट्रां. 1 के 2.2 को ट्रां. 2 के 2.1 से जोड़ें और इसे 2V अंतिक करें


ट्रां. 2 के 2.2 को ट्रां. 3 के 2.1 से जोड़ें और इसे 2W अंतिक करें

4 प्रकार्य 1 के चरण 3, 4, 5, 6, 7 को दोहराएं।



कार्य 4 : डेल्टा-स्टार संबंधन में योजित करना

- प्राथमिक कुंडलन के असमान टर्मिनल निम्नानुसार जोड़ें (Fig 4)
 - ट्रां. 1 के 1.1 को ट्रां. 3 के 1.2 से जोड़ें और इसे 1U अंतिक करें
 - ट्रां. 1 के 1.2 को ट्रां. 2 के 1.1 से जोड़ें और इसे 1V अंतिक करें
 - ट्रां. 2 के 1.2 को ट्रां. 3 के 1.1 से जोड़ें और इसे 1W अंतिक करें
- द्वितीयक कुंडलन के तीन असमान टर्मिनलों को एक साथ जोड़ें जैसे ट्रां. 1 के 2.2 को ट्रां. 2 के 2.2, ट्रां. 3 के 2.2 से जोड़ें और संधि को 2N अंकित करें जैसा Fig. 4 में दिखाया गया है।
- ट्रां. 1 के 2.1 को 2u, ट्रां. 2 के 2.1 को 2v और ट्रां. 3 के 2.1 को 2w अंकित करें।
- प्रकार्य 1 के 3, 4, 5, 6, 7 चरण दोहराएं।



प्रत्येक ट्रांसफार्मर का वोल्टता अनुपात $K = \dots\dots$

तालिका कालम

संबंधन का प्रकार	प्राथमिक लाइन वोल्टता	द्वितीयक लाइन वोल्टता	लाइन वोल्टता अनुपात (सैद्धांतिक)	लाइन वोल्टता अनुपात (Practical)
डेल्टा-डेल्टा			$= \frac{\text{Secondary Line Voltage}}{\text{Primary Line Voltage}}$	
स्टार-स्टार				
स्टार-डेल्टा				
डेल्टा-स्टार				

यदि एक 3-एकल फेज ट्रांसफार्मर बाहर निकाले छः द्वितीयक टर्मिनलों के साथ उपलब्ध है तब निम्ननिखित दत्त टर्मिनलों के साथ ऊपर प्रकार्यों में दी गई समान प्रक्रिया का पालन करें।

	ट्रांसफार्मर कुंडलन 1		ट्रांसफार्मर कुंडलन 2		ट्रांसफार्मर कुंडलन 3	
	आरंभ	अंत	आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
प्राथमिक (HT)	1.1U	1.2U	1.1V	1.2V	1.1W	1.2W
	2.1U	2.2U	2.1V	2.2V	2.1W	2.2W

— — — — — — —

ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण करना और बदलना (Test and replace transformer oil)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- ट्रांसफार्मर तेल का क्षेत्र परीक्षण करना
- ट्रांसफार्मर तेल का क्रैकल परीक्षण करना
- मानक टेस्ट सेट का प्रयोग करते हुए ट्रांसफार्मर तेल का डाई इलैक्ट्रिक टेस्ट करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)**औजार/मापीयंत्र**

- कांच टम्बलर
- पिपेट
- 200mm dia. व्यास धातु, ट्यूब एक पार्श्व बन्द
- विद्युतरोधित प्लास
- 100 mm योजी पेचकश
- दोहरा सिरा इलैक्ट्रीशन नाइफ़

उपकरण/मशीन

- | | | |
|----------------|--|-----------------|
| - 1 No. | • मानक ट्रांसफार्मर तेल टेस्ट किट उपसाधानों सहित | - 1 No. |
| - 1 No. | • विजली हीटर 1000 watts/250V | - 1 No. |
| सामग्री | | |
| - 1 No. | • नमूना ट्रांसफार्मर तेल (विभिन्न नमूने) | - आवश्यकतानुसार |
| - 1 No. | • आस्वित जल | - आवश्यकतानुसार |

प्रक्रिया (PROCEDURE)**कार्य 1 : क्षेत्र परीक्षण करना**

- 1 वर्क बैंच पर कांच टम्बलर, पिपेट, तेल नमूना और आस्वित जल एकत्र करें ।
- 2 कांच टम्बलर का $\frac{3}{4}$ भाग आस्वित जल से भरें ।
- 3 एक पिपेट के माध्यम से ट्रांसफार्मर तेल की नमूना बूंद लें और एक बूंद आस्वित जल पर गिरायें ।
- 4 तेल पृष्ठ का क्षेत्र देखें और क्षेत्र व्यास और आकार रिकार्ड करें प

a तेल बूंद का आकार
b क्षेत्र के लिए व्यास
c तेल की तरलता अच्छी/खराब

यदि बूंद का आकार बना रहे तो तेल अच्छा है । यदि बूंद का आकार चपटा हो जाता है और व्यास का क्षेत्र 18 mm से कम है तो तेल इस्तेमाल किया जा सकता है । यदि यह अधिक है तो तेल उपयुक्त नहीं है और उसे सुधारा जाना चाहिए ।

कार्य 2 : क्रैकल टेस्ट करना

- 1 स्टील ट्यूब, हीटर और ट्रांसफार्मर तेल का नमूना एकत्र करें ।
- 2 स्टील ट्यूब के बन्द सिरे को गरम करें ।
- 3 तेल नमूना ट्यूब में डालें ।
- 4 ट्यूब का खुला सिरा कान के पास ले जायें और आवाज सुनें ।


5 सुनी गई ध्वनि दर्ज करें ।

a सुनी आवाज
b तेल की हालत है ।

यदि तेल में नमी है तो एक तेज चिटचटाहट की आवाज सुनाई देगी । शुष्क तेल केवल सुरसुराहट करेगा ।

कार्य 3 : डाईइलैक्ट्रिक टेस्ट करना

- 1 तेल परीक्षण सेट का परीक्षण करें तथा निर्माता द्वारा दिये गये निर्देश को पढ़े। (Fig 1)



- 2 ट्रांसफार्मर तेल के एक नमूने को साफ पारदर्शी तथा शुष्क कांच के बोतल में लें। यदि उसमें निर्गम वाल्व हो तो, निर्गम वाल्व से नमूना लें।

यदि निर्गम वाल्व से नमूना लेना संभव न हो तो, संरक्षण टैंक से साइफनी द्वारा नमूने को निकाला जा सकता है।

- 3 कम से कम तीन परीक्षण करने के लिए ट्रांसफार्मर से तीन बोतलों में कम कम से कम तीन नमूने लें।
 4 मानकीय परीक्षण कप को साफ तेल से उसे धोते हुए साफ करें तथा इलेक्ट्रोडों के अन्तराल को इस तरह से समायोजित करें, जिससे कि वह 4 mm का हो।

अंशाकन गेज से अंतराल को मापे, जो सामान्यतः उपकरण के साथ उपलब्ध होता है।

- 5 कप को परीक्षण होने वाले तेल से, कप पर चिन्हाकिंत तल या इलेक्ट्रोड से 1 cm ऊपर तक भरें।
 6 कप को साफ आवरण से बंद करें तथा तेल को स्थिर होने के लिए 5 मिनट का समय दें, जिससे कि सभी वायु के बुलबुले अदृश्य हो जाए।

- 7 यह सुनिश्चित करें कि परीक्षण क्षेत्र, अन्य सभी व्यक्तियों से साफ है।

- 8 वोल्टता नियामक को शून्य स्थिति पर सेट करें।


- 9 आपूर्ति की कुंजी को ओन करें।

- 10 वोल्टता को शून्य से क्रमिक रूप से बढ़ाये जिससे कि पूर्ण वोल्टता, 20 से 30 सेकेन्ड में पहुँच जाए।

यह संभव है कि कुछ बाह्य पदार्थ जैसे सूती कपड़े, की सूक्ष्म परिप्रमाणी लड़ियाँ, गंदगी इत्यादि जिसकी चिंगारी अन्तराल में प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित होने के प्रबल प्रवृत्ति होती है, बहुत आरंभ अवस्था में ही चिंगारी उत्पन्न हो सकती हैं, अर्थात् 20kV पर।

- 11 तेल के अंतिम विभंग तक वोल्टता में वृद्धि करें। परिपथ विच्छेदक ट्रिप हो जायेगा। इसके साथ ही वोल्टमापी को देंखें तथा विभंग वोल्टता के पाठ्यांक को नोट करें। (Fig 2)

Fig 2



स्फूलिंग (sparking) होने के पश्चात् इलेक्ट्रोड को निकट का तेड़ काले रंग में परिवर्तित हो जायेगा।

- 12 दूसरे नमूने में तेल के साथ पद 5 से 11 को दोहरायें।

यह नोट करें कि प्रथम तथा द्वितीय नमूने की विभंग वोल्टता को लगभग समान होना चाहिए।

- 13 तीसरे नमूने के लिए परीक्षण को तैयार करें।

- 14 परीक्षण वोल्टता को 40 KV तक बढ़ाते हुए परीक्षण करें।

- 15 परीक्षण वोल्टता को लगभग 1 मिनट के लिए दें तथा प्रेक्षण करें कि कोई चिंगारी उत्पन्न न हो।

यह नोट करें कि अच्छा तेल, एक मिनट के लिए 40 KV को सहन करना चाहिए।

निष्कर्ष

चूँकि जल, तेल से भारी होता है इसलिए, वह टैंक के निचले भाग में बैठ (settle) जाता है।

- 16 परीक्षण किया हुआ तेल अच्छा है तो उसे ट्रांसफार्मर टैंक में मार्क किए हुए स्तर तक भरें।

छोटे ट्रान्सफार्मर को लपेटने का अभ्यास (Practice on winding of small transformer)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- ट्रान्सफार्मर के कोरों को खोलना
- प्राथमिक तथा द्वितीयक लपेटन के लिए लपेटन तार को मापना तथा आमाप को भी जात करना
- बॉविन का आमाप लेना तथा उचित पदार्थ से बाबिन तैयार करना
- एक-एक परत करके प्राथमिक तथा द्वितीयक लपेटन को लपेटना
- कोर की थप्पी (stack) लगाना तथा उन्हें बांधना
- टर्मिनल बोर्ड में लपेटन सिरों को अन्तक करना
- ट्रान्सफार्मर को रोधन, ट्रान्सफोर्मेशन अनुपात (transformation ratio) तथा निष्पादन का परीक्षण करना
- ट्रान्सफार्मर को अभिकल्प (डिजाईन) करना, जब शक्ति तथा वोल्टता निर्धारण जात हो।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औज्जार/मापीयंत्र	सामग्री
• कैची 150 mm	- 1 No. • सुपर इलामिल्ड तांबा तार
• स्टील रूल 300 mm	- 1 No. • एम्पायर स्टीव 1 mm, 2mm
• फार्मर छैनी 20 mm	- 1 No. • वायु-शुफ्क वार्निश
• हथौड़ा बॉल पीन 0.5 kg	- 1 No. • रैजिन-कोर सोल्डर 16 SWG
• सोल्डर इस्ट्री 25 W, 240V	- 1 No. • सोल्डरन लेप
• DE स्पेनर 6 mm से 25 mm	- 1 No. • चिकना एमरी कागज
• मैलेट कठोर लकड़ी 0.5 kg	- 1 No. • फ्रैबरिक आधारित
• नॉयलान मैलेट 5 cm व्यास	- 1 No. • तथा 6 mm मोटा
• D.E. चाकू 100 mm	- 1 No. • सफाई के लिए सूती कपड़ा
	• रोधन कागज
	— आवश्यकतानुसार
	- 1 m each
	- 100 ml.
	- 10 G
	- 5 g
	- 1 टुकड़ा
	- 3 mm
	- 500sq.cm
	— आवश्यकतानुसार

प्रक्रिया (PROCEDURE)

कार्य 1 : ट्रान्सफार्मर को पुनः लपेटन के लिए खोलना

- 1 निर्धारण प्लेट विवरणों को टेबल 1 में लिखें।
- 2 अपने अभिलेख में ट्रान्सफार्मर के सिरे सम्बंधन टर्मिनल चिन्हाकेन को बनाये।
- 3 लीड के सोल्डर को खोले तथा टर्मिनल पट्टियों को अलग करें, यदि वे कोर के साथ जुड़ी हो तो।
- 4 कोर समुच्चय के नटों को ढीला करें तथा पेंचों को अलग करें, यदि कोई हो तो।

5 कोर से जंडे क्लैम्पों को अलग करें।

6 ट्रान्सफार्मर कोर को नायलॉन के मैलेट से धीरे से चोट दें, जिससे कि कोर ढीला हो जायें।

7 हाइलम / फाइबर के चाकू का उपयोग करते हुए कोर के केंद्र से आरंभ करते हुए स्टैम्पिंग को निकालें।

कठोर थप्पी लगे स्टैम्पिंग की स्थिति में कभी कभी स्टैम्पिंग को ढीला करने के लिए थिनर का उपयोग करें।

टेबल 1

ट्रान्सफार्मर मूल्यांकन पट्टी

कला ट्रान्सफार्मर	क्र. संख्या.....
V.A निर्धारण	आवृत्ति
प्राथमिक वोल्टता.....वोल्ट	द्वितीयक वोल्टता.....volt
प्राथमिक धाराamp	द्वितीयक धारा.....amp
निर्माता	

यदि कसे हुए तथा चिपचिपे स्टैपिंग को अलग करने के लिए धातु के चाकू का उपयोग किया जाता है तो, यह ध्यान रखें कि स्टैपिंग क्षतिग्रस्त न हो। कोर की स्टैपिंग करते समय यह देखें कि स्टैपिंग को बिना मोड़े, सीधे बाहर निकालें।

8 सभी स्टैपिंग को निकाले तथा निम्नलिखित टेबल 2 में अभिलेखित करें।

टेबल 2 कोर का विवरण

कोर का प्रकार	
आकार की स्टैपिंगों की संख्या.....	संख्या.....
आकार की स्टैपिंगों की संख्या.....	संख्या.....

9 बाबिने तथा लेपटन को कपड़े से साफ करें को।

10 रोधन के साथ तथा के बिना टेबल 3 में कुण्डल के मापों को दर्ज करें तथा लपेटन की ऊँचाई तथा लंबाई की जांच करने के लिए टैप्लेट बनाये।

टेबल 3 कुण्डल का साइज

विवरण	रोधन के साथ	रोधन के बिना	टिप्पणी
कुण्डल की ऊँचाईcm cm.	
कुण्डल की लंबाईcm. cm.	


11 लपेटन को सावधानीपूर्वक निकाले। निकालने की प्रक्रिया के समय सभी विवरणों को टेबल 4 में अभिलेखित करें।

12 आपके अभिलेख में उपरोक्त निष्कर्ष से ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक साइडों के योजनाबद्ध आरेख को बनाये।

13 बॉबिन को साफ करें। बॉबिन के विवरण को टेबल 5 में लिखें। आप Fig 1 को देख सकते हैं, जो आपके मार्गदर्शन के लिए दिया गया है।

उसी बॉबिन का उपयोग किया जा सकता है, यदि क्षतिग्रस्त न हो।

Fig 1



ELN27113H1

टेबल 4

लपेटन विवरण

लपेटन / चक्करों की कुल संख्या
परतों की संख्या
चक्कर / परत की संख्या न्यूनतम
परत रोधन प्रकारमोटाईmm.

	रोधन के साथ	रोधन के बिना	कुण्डल का भार
प्राथमिक लपेटन			
प्रथम टेपिंग, चक्करों की संख्या, तार का व्यासmm.mmg
दूसरा टेपिंग, चक्करों की संख्या, तार का व्यासmm.mmg
तीसरा टेपिंग, चक्करों की संख्या....., तार का व्यासmm.mmg
द्वितीयक लपेटन			
लपेटन 1, चक्करों की संख्यातार का व्यासmm.mmg
लपेटन 2, चक्करों की संख्यातार का व्यासmm.mmg
लपेटन 3, चक्करों की संख्या तार का व्यासmm.mmg
कुण्डल रोधन - प्रकार मोटाईmm.			
सम्बंध लीड.....साईज			

टेबल 5

बाबिन विवरण

- 1 बाबिन का प्रकार.....अतः क्षेपी संचन/बनाया गया
- 2 बाबिन पदार्थमोटाईmm.
- 3 बाबिन की लंबाई Lmm, L_1mm, L_2mm.
- 4 बाबिन की चौड़ाई Wmm, W_1mm, W_2mm, W_3mm.
- 5 बाबिन की ऊँचाई H mm, H_1mm, H_2 mm


कार्य 2 : बाबिन को तैयार करना।

- 1 सारणी 5 में लिये गये आंकड़े को देखते हुए तथा Fig 1 के अनुसार, उसी मोटाई की हाइलम/फाईबर की चादर से बाबिन के भागों को बनायें।

मानकीय साइजों के बाबिन के भाग भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें बाबिन बनाने के लिए समुच्चय किया जा सकता है।



- 2 Fig 2 में दर्शाये गये अनुसार जो, आपके मार्ग दर्शन के लिए दिया गया है, बाबिन के भागों को समुच्चय करें।
- 3 समुच्चय बाबिन के आमाप की जाँच करें तथा उसे सारणी 5 में अभिलेखित करें तथा लिये गये आंकड़े से जाँच करें।

अतः क्षेपी संचन (Injection) बाबिन की स्थिति में उसे मानक साइज का मानते हुए बाजार से क्रय किया जा सकता है।



कार्य 3 : ट्रांसफार्मर का पुनः लपेटन

- 1 तैयार किये गये बाबिन के लिए उचित मैन्ड्रल बनाये/ चयन करें जैसा कि Fig 3 में दर्शाया गया है, या लपेटन मशीन के डिजाइन पर निर्भर करते हुए Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार एक लकड़ी का ब्लॉक बनाये।




- 2 मैन्ड्रल/ लकड़ी के ब्लॉक को लपेटन मशीन में पकड़े।

मैन्ड्रल / लकड़ी को ब्लॉक को पकड़ते समय यह देखें कि, लपेटन के समय किसी भी स्थिति में कृत्य ढीला न हो।

- 3 बाबिन को लपेटन मशीन की मैन्ड्रल में, बंधक की सहायता से ढूँढ़ता से स्थिर करें क्योंकि बाबिन को मैन्ड्रल के साथ बिना किसी अंतराल (Play) में घूमना चाहिए। (Fig 5).


Fig 5



ELN2711346


- 4 चयन किये गये लपेटन तार के साइज के लिए उपयुक्त लपेटन मशीन की फीड को, Fig 6 तथा 7 के 1 नम्बर में दर्शाये गये अनुसार गियर को बदले हुए या घर्षण चालित से समायोजित करें।

Fig 6



ELN2711346

Fig 7




ELN2711347

- 5 लपेटन मशीन के गाइड की अनुप्रस्थ फीड को ऐसे समायोजित करें जिससे कि फीड के चलने की लम्बाई, बाविन के अंतरिक साइड की लंबाई के साथ मिलान हो। जिससे कि कुण्डल की लम्बाई को मूल की तरह बनाया जा सके। Fig 6 तथा 7 के नम्बर 2 को देखें। आपको अंतिम सेटिंग करने के पूर्व अनेक प्रयासों (Trail) की आवश्यकता हो सकती है।
- 6 बाविन पर कोर रोधन की तरह कागज या कपड़े की एक परत को बिना सिकुड़न के, सुगमता से रखें।
- 7 सम्बंधन लीड को सोल्डर करें तथा उसे, चयन किये गये लपेटन के आरंभन सिरे के साथ स्लीव करें। लीड तार को बाविन को एक सिरे

पर रखे तथा उसे बाविन के फ्लैन्ज निर्गम में से निकाले तथा स्लिप होने से रोकने के लिए Fig 8 में दर्शाये गये अनुसार एक गांठ बांधें।

Fig 8



ELN2711348

यदि लपेटन तार की मोटाई पर्याप्त अधिक हो तो, सम्बंधन लीड तार का सोल्डरन करना आवश्यक नहीं होगा।

- 8 लपेटन आरंभ करें तथा यह जांच करने के लिए कम से कम एक परत को पूर्ण करें, कि क्या कुण्डल की लम्बाई मूल की तरह बाविन में अंदर है। यदि नहीं तो अनुप्रस्थ फीड को पुनः समायोजित करें।

लपेटन तार के संगत चक्करों को अतिव्यापन नहीं होना चाहिए, या उनके बीच अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो तो, फीड को समायोजित करें।


- 9 टेबल 4 में दिये गये आंकड़े के अनुसार प्रत्येक परत में चक्करों की निर्दिष्ट संख्या तथा बीच में आवश्यक रोधन को उपलब्ध करते हुए एक-एक परत आरंभ करें तथा लगातार लपेटें।

- 10 निर्दिष्ट संख्या के चक्करों को लपेटने के बाद, सिरे की लीड को सोल्डर करें तथा उसे बाविन फ्लैन्ज निर्गत में से बाहर निकालें।

यदि कुण्डल में लपेटन के अनेक टेप हो तो, तार को कभी न करें। इसके बदले लम्बाई को लम्बे पाश (लूप) में मोड़े तथा लगातार लपेटने के लिए तार को लें। पाश तार को फिर अन आवरणित किया जा सकता है, तथा फिर टर्मिनल के बाहर जोड़ा जा सकता है।

- 11 प्राथमिक लपेटन की जांच करने के बाद, सारणी 4 में दिये गये आंकड़े के अनुसार पर्याप्त रोधन के साथ Fig 9 में दर्शाये गये अनुसार लपेटन को लपेटें।

Fig 9



ELN2711349

12 टेबल 4 में लिये गये आंकड़े में दर्शाये गये अनुसार उचित द्वितीयक लपेटन तार का चयन करें।

ट्रांसफार्मर में एक या अधिक द्वितीयक लपेटन या टैप्ड लपेटन उपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभिलेखित आंकड़े को अनुपालित करें तथा प्रकार्य 1 के पद 12 में दर्शाये गये सम्बंधन आरेख को भी देखें।

13 लपेटन के अंत में, लपेटन पर कसकर रोधन को लपेटे तथा बांधे।

बंधन को, लपेटन को पूर्णतः आवरणित करना चाहिए तथा सिकुड़न से मुक्त होना चाहिए तथा कुण्डल डिस्क फ्लैन्ज से आगे नहीं निकलना चाहिए।

कार्य 4 : ट्रांसफार्मर के कोर की थप्पी लगाना (E & I)

- Fig 10a में दर्शाये गये अनुसार दोनों साइडों से बाबिन में 'E' पटलित को डालें।
- बाये हाथ की साइड (L.H.S.) से डाले गये के नीचे, दाये हाथ की साइड से (R.H.S.) के पटलित को स्थित करें।
- L.H.S., 'E' टुकड़े के मुक्त सिरे में 'I' पटलित (Lamintion) को रखें, जैसा कि Fig 10b में है।

Fig 10(a)





Fig 10(b)



यह सुनिश्चित करें कि 'I' में खाँचा R.H.S ; E पटलित में संगत खाँचे के ऊपर है।

पटलित समुच्चय को स्पाट तथा समतल होना चाहिए।

14 लीड के उचित अन्तक के लिए कुण्डल की जांच करें तथा टेबल 3 में लिये गये आंकड़े तथा टेमप्लेट के उपयोग से आमाप की जांच करें।

15 लपेटनों को अविच्छिन्नता तथा लघु पथित के लिए परीक्षण करें।

यदि लपेटन आंकड़ा उपलब्ध न हो या नये ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना तथा लपेटना हो तो अभ्यास नं. 1202, सम्बंधित सिद्धांत में अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुपालित करें।

4 यह सुनिश्चित करें कि वह बाबिन के सापेक्ष टाइट फिट हो।

विपरीत साइड से दूसरे 'E' आकार के पटलित को डाले।


5 'I' आकार के पटलित को स्थिति में रखें।

यह सुनिश्चित करे कि वह प्रथम "E" पटलित पर समतल रहे।

6 इसी तरह से बिना किसी अंतराल के, एकान्तर रूप से पटलित को डाले जैसा कि Fig 11 में दर्शाया गया है।

यह सुनिश्चित करे कि जब सभी निर्दिष्ट मात्रा के पटलित को डाल दिया गया हो तो समुच्चय का ठीक माप हो, इलेपटलितों से मुक्त हो तथा ठीक अंतरस्थित पटलित हो।

Fig 11



ELN27113-HB

7 समुच्चय पर मूल की तरह दोनों ऊपरी तथा निचली क्लैप प्लेटों को फिट करें। (Fig 12a तथा 12b)

पटलितों में कोर के खाँचों को संरेखित करते समय विशेष ध्यान दें।

यह सुनिश्चित करें कि स्थित करने वाले बोल्टों को सरलता से डाला जा सके।



- 8 क्लैप प्लेटों में से स्थिर करने वाले बोल्टों को धकेले।
- 9 निर्दिष्ट बंधनों का उपयोग करें तथा समुच्चय को करें।
- 10 ट्रांसफार्मर को वायु त्र-शुष्क वार्निश मे डुबोते हुए वार्निश करें तथा उसे निष्कासन (Drain) करें।
- 11 बाहर निकले लीड के तारों पर निर्दिष्ट रोधन स्लीव को स्थिर करें।
- 12 निर्दिष्ट टर्मिनल बोर्ड को प्राप्त करें तथा प्रत्येक बाहर निकलने वाली लीड को निर्दिष्ट छिद्रों में से गुजारे।

यह सुनिश्चित करें कि सभी स्लीव लगी हुई लीड, सही स्थित है।

यह जाँच करें कि सभी लीडों पर स्लीव तथा प्रत्येक छिद्र पर अन्तक हो। अर्थात् टर्मिनल बोर्ड में कोई अन आवर्णित लीड नहीं, दिखाना चाहिए।


- 13 टर्मिनल बोर्ड को स्थिति में रखें जैसा कि Fig 13 में दर्शाया गया है।
- 14 टर्मिनल बोर्ड को निर्दिष्ट स्टडों से सुरक्षित करें।
- 15 यह जाँच करें कि कोई भी लीड को टर्मिनल बोर्ड तथा कोर के बीच न दबे।
- 16 प्रत्येक बाहर निकलने वाली लीड के तार तथा उसके सोल्डरन टैग के बीच निर्दिष्ट जोड़ बने। निर्दिष्ट यांत्रिक जोड़ बनाये।
- 17 प्रत्येक जोड़ को सोल्डर करें तथा Fig 13 देखें गये अनुसार वर्थ तारों को काटें।

Fig 12(a)



EN27113HD

Fig 13



EN27113HD

कार्य 5 : लपेटन के पश्चात् ट्रांसफार्मर का परीक्षण

- 1 मैगर से अविच्छिन्नता के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक लपेटनों के लिए परीक्षण करें।
- 2 प्राथमिक तथा द्वितीयक लपेटन प्रतिरोध को मापें तथा टेबल 6 में अभिलेखित करें।

टेबल 6

ट्रांसफार्मर लपेटन प्रतिरोध

प्राथमिक प्रतिरोध	ohm
द्वितीयक 1 प्रतिरोध	ohm
द्वितीयक 2 प्रतिरोध	ohm
द्वितीयक 3 प्रतिरोध	ohm

- 3 लपेटन तथा फ्रेम के बीच रोधन प्रतिरोध को मापें तथा टेबल 7 में अभिलेखित करें।

टेबल 7

रोधन तथा प्रतिरोध के बीच

प्राथमिक तथा द्वितीयक लपेटन	megohm
द्वितीयक लपेटन	megohm
(पृथक लपेटन की स्थिति में)	
लपेटन तथा फ्रेम	megohm

- 4 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक लपेटन को निर्धारण बोल्टता से जोड़े। द्वितीयक को खुला रखते हुए प्राथमिक तथा द्वितीयक बोल्टता का परीक्षण करें। निष्कर्ष को टेबल 8 में अभिलेखित करें।

टेबल 8

शून्य भार मापना

प्राथमिक वोल्टता	वोल्ट
द्वितीयक वोल्टता	
1	volt
2	volt
3	volt

- 5 कोर की कंपन ध्वनि का प्रेक्षण करें। यदि यह असमान हो तो, स्टैपिंग को कसे, कुण्डल के कसाव के लिए भी जांच करें।
- 6 ट्रांसफार्मर को उचित भार से जोड़े जिससे कि पूर्ण भार धारा, द्वितीयक में से प्रवाहित हो तथा भार पर वोल्टता तथा धारा को टेबल 9 में दर्ज करें।

टेबल 9

भार मापन

प्राथमिक वोल्टता	volt
प्राथमिक धारा.....	amp
द्वितीयक वोल्टता	volt
द्वितीयक धारा	amp

- 7 ट्रांसफार्मर को आठ घंटे के लिए लगातार पूर्ण भार पर रखें। स्पर्श करते हुए कोर तथा लपेटन के ताप में परिवर्तन को प्रेक्षण करें। यदि ताप में वृद्धि, रोधन की श्रेणी में हो तो, ट्रांसफार्मर ठीक है।

कार्य 6 : लपेटन के बाद ट्रांसफार्मर का परीक्षण

- 1 ग्राहक से निम्नलिखित आंकड़ा को एकत्र करें:
- निर्गत शक्ति तथा आवृत्ति
 - निवेशी तथा निर्गत वोल्ट
 - भार निर्धारण (अंत्रायक या लगातार)
- 2 अभ्यास क्रं. 1202 के लिए सम्बंधित सिद्धांत में रूप रेखित प्रक्रिया को अनुपालित करें तथा ट्रांसफार्मर का माप, बाबिन, प्राथमिक तथा

द्वितीयक में चक्करों की संख्या तथा प्राथमिक तथा द्वितीयक के लिए लपेटन तार के आमाप का ज्ञात करें।

- 3 ट्रांसफार्मर कोर को खोलने के अतिरिक्त, इस कृत्य शीट में कथित प्रक्रिया को अनुपालित करें तथा लपेटन को पूर्ण करें।

ट्रान्सफार्मर के सामान्य अनुरक्षण का अभ्यास (Practice of general maintenance of transformer)

उद्देश्य : इस अभ्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- ट्रान्सफार्मर का घंटावार अनुरक्षण करना
- ट्रान्सफार्मर का दैनिक अनुरक्षण करना ।

आवश्यकताएँ (Requirements)**औज्जार/मापीयत्र**

- इलेक्ट्रिशियन टूल किट

सामग्री

- 1 No.

- सिलिका जेल सक्रियकरण के लिए अपेक्षित मद्दें
- स्पेयर रिलीफ डायाफ्राम

नोट : अनुदेशक प्रशिक्षार्थियों को ट्रान्सफार्मर यार्ड में ले जा सकते हैं और अनुरक्षण पद्धतियों का प्रदर्शन कर सकते हैं ।

प्रक्रिया (PROCEDURE)**कार्य 1 : घंटावार अनुरक्षण करना**

- 1 उपलब्ध ऐमीटर द्वारा ट्रान्सफार्मर की द्वितीयक लोड धारा पढ़ें और नोट करें ।
- 2 नाम-पट्टि विवरण के अनुसार इस मान को निर्धारित मान के साथ चैक करें ।
- 3 यदि निर्धारित मान से लोड धारा अधिक है तो निमानुक्रम अनुसार ट्रान्सफार्मर पर लोड घटाएँ ।
 - a परिपथ वियोजक विमोचित करें ।
- b लोड फीडर बन्द करके जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ।
- c पुनः चार्ज करें और परिपथ वियोजक चालू करें ।
- 4 प्राथमिक लाइन वोल्टता, लाइन धारा और द्वितीयक लाइन वोल्टता और लाइन धारा के मान टेबल 1 में दर्ज करें ।
- 5 थर्मोस्टैट डायल या थर्मामीटर द्वारा सूचित तैल तापमान नोट करें और टेबल 1 में दर्ज करें ।

टेबल 1

3Φ ट्रान्सफार्मर के घंटावार अनुरक्षण के लिए अनुरक्षण चार्ट

क्र. सं.	तारीख & समय	प्राथमिक लाइन वोल्टता		द्वितीयक लाइन वोल्टता		द्वितीयक धारा Current		पावर फैक्टर	तेल तापमान	उपयुक्त
		फेस	वोल्टता (V)	फेस	वोल्टता (V)	फेस	धारा Amps में			
1		1U - 1V		2U - 2V		2U				
2		1V - 1 W		2V - 2W		2V				
3		1W - 1U		2W - 2U		2W				

— — — — — — —

कार्य 2 : ट्रांसफार्मर का दैनिक अनुरक्षण करना

- 1 निम्नानुक्रम अनुसार निर्जलन श्वासक का निरीक्षण करें ।
 - a चैक करें कि वायु मार्ग साफ़ है, यदि नहीं तो साफ़ करें ।
 - b सक्रिय कारक यानी सिलिकाजेल का रंग चैक करें ।
 - c यदि सिलिकाजेल का रंग गुलाबी है तो निम्नानुक्रम में इसका सक्रियकरण करें ।
- 2 एक उथली ट्रे में सिलिकाजेल क्रिस्टल एकत्र करें और 200°C पर उन्हें पकाए ।
- 3 जब क्रिस्टलों का रंग नीला हो जाता है तो श्वासक को पुनः सक्रिय नीले क्रिस्टलों से भर दें ।
- 4 ट्रांसफार्मर में तैल का निरीक्षण करें ।
- 5 संरक्षी दृश्य कांच देखें और ट्रांसफार्मर का तैल तल चैक करें ।
- 6 यदि तैल तल निम्न है तो साफ़ ट्रांसफार्मर तेल भरकर निकास वाल्व में से तल आपूर्ण करें ।
- 7 यदि थोड़े ही समय में तैल तल पर्याप्त घट जाता है तब तेल रिसन के लिए टंकी चैक करें ।
- 8 यदि ट्रांसफार्मर टंकी में लीक है तो अनुदेशक के परामर्श से रिसाव रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।
- 9 विमोचन डायाफ्राम का निरीक्षण करें ।
- 10 ट्रांसफार्मर का विस्फोट निर्गम देखें और विमोचन डायाफ्राम की स्थिति चैक करें और टेबल 2 में प्रेक्षण दर्ज करें ।
- 11 यदि इसमें दरक है या टूटा है तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता सप्लाई विलग करने के बाद इसे बदल दें ।

टेबल 2

3Φ तैल शीतित ट्रांसफार्मर के दैनिक अनुरक्षण के लिए अनुरक्षण चार्ट

तारीख	समय	तैल तल	सिलिकाजेल का रंग	विमोचन डायाफ्राम की हालत	टिप्पणी/की गई कार्यवाही

— — — — —

परियोजना कार्य (Project Works)

उद्देश्य : इस अध्यास के अन्त में आप यह जान सकेंगे :

- अपनी रुचि के अनुसार परियोजना कार्य का चुनाव करना
- आवश्यक सामग्री की सूची बनाना और उनको प्राप्त करना
- आवश्यक औजारों की सूची बनाना
- परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करना
- परियोजना को बनाएं और परियोजना रिपोर्ट को समस्त विवरण सहित जमा करना ।

नोट: अनुदेशक को परियोजना कार्य से संबंधित जानकारी देनी होगी। प्रशिक्षार्थीयों को ग्रुप में बांटा जा सकता है और कार्यकुशलता और सूक्ष्मता की संपूर्ण जानकारी, कार्य को कैसे पूरा किया जाना है, ये जानकारी दी जा सकती है।

- प्रोजेक्ट वर्क की शुरूआत के लिए विभिन्न चरण जिसका अनुपालन करना होगा ।
- ग्रुप को तकनीकी कार्यों के लिए प्रेरित करें और भविष्य की सम्भावनाओं के बारे में बताएं।
- कार्य को समान बांटें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रुचि से कार्य करें।
- परियोजना कार्य को शुरू करें, चरण दर चरण परीक्षण करें और पूर्ण करें ।
- पूर्ण प्रोजेक्ट कार्य को कार्यत्मक परीक्षण और उपयोगिता परीक्षण करें।
- तकनीकी मानकों निर्धारणात्मक, आवश्यक सामग्री, मूल्य, परिचालन, अनुरक्षण, उपयोगिता और मार्केटिंग सहित एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं।
- रिपोर्ट में भविष्य में इसके विस्तार की सम्भावनाएं, सरलीकरण और विकास भी हो।

- अनुदेशक से जाँच कराएं।
- परियोजना को समस्त कार्यात्मक निर्देश आर आवश्यक प्रक्रिया जैसे स्विच, कंट्रोलस, लेबलस और संकेत सहित बनाएं।
- सुरक्षात्मक घटकों को परियोजना में इनके कार्य को स्थान दें।
- मरम्मत और देखभाल के स्पष्ट निर्देश दें।

नोट : अनुदेशक परियोजना के सभी अभिलेखों और रिपोर्टों का मूल्यांकन करें। अंक परियोजना कार्यविधि, सूक्ष्मता, कार्यकुशलता, सुरक्षा दृष्टि और इसके प्रदर्शन और मौखिक प्रश्नोत्तर के आधार पर अंक दें।

परियोजना कार्य (Project work)

- 1 विद्युत उपकरणों का ओवलरोड से संरक्षण ।
- 2 गली की लाइट/रात्रि लैम्प का स्वचालित नियंत्रण ।
- 3 रिले का प्रयोग करते हुए फ्यूज और पावर का फेइल्यर संकेत ।
- 4 द्वार अलार्म सूचक ।
- 5 विद्युत फ्लैशर के साथ सजावटी बत्तियाँ ।